

IN MEMORY
OF
G. A. NATESAN
(FOUNDER, G. A. NATESAN & CO. & INDIAN REVIEW)



BORN 24-8-1873]

[DIED 10-1-1949

GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Edited under the supervision of
the Curator of State Libraries,
Baroda.

NO. XIII.

प्राचीन-गुर्जर-काव्यसंग्रहः

PRÂCHÎNA
CURJARA-KÂVYASANGRAHA

PART I

EDITED

BY

THE LATE MR. C. D. DALAL, M. A.,

SANSKRIT LIBRARIAN, CENTRAL LIBRARY,

BARODA.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HIS HIGHNESS THE MAHARAJA GAEKWAD OF BARODA.

CENTRAL LIBRARY

BARODA.

1920.

Published by Janardan Sakharam Kudalkar, M. A., LL. B., Curator of State Libraries
Baroda, for the Baroda Government, and Printed by Manilal Itcharam Desai, at
**The Gujarati Printing Press, No. 8, Sassoon Buildings
Circle, Fort, Bombay.**

Price Rs. 2-4-0

FOREWORD.

Owing to the untimely death of Mr. C. D. Dalal, M.A., the editor, this work is published for the present without its Introduction and Notes. We are also aware that owing to the great pressure of other work that Mr. Dalal had on his hands at the time he was editing this work, he could not correct the several mistakes that have crept in the text.

Scholars of old Gujarati are only a few in number and those few are not free or prepared to undertake to complete this work just at present. Hence this First Part of the work containing only the Text is sent out to the public with a promise that it will be followed soon with a Second Part which will contain a critical Introduction and Notes written by the veteran old Gujarati scholar Mr. Keshav Harshad Dhruva, B. A., of Ahmedabad.

10-4-20

J. S. KUDALKAR.
Curator of State Libraries.]

APPENDICES.

						Page.
I	श्रीवस्तुपाळतीर्थयात्रावर्णनम्	1
II	रेवयकप्पसंखेवो	8
III	उज्जयन्तस्तवः	10
IV	उज्जयन्तमहातीर्थकल्पः	12
V	रैवतकल्पः	15
VI	अम्बिकादेवीकल्पः	17
VII	श्रीगिरिनारकल्पः	19
VIII	Inscription of the Reign of Alap Khan in the temple of Sthambhana Pârsvanatha at Cambay	22
IX	Inscriptions on the Satrunjaya Hill pertaining Samarâ's installation of the image of Âdishvara	23
X	पेथडरासः	24



प्राचीनगूर्जरकाव्यसङ्ग्रहः

प्रथमो भागः

रेवंतगिरिरासु

परमेसरतिल्येसरह पयपंकय पणमेवि ।
भणिसु रासु रेवंतगिरे अंबिकदिवि सुमरेवि ॥ १ ॥
गामागरपुरवणगहणसरिसरवरि सुपएसु ।
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठदेसु ॥ २ ॥
जिणु तहिं मंडलमंडणउ मरगयमउडमहंतु ।
निम्मलसामलसिहरभरे रेहइ गिरि रेवंतु ॥ ३ ॥
तसु सिरि सामिउ सामलउ सोहगसुंदरसारु ।
जाइवनिम्मलकुलतिलउ निवसइ नेमिकुमारु ॥ ४ ॥
तसु मुहदंसणु दसदिसि वि देसदेसंतरु संघ ।
आवइ भावरसालमणउ हलि रंगतरंग ॥ ५ ॥
पोरुयाडकुलमंडणउ नंदणु आसाराय ।
वस्तुपाल वरमंति तहिं तेजपालु दुइ भाय ॥ ६ ॥
गुरजरधरधुरि धवलकि वीरधवलदेवराजि ।
बिहु बंधवि अवयारियउ सूमू दूसममाझि ॥ ७ ॥
नायलगच्छह मंडणउ विजयसेणसूरिराउ ।
उवएसिहि बिहु नरपवरे धम्मि धरिउ दिहु भाउ ॥ ८ ॥
तेजपालि गिरनारतले तेजलपुरु नियनामि ।
कारिउ गढमढपवपवरु मणहरु घरि आरामि ॥ ९ ॥

तहि पुरि सोहिउ पासजिणु आसारायविहारु ।
 निम्मिउ नामिहि निजजणणि कुमरसरोवरु फारु ॥ १० ॥
 तहि नयरह पूरवदिसिहि उग्रसेणगढदुग्गु ।
 आदिजिणेसरपमुहजिणमंदिरि भरिउ समग्गु ॥ ११ ॥
 बाहिरिगढ दाहिणदिसिहि चउरियवेहिविसालु ।
 लाडुकलहहियओरडीय तडि पसुठाइकरालु ॥ १२ ॥
 तहि नयरह उत्तरदिसिहि सालथंभसंभार ।
 मंडण महिमंडल सयल मंडप दसह उसार ॥ १३ ॥
 जोइउ जोइउ भवियण पेमिं गिरिहि दुयारि ।
 दामोदरु हरि पंचमउ सुवन्नरेहनइपारि ॥ १४ ॥
 अगुण अंजण अंबिलीय अंबाडय अंकुल्लु ।
 उंबरु अंबरु आमलीय अगरु असोय अहल्लु ॥ १५ ॥
 करवर करपट करुणतर करवंदी करवीर ।
 कुडा कडाह कयंब कड करव कदलि कंपीर ॥ १६ ॥
 वेयलु वंजलु बउल वडो वेडस वरण विडंग ।
 वासंती वीरिणि विरह वंसियालि वण वंग ॥ १७ ॥
 सींसमि सिंबलि सिरसमि सिंधुवारि सिरखंण ।
 सरल सार साहार सय सागु सिगु सिणदंड ॥ १८ ॥
 पल्लवफुल्लफुल्लसिय रेहइ ताहि वणराइ ।
 तहि उज्जिलतलि धम्मियह उल्लट्टु अंगि न माइ ॥ १९ ॥
 बोलावी संघहतणीय कालमेघंतरपंथि ।
 मेलहविय तहिं दिढ घणीय वस्तपाल वरमंति ॥ २० ॥

(प्रथमं कडवम्)

दुविहि गुज्जरदेसे रिउरायविहंडणु ।
 कुमरपालु भूपालु जिणसासणमंडणु ।
 तेण संठाविओ सुरठदंडाहिवो ।
 अंबओ सिरे सिरिमालकुलसंभवो ।
 पाज सुविसाल तिणि नठिय ।
 अंतरे धवल पुणु परव भराधिय ॥ १ ॥

धनु सु धवलह भाउ जिणि पाग पयासिय ।
बारविसोत्तरवरसे जसु जसि दिसि वासिय ।
जिम जिम चडहं तडि कडणि गिरनारह ।
तिम तिम ऊडहं जण भवणसंसारह ।
जिम जिम सेउजलु अग्गि पालाट ए ।
तिम तिम कलिमलु सयलु ओहट्ट ए ॥ २ ॥
जिम जिम वायइ वाउ तहि निज्झरसीयलु ।
तिम तिम भवदुहदाहो तक्कणि तुट्टइ ।
निच्चलु कोइलकलयलो मोरकेकारवो ।
सुंमए महुरमहुरुगुंजारवो ।
पाज चडंतह सावयालयणी ।
लाषारामु दिसि दीसए दाहिणी ॥ ३ ॥
जलदजालवबाले नीझरणि रमाउलु ।
रेहइ उज्जिलसिहरु अलिकज्जलसामलु ।
वहलवुहुधातुरसभेउणी ।
जत्थ उलदलइ सोवन्नमइ मेउणी ।
जत्थ दिप्पंति दिवो सही सुंदरा ।
गुहिर वर गरुय गंभीर गिरिकंदरा ॥ ४ ॥
जाइ कुंदु विहसंतो जं कुसुमिहि संकुलु ।
दीसइ दस दिसि दिवसो किरि तारामंडलु ।
मिलियनवलवलदलकुसुमझलहालिया ।
ललियसुरमहिवलयचलणतलतालिया ।
गलियथलकमलमयरंदजलकोमला ।
विउल सिलवट्ट सोहंति तहिं संमला ॥ ५ ॥
मणहरघणवणगहणे रसिरहसिय किंनरा ।
गेउ मुहुरु गायंतो सिरिनेमिजिणेसरा ।
जत्थ सिरिनेमिजिणु अच्छप अच्छरा ।
असुरसुरउरगकिंनरयविज्जाहरा ।
मउडमणिकिरणपिंजरियगिरिसेहरा ।
हरसि आवंति बहुभक्तिभरनिब्भरा ॥ ६ ॥

सामियनेमिकुमारपयपंकयलंबिउ ।
 धरधूल वि जिण धन्न मन पूरइ वंछिउ ।
 जो भव कोडाकोडि ।
 अन्नु सोवन्नु घणु दाणु जउ दिज्जए ।
 सेवउ जडकम्मघणगंठि जउ तिज्जए ।
 तउ उज्जितसिहरु पाविज्जए ॥ ७ ॥
 जम्मणु जोव जीविय तसु तहिं कयत्थू ।
 जे नर उज्जितसिहरु पेक्कइ वरतित्थू ।
 आसि गुरजरधरय जेण अमरेसरु ।
 सिरिजयसिंघदेउ पवरु पुहवीसरु ।
 हणवि सोरठु तिणि राउ पंगारउ ।
 ठविउ साजणु दंडाहिवं सारउ ॥ ८ ॥
 अह्णिणवु नेमिजिणिंद तिणि भवणु कराविउ ।
 निम्मलु चंदरु विवे नियनाउं लिहाविउ ।
 थोरविकंभवायंभरमाउलं ।
 ललियपुत्तलियकलसकुलसंकुलं ।
 मंडपु दंडघणु तुंगतरतोरणं ।
 धवलिय वज्जिरुणझणिरिकिकणिघणं ।
 इक्कारसयसहीउ पंचासीय वच्छरि ।
 नेमिभुयणु उद्धरिउ साजणि नरसेहरि ॥ ९ ॥
 मालवमंडलगुहमुहमंडणु ।
 भावडसाहु दालिधुखंडणु ।
 आमलसारसोवन्नु तिणि कारिउ ।
 किरि गयणंगण सूरु अवयारिउ ।
 अवरसिहरवरकलस झलहलइ मणोहर ।
 नेमिभुयणि तिणि दिट्ठइ दुह गलइ निरंतर ॥ १० ॥

(द्वितीयं कडवम्)

दिसि उत्तर कसमीरदेसु नेमिहि उम्माहिय ।
 अजिउ रतन दुइ बंध गरुय संघाहिव आविय ॥ १ ॥

हरसवसिण घणकलस भरिवि ति न्हवणु करंतह ।
 गलिउ लेवमु नेमिबिंबु जलधार पडंतह ॥ २ ॥
 संघाहिवु संघेण सहिउ नियमणि संतविउ ।
 हा हा धिगु धिगु मह विमलकुलगंजणु आविउ ॥ ३ ॥
 सामियसामलधीरचरण मह सरणि भवंतरि ।
 इम परिहरि आहार नियमु लइउ संघधुरंधरि ॥ ४ ॥
 एकवीसि उपवासि तामु अंबिकदिवि आविय ।
 पभणइ स पसन्न देवि जय जय सदाविय ॥ ५ ॥
 उट्टेविणु सिरिनेमिबिंबु तुलिउ तुरंतउ ।
 पच्छलु मन जोएसि वच्छ तुं भवणि वलंतउ ॥ ६ ॥
 णइ वि अंबि".....कंचण"बलाणइ ।
बिंबु मणिमउ तहिं आणइ ॥ ७ ॥
 पढमभवणि देहलिहि देउ छुडि पुडि आरोविउ ।
 संघाहिवि हरिसेण तम दिसि पच्छलु जोइउ ॥ ८ ॥
 ठिउ निच्चलु देहलिहि देउ सिरिनेमिकुमारो ।
 कुसुमवुट्टि मिल्लेवि देवि किउ जइजइकारो ॥ ९ ॥
 वइसाहीपुंनिमह पुंनवतिण जिणु थप्पिउ ।
 पच्छिमदिसि निम्मविउ भवणु भवदुहतरु कप्पिउ ॥ १० ॥
 न्हवणविलेवतणीय वंछ भवियणजण पूरिय ।
 संघाहिव सिरिअजितुरतनु नियदेसि पराइय ॥ ११ ॥
 सयलवित्ति कलिकालि कालकलुसे जाणवि छाहिउ ।
 झलहलंति मणिबिंबकंति अंबिकुरुं आइय ॥ १२ ॥
 समुद्विजयसिवदेविपुत्तु जायवकुलमंडणु ।
 जरासिंधदलमलणु मयणभडमाणविहंडणु ॥ १३ ॥
 राइमईमणहरणु रमणु सिवरमणि मणोहरु ।
 पुनवंत पणमंति नेमिजिणु सोहगुसुंदरु ॥ १४ ॥
 वस्तपालि वरमंति भूयणु कारिउ रिसहेसरु ।
 अट्टावयसंमेयसिहरवरमंडपुमणहरु ॥ १५ ॥
 कउडिजकु मरुदेवि दुह वि तुंगु पासाइउ ।
 धम्मिय सिरु धूणंति देव वलिवि पलोइउ ॥ १६ ॥

तेजपालि निम्मविउ तत्थ तिहुयणजणरंजणु ।
 कल्याणउ तउ तुंगु भुयणु लंघिउगयणंगणु ॥ १७ ॥
 दीसइ दिसि दिसि कुंडि कुंडि नीझरणउमालो ।
 इंद्रमंडपु देपालि मंत्रि उद्धरिउ विसालो ॥ १८ ॥
 अइरावणगयरायपायमुद्दासमटंकिउ ।
 दिट्ठु गयंदमु कुंड विमल्लुनिज्झरसमलंकिउ ॥ १९ ॥
 गयणगंगं जं सयलतित्थअवयारु भणिज्झइ ।
 पक्कालिवि तहि अंगु दुक्क जलअंजलि दिज्झइ ॥ २० ॥
 सिंदुवारमंदारकुरबककुंदिहि सुंदरु ।
 जाइजूइसयवत्तिविन्निफलेहि निरंतरु ॥ २१ ॥
 दिट्ठु य छत्रसिलकडणि अंबवणु सहसारामु ।
 नेमिजिणेसरदिक्कनाणनिव्वाणह ठामु ॥ २२ ॥

(तृतीयं कडवम्)

गिरिगरुयासिहरि चडेवि अंबजंबाहिं बंबालिउं ए ।
 संमिणी ए अंबिकदेविदेउल्लु दीट्ठु रम्माउलं ए ॥ १ ॥
 वज्जइ ए तालकंसाल वज्जइ मदल गुहिरसर ।
 रंगिहिं नच्चइ बाल पेखिवि अंबिकमुहकमल्लु ॥ २ ॥
 सुभकरु ए ठविउ उच्छंगि विभकरो नंदणु पासिक ए ।
 सोहइ ए ऊजिलसिंगि सामिणि सीहसिंघासणी ए ॥ ३ ॥
 दावइ ए दुक्कहं भंगु पूरइ ए वंछिउ भवियजण ।
 रक्कइ ए चउविट्ठु संघु सामिणि सीहसिंघासणी ए ॥ ४ ॥
 दस दिसि ए नेमिकुमारि आरोही अवलोइउं ए ।
 दीजई ए तहि गिरनारि गयणंगणु अवलोणसिहरो ॥ ५ ॥
 पहिलइ ए सांबकुमारु बीजइ सिहरि पज्जून पुण ।
 पणमइं ए पामइं पारु भवियण भीसण भवभमण ॥ ६ ॥
 ठामि ठामि रयणसोवन्न बिंब जिणेसर तहिं ठविय ।
 पणमइ ए ते नर धन जे न कलिकालि मलमयलिया ए ॥ ७ ॥
 जं फल्लु ए सिहरसमेयअट्ठावयनंदीसरिहिं ।
 तं फल्लु ए भवि पामेइ पेखेविणु रेवंतसिहरो ॥ ८ ॥

गहगण ए माहि जिम भाणु पन्वयमाहि जिम मेरुगिरि ।
 त्रिहु भुयणे तेम पहाणु तित्थमाहि रेवंतगिरि ॥ ९ ॥
 धवलधय चमर भिंगार आरत्ति मंगलपईव ।
 तिलय मउड कुंडल हार मेघाडंबर जावियं ए ॥ १० ॥
 दियहिं नर जो पवर चंद्रोय नेमिजिणेसरवरभुयणि ।
 इह भवि ए भुंजवि भोय सो तित्थेसरसिरि लहइ ए ॥ ११ ॥
 चउविहु ए संघु करेइ जो आवइ उज्जितगिरे ।
 दिविस बहू रागु करेइ सो मुंचइ चउगइगमणि ॥ १२ ॥
 अठविह ए ज्जय करंति अठाई जो तहिं करइ ए ।
 अठविह ए करम हणंति सो अठभवि सिज्झइ ए ॥ १३ ॥
 अंबिल ए जो उपवास एगासण नीवी करइं ए ।
 तसु मणि ए अछइं आस इहभव परभव विवहपरे ॥ १४ ॥
 पेमिहि मुणिजण अन्नह दाणु धम्मियवच्छलु करइं ए ।
 तसु कही नहीं उपमाणु परभाति सरण तिणउ ॥ १५ ॥
 आवइ ए जे न उज्जिति घर धरइ धंधोलिया ए ।
 आविही ए हीयह न जंति निप्फलु जीविउ सासुतणउं ॥ १६ ॥
 जीविउ ए सो जि परि धनु तासु संमच्छर निच्छणु ए ।
 सो परि ए मासु परि धनु बलि हीजइ नहि वासर ए ॥ १७ ॥
 जहिं जिणु ए उज्जिलठामि सोहगसुंदरु सामलु ए ।
 दीसइ ए तिहूणसामि नयणसलूणउं नेमिजिणु ॥ १८ ॥
 नीझरण चमर ढलंति मेघाडंबर सिरि धरीइं ।
 तित्थह एसउ रेवंदि सिंहासणि जयइ नेमिजिणु ॥ १९ ॥
 रंगिहि ए रमइ जो रासु सिरिविजयसेणिसूरि निम्मविउ ए ।
 नेमिजिणु तूसइ तासु अंबिक पूरइ मणि रली ए ॥ २० ॥

(चतुर्थ कडवम्)

॥ समत्तु रेवंतगिरिरासु ॥

नेमिनाथचतुष्पदिका

सोहगसुंदरु घणलायन्तु सुमरवि सामिउ सामलवन्तु ।
 सखि पति राजल चडि उत्तरिय बारमास सुणि जिम बज्जरिय ॥ १ ॥
 नेमिक्कुमरु सुमरवि गिरनारि सिद्धी राजल कन्नकुमारि ॥ आंकिणी ॥
 श्रावणि सरवणि कडुयं मेहु गज्जइ विरहिरि झिज्झइ देहु ।
 विज्जु झबक्कइ रक्कसि जेव नेमिहि विणु सहि सहियइ केम ॥ २ ॥
 सखी भणइ सामिणि मन झूरि दुज्जणतणा म वंछित पूरि ।
 गयउ नेमि तउ विणठउ काइ अछइ अनेरा वरह सयाइ ॥ ३ ॥
 बोलइ राजल तउ इहु वयणु नन्थी नेमिसमं वररयणु ।
 धरइ तेजु गहगण सवि ताव गयणि न उग्गइ दिणयरु जाव ॥ ४ ॥
 भाद्रवि भरिया सर पिक्केवि सकरुण रोअइ राजलदेवि ।
 हा एकलडी मइ निरधार किम ऊवेषिसि करुणासार ॥ ५ ॥
 भणइ सखी राजल मन रोइ नीठुरु नेमि न अप्पणु होइ ।
 सिंचिय तरुवर परि पलवंति गिरिवर पुण कड डेरा हुंति ॥ ६ ॥
 साचउं सखि वरि गिरि भिज्जंति किमइ न भिज्जइ सामलकंति ।
 घण वरिसंतइ सर फुटंति सायरु पुण घणुओह डुलिति ॥ ७ ॥
 आसोमासह अंसुप्रवाह राजल मिल्हइ विणु नमिनाह ।
 दहइ चंदु चंदणहिमसीउ विणु भत्तारह सउ वि वरीउ ॥ ८ ॥
 सखि नवि खीना नेमिहिरेसि मन आपणपउं तउं खय नेसिं ।
 जिणि दिक्काडिउ पहिलउं छेहु न गणिउ अट्टभवंतरनेहु ॥ ९ ॥
 नेमि दयालू सखि निरदोसु कीजइ उग्रसिणऊपरि रोसु ।
 पसुयभराविउ मूकउ वाडु मुञ्जु प्रियसरिसउ कियउ विहाडु ॥ १० ॥
 कत्तिग क्षित्तिग उग्गइ संझ रजमति झिझिउ हुइ अतिझंझ ।
 राति दिवसु अछइ विलवंत वलि वलि दय करि दयकरि कंत ॥ ११ ॥
 नेमितणी सखि मूकि न आस कायरु भग्गउ सो घरवास ।
 इमइ इसी सनेहल नारि जाइ कोइ छंडवि गिरनारि ॥ १२ ॥
 कायरु किम सखि नेमिजिणंदु जिणि रिणि जित्तउ लक्कु नरिंदु ।
 फुरइ सासु जा अग्गलि नास ताव न मिल्हउं नेमिहि आस ॥ १३ ॥

मगसिरि मग्गु पलोअइ बाल इणपरि पभणइ नयणविसाल ।
जो मइ मेलइ नेमिकुमार तसुणी वेल वहउ सविवार ॥ १४ ॥
एहु कदाग्रहु तउ सखि मिलिह करिसि काइ तिणि नेमिहि हिल्लि ।
मंडि चडाविउ जो किर मालि हे हे कु करइ टोहणकालि ॥ १५ ॥
अठभव सेविउ सखि मइ नेमि तसु ऊमाहउ किम न करेमि ।
अवगन्नेसइ जइ मइ सामि लग्गी अछिसु तोइ तसु नामि ॥ १६ ॥
पोसि रोस सवि छंडिवि नाह राखि राखि मइ मयणह पाह ।
पडइ सीउ नवि रयणि विहाइ लहिय छिइ सवि दुक्क अमाइ ॥ १७ ॥
नेमि नेमि तू करती मुद्धि जुव्वणु जाइ न जाणिसि सुद्धि ।
पुरिसरयणभरियउ संसारु परणि अनेरउ कुइ भत्तारु ॥ १८ ॥
भोली तउ सखि खरी गमारि वरि अच्चंतइ नेमिकुमारि ।
अन्नु पुरिसु कुइ अप्पणु नडइ गइवरु लहिउ कु रासभि चडइ ॥ १९ ॥
माहमासि माचइ हिमरासि देवि भणइ मइ प्रिय लइ पासि ।
तइ विणु सामिय दहइ तुसारु नवनवमारिहि मारइ मारु ॥ २० ॥
इहु सखि रोइसि सहु अरन्नि हत्थि कि जामइ धरणउ कन्नि ।
तउ न पती जिसि माहरी माइ सिद्धिरमणिरत्तउ नमि जाइ ॥ २१ ॥
कंति वसंतइ हियडामाहि वाति पहीजउं किमह लसाइ ।
सिद्धि जाइ तउ काइत बीह सरसी जाउ त उग्रसेणधीय ॥ २२ ॥
फागुण वागुणि पन्न पडंति राजलदुक्कि कि तरु रोयंति ।
गग्भि गलिवि हउं काइ न मूय भणइ विहंगल धारणिधूय ॥ २३ ॥
अजिउ भणिउ करि सखि विम्मसि अछइ भला वर नेमिहि पास ।
अनु सखि मोदक जउ नवि हुंति छुहिय सुहाली कि न रुचंति ॥ २४ ॥
मणह पासि जइ वहिलउ होइ नेमिहि पासि ततलउ न कोइ ।
जइ सखि वरउं त सामल धोरु घणविणु पियइ कि चातकु नीर ॥ २५ ॥
चैत्रमासि वणसइ पंगुरइ वणि वणि कोयल टहका करइ ।
पंचबाण करि धनुष धरेवि वेइइ मांडी राजलदेवि ॥ २६ ॥
जुइ सखि मातउ मासु वसंतु इणि खिलिज्जइ जइ हुइ कंतु ।
रमियइ नव नव करि सिणगारु लिज्जइ जीवियजुव्वणसारु ॥ २७ ॥
सुणि सखि मानिउ मुहु परिणयणु नवि ऊवरि थिउ बंधववयणु ।
जइ पडिवन्नइ चुक्कइ नेमि जीविय जुव्वणु जलणि जलेमि ॥ २८ ॥

वइसाहह विहसिय वणराइ मयणमित्तु मलयानिलु वाइ ।
 फुट्टि रि हियडा माझि वसंतु विलवइ राजल पिक्किउ कंतु ॥ २९ ॥
 सखी दुक्क वीसरिवा भणइ संभलि भमरउ किम रुणझुणइ ।
 दीस पंच थिरु जोव्वणु होइ खाउ पियउ विलसउ सहु कोइ ॥ ३० ॥
 रमणि पसंसइ राजल कन्न जीह कंतु वसि ते पर धन्न ।
 जसु प्रिउ न करइ किमइ मुहाडि सा हउं इक्क ज भुंडनिलाडि ॥ ३१ ॥
 जिट्टु विरहु जिम तप्पइ सूरु घणविओगि सुसियं नइपूरु ।
 पिक्किउ फुल्लिउ चंपइविल्लि राजल मूछी नेहगहिल्लि ॥ ३२ ॥
 मूछी राणी हा सखि घाउं पडियउ खंडइ जेवडु घाउ ।
 हरिय मूछ चंदणपवणेहिं सखि आसासइ प्रियवयणेहिं ॥ ३३ ॥
 भणइ देवि विरती संसार पडिखि पडिखि मइ जादवसार ।
 नियपडिवन्नउं प्रसु संभारि मइ लइ सरिसी गढि गिरिनारि ॥ ३४ ॥
 आसादह दिहु हियउं करेवि गज्जु विज्जु सवि अवगन्नेवि ।
 भणइ वयणु उग्रसेणह जाय करिसु धम्मु सेविसु प्रियपाय ॥ ३५ ॥
 मिलिउ सखी राजल पभणंति चिणय जेम नमिरिय खल्लंति ।
 अउगी अच्छि सखि झखि मन आल तपु दोहिल्लउ तउं सुकुमाल ॥ ३६ ॥
 अठ भव विलसिउ प्रियह पसाइ किमइ जीवु सखि सुख न ध्राइ ।
 हिव प्रिय सरिसउं जीविय मरणु इण भवि परभवि निमि जु सरणु ॥ ३७ ॥
 अधिकु मासु सवि मासहि फिरइ छहरितुकेरा गुण अणुहरइ ।
 मिलिवा प्रिय उबाहुलि हूय सउ मुकलाविउ उग्रसेणधूय ॥ ३८ ॥
 पंच सखीसइ जसु परिवारि प्रिय ऊमाही गइ गिरिनारि ।
 सखीसहित राजल गुणरासि लेइ दिक्क परमेसरपासि ॥ ३९ ॥
 निम्मल केवलनाणु लहेवि सिद्धी सामिणि राजलदेवि ।
 रयणसिंहसूरि पणमवि पाय बारइ मास भणिया मइ भाय ॥ ४० ॥
 नेमिकुमरु सुमरवि गिरिनारि सिद्धी राजल कन्नकुमारि ।

इति श्रीविनयचन्द्रसूरिकृतनेमिनाथचतुष्पदिकाः ॥

उवएसमालकहाणयछप्पय

छप्पयच्छंद

विजय नरिंद जिणिंदवीरहत्थिहिं वय लेविणु ।
 धम्मदासगणि नामि गामि नयरिहिं विहरइ पुणु ।
 नियपुत्तह रणसीहराय पडिबोहणसारिहिं ।
 करइ एस उवएसमालजिणवयणवियारिहिं ।
 सयपंचच्यालगाहारयणमणिकरंड महियलि मुणउ ।
 सुहभावि सुद्ध सिद्धंतसम सवि सुसाहु सावय सुणउ ॥ १ ॥
 रिसहनाह निरहार वरिस विहरिउ अपमत्तउ ।
 बद्धमाण छम्मास करइ तप गुणाहि निरुत्तउ ।
 अवर वि जिणवर दिक्क लेवि तव तवइ सुनिम्मल ।
 तिणि कारणि उपदेशमाल धुरि तप किय बहुफल ।
 नियसत्तिसारि अणुसारि इणि तपआदर अह्निसि करउ ।
 भो भविय भावि जम्मणमरणदुहसमुह दुत्तर तरउ ॥ २ ॥
 सब्व साहु तुम्हि सुणउ गणउ जग अप्पसमाणउ ।
 कोह कह वि परिहरउ धरउ समरस सपराणउ ।
 तिहुयणगुरु सिरिवीर धीर पण धम्मधुरंधर ।
 दासपेसदुच्चवयण सहइ घणदुसह निरंतर ।
 नरतिरियदेवउवसग्ग बहु जह जगगुरु जिणवर खमइ ।
 तिम खमउ खंति अग्गलि करी जेम्म रिउदलबल नमइ ॥ ३ ॥
 सब्व सुणइ जिणवयण नयणउल्हासिहिं गोयम ।
 जाणइ जइ वि सुयत्थ तह वि उच्छइ पहु कहु किम ।
 भइकचित्त पवित्त पढम गणहर सुयनाणी ।
 न करइ गव्व अपुव्व करवि मनि मन्नइ वाणी ।
 छंडीइ मान ज्ञानहतणउ विणउ अंगि इम आणीइ ।
 गुरुभत्ति कह वि नवि मिल्हीइ ग्रंथकोडि जइ जाणीइ ॥ ४ ॥
 दहिवाहणनिवधूय वीरजिणपढमपवत्तणि ।
 चंदनबाल विसाल गुणिहिं गज्जइ गुहिरप्पणि ।

अह्निसि रायकुंयारिसहस सेवइं पय भत्तिहिं ।
 जाणइ नाणनिहाण माण पुण नाणइ चित्तिहिं ।
 दिणदिक्खिय देखिय आवतु द्रमक साधु सा ऊठि करी ।
 अभिगमण नमण वंदण विणय सुणइ वयण आणंदभरी ॥ ५ ॥
 वाणारसिनयरीनरिंद नामिहिं संवाहण ।
 पुर अंतेउर पवर अवर ह्य गय बहु साहण ।
 कन्नासहस सुखुव अछइ पुण पुत्त न इक्कय ।
 राय पत्त पंचत्त लच्छि लिवइ रिउ दुक्कय ।
 नेमित्तिवयणि राणीउयरि कुंयर जाणि पट्टिहिं चविउ ।
 तिणि अंगवीरि अरि त्रासुवी रज्जबंध सह राहविउ ॥ ६ ॥
 कियसिंगारउदार अंग आरीसइ पिरकइ ।
 पाणी पडी मुंद्रडी सयल तणु तिणिपरि दिक्कइ ।
 अंतेउरआवासि पासि भववासि विरत्तउ ।
 भरहेसर वरझाण नाण केवल संपत्तउ ।
 णउ चक्कवट्टि विसयारसिहिं रमइ रंगि जणु इम गणइ ।
 तसु अप्पकज्ज अप्पिहिं सरिउं किं परजणजाणावणइ ॥ ७ ॥
 सेणिय करइ पसंस दुमुहदुव्वयणि निवारइ ।
 रायरिसि कासग्गि रहिउ रणि अरिअण मारइ ।
 सिरककज्जि सिरि हत्थ घल्लि संजम संभालइ ।
 मनिहिं बद्ध बहु पाप आप आपिहिं पक्कालइ ।
 गति कहइ वीर सत्तम नरय मगहराय अचरिज भयउ ।
 तिणि समइ देव जय जय भणइं प्रसनचंद केवलि जयउ ॥ ८ ॥
 भरहसरिसु बल झुज्झि बुज्झ संजम अणुसरयु ।
 कुण वंदइ लहुभाय ठाय तिणि कासग्ग करयु ।
 इह ऊपानं नाण माण धरि वच्छर रहियु ।
 सहइ भुक्क बहु दुक्क तह वि न हु केवल लहियु ।
 नियवहिनिबंभिसुंदरिवयणि मयमयगल जव परिहरइ ।
 रिसहेसरनंदणबाहुबलि सयल कज्ज तरकणि सरइ ॥ ९ ॥
 कहिय इंदि अतिरूप सुणिय सुर बंभणवेसिहिं ।
 पुहवि पत्त मज्जणइ रूप पेक्कइं सुविसेसिहिं ।

कियसिणगार सणंकुमार नरनाह निरंतरु ।
 हक्कारइ अत्थाणि जाणि आवि देसंतरु ।
 खणि देहि हाणि इम वयण सुणि रज्ज छंडि संजम ग्गहिउ ।
 सयसत्त वरिस चारित्तधर सहइ रोग लद्धिहिं सहिउ ॥ १० ॥
 करइ रज्ज कंपिल्लनयरि छखवंडनरेसर ।
 जाइसमरणि जाणि पुण्वभवबंधव मुणिवर ।
 बोहइ बहु उवएस सहसि पुण तोइ न बुज्झइ ।
 भोग भवतरि बद्ध तिण विसयारस मुज्झइ ।
 सो बंधदत्त बंधणि किउ अंध अधिक पातग करी ।
 संपत्तउ सत्तउ सत्तमनरगि सु जि साधु पत्त सिद्धं पुरी ॥ ११ ॥
 सेणियकुलि कोणियनरिंदसुय निवइ उदाइय ।
 पाडलिपुरि गुरुभत्त रत्त पोसहसामाइय ।
 खत्तियपुत्त जाणि तिणि देसह कट्ठिउ ।
 उज्जेणिं पज्जोयराय ओलगइ अणिट्ठिउ ।
 इणि वयरि अवर अलहंत छल वरिस बार व्रत धारयुं ।
 तिणि दुट्ठि तह वि अवसर लहवि निव उदाइ निसि मारयु ॥१२॥
 चंपापुरि सुंनार नारिसयपंचह सामी ।
 सासिमत्त अहरत्ति गेह नवि छंडइ कामी ।
 तिणि मारी इक नारि अवरनारिहिं सो मारीउ ।
 पढम भज्ज नररूपि विप्पकुलि सो पुण नारीउ ।
 सयपंच भज्ज जे चोर तस घरणि इकु सा नारि हूय ।
 पहुवीरपासि पुच्छइ सु नर जा सा सा सा विप्पधूय ॥ १३ ॥
 कोसंबी ससि सूर वीर वंदइ सविमाणय ।
 मिग्गवइ महासत्ति जंत चंदण नवि जाणइ ।
 निसि एकल्ली जाइ पाइ लग्गेवि खमावइ ।
 पडिवज्जइ नियदोस रोस मिल्लइ मिल्लावइ ।
 सुहभावि शुद्ध केवल भयु भुजग विनाणिहि जाणियउ ।
 जिम पवत्तणी स भवपार गय विनय अंगि तिम आणियउ ॥१४॥
 जंबूकुमर विलासभवणि पडिबोहइ भज्जइ ।
 प्रभव पंचसयजुत्त पत्त तहिं परधणकज्जइ ।

कणयनवाणुंकोडि छोडि व्रत वंछइ सुहमणि ।
 तं पिक्कवि तसु वयणि सयल पडिबुज्झइ तरुणि ।
 सगवीसअधिकसयपंचसिउं रायग्गिहि संजम लयउ ।
 सो दसमि पंचमगणहरह सीस चरिमकेवलि भयउ ॥ १५ ॥
 सुंसुमरागिहिं रत्त पत्त रायग्गिहिनयरिहिं ।
 दास चिलाइपुत्त जुत्त धणघरि बहुचोरिहिं ।
 कुंयरि करीय करि नट्ट दुट्ट अडविहिं अणुसरिउ ।
 वाहर पत्तउ पुट्टि सिट्टि पुत्तिहिं परिवरिउ ।
 सो रिक्कि दिक्खि त्रिहु अक्षरिहिं खग्गसीस छंडइ करम ।
 कीडियहं कट्टि अढइ दिवसि सहरसारि दीसइ परम ॥ १६ ॥
 जायवपुत्त जिणिंदसीस ढंढण गुणजुग्गह ।
 अंतराय जाणिइ लेइ नियलद्धि अभिग्गह ।
 वारवई छम्मास भमइ गुणि रमइ समिद्धउ ।
 भुक्क दुक्क बहु सहइ लहइ आहार न सुद्धउ ।
 मोदक्कसीहकेसरसहिय कर्म कूटि केवल कलिउ ।
 संपत्त सिद्धि संपत्ति सुह तपतरु इम पुप्फिय फलिउ ॥ १७ ॥
 हुंति जि पंडियपवर अवरदुन्वयणि न कुप्पइ ।
 खंदगसूरिसुसीस जेम आयार न लुप्पइ ।
 पालयकयउवसग्ग लग्ग मण तीहं सज्झाणिहिं ।
 जंत्तिहिं जीविय चत्त पत्त सवि सिद्धइ ठाणिहिं ।
 सो अग्गिदहू नरगिहिं गयउ वाडव भव भमिसिइ घणउ ।
 भो भविय भावि इम कोह अरि खंतिखग्गि हेलां हणउ ॥ १८ ॥
 पुज्जइ सुरवर पाय राय नितु नमइं निरग्गल ।
 तपि सिज्झइं नवनिद्धि सिद्धि सवि सरइं समग्गल ।
 तपह लेस हरिएसबलह जिम जगि जस होवइ ।
 न कुलक्कम न प्पसिद्धि रिद्धि नवि तसु कुइ जोवइ ।
 तिंदुक्क जक्क पयतलि लुलइ बहुवंभण बोहिय बलिहिं ।
 कोसलियधुयपरिणीति जीय भजीय सुद्धि अच्छिपक्कुलिहिं ॥ १९ ॥
 एसु साहुआचारसार जइ लोभि न डुल्लइ ।
 वयरसामि संपत्त नयरि पाडल सम तुल्लइ ।

सुणवि तासु गुणवत्तं रत्तं धणसिद्धिकुमारी ।
 कणयकोडिसंजुत्तं पत्तं सासइं वरनारी ।
 गुरुरयणवयणपडिबोहं सुणि सुद्धसीलसंजमि रहिं ।
 जिम तेणि मुक्कं तिमं मुक्कीइ रमणि रयणकोडिहिं सही ॥ २० ॥
 नंदिसेण दोहगगनडिउ निद्धणबंभणसुय ।
 भवविरत्तं चारित्तं गहवि तव तवइ अचब्भुय ।
 वेयावच्चपसंसं इंदकियकसिहिं पहुत्तउ ।
 बंधिय अंति नियणं सग्गि सत्तमि सो पत्तउ ।
 दसचउरसारनरखयरधूयसहसबहुत्तरिमणिवर ।
 सोहगगसार वसुदेव हूय हरिकुल वंसपयासकर ॥ २१ ॥
 पत्तं दिवसि चारित्तं कन्हलहुबंधव रयणिहिं ।
 गयसुकुमाल मसाणि रहिउ कासगि जिणवयणिहिं ।
 बंभणि बंधवि पालि सीसि वइसानर दिद्धउ ।
 सिरह सरिस दुक्कम्म दहवि मुणि तस्सणि सिद्धउ ।
 तस दुद्धदुरियभारभूरिय उयर फुट्टं नरय गगमह ।
 जिम सहिउं तेणि तिमं संसहु लहु लच्छि सुपरक्कमह ॥ २२ ॥
 थूलभइ गुरुवयणि कोसवेसाहरि पत्तउ ।
 चित्तसालि चउमासि रहिउ रसविगइनिरत्तउ ।
 पुण्ववेर संभारि समर समरंगणि जित्तउ ।
 जिणसासणि जयवंतं सुहड सुपरिहिं विदित्तउ ।
 खरखगगधारसिरि संचरिउ सरिउ सीह जिम इक्कमन ।
 जे सीलभाव दुद्धर धरइं ते सुसाहु ते धन्न धन ॥ २३ ॥
 तवसी इक्क उपकोसगेहिं गिउ गुरु अवमन्निय ।
 थूलभइमुणिसरिसु करिसु तव इम मनि मन्निय ।
 अत्थलाभ सुणि वयण रयणकंबल भणि चल्लइ ।
 सहवि अवत्थ सुवत्थ आणि वेसाकरि मिल्हइ ।
 चंपेवि खालि पडिबोहिउ सुगुरुपासि पत्तउ भणइ ।
 निंदीइ लोकि सो गुरुवयण अप्पमाण इह जो कुणइ ॥ २४ ॥
 गुणिअणसरिसउं गण्व म करि मूरख मच्छरि वसि ।
 न हु निव्वडइ समत्थ जइ वि गहइ गयमरकसि ।

सुहृडभणी संभृतविजय दुक्कर ति पसंसिय ।
 तसु सीसिहिं पुण थूलभदमुणिवरगुण खिसिय ।
 तिणि कम्मि कोसवेसिहिं नडिऊ चडिउ हत्थ दुज्जणतणइ ।
 अपकित्ति अलिय अज्ज वि अजस महिमंडलमाहि ऋणझणइ ॥२५॥
 म करउ मच्छर माण जाण सरिसउ जगि कोइ ।
 पूरउ पुण्य प्रभावि पावि पुण हीणउ होइ ।
 बाहुसुबाहु सुसाहु सुणवि गुण किउ मनि मच्छर ।
 तिणि हीणत्तण पत्त पीढमहपीढिहिं दुहकर ।
 परजम्मि बंभिसुंदरि सुधूय महि महिला महियलि मुणउ ।
 सिरिरिसहभरहबाहुबलिहिं त्रिहुं प्रभाव पुन्नहतणउ ॥ २६ ॥
 अणगल नीर विपार सुहम जीवाइअरक्कण ।
 इण कारणि बहुकट्ट अप्पफल कहइ वियक्कण ।
 छट्ठिहिं सट्ठिसहस्स वरिस तप तपइ अज्ञानिहिं ।
 पारण पुण इकवीसवारजलधोइयधानिहिं ।
 सो तामलि रिसि एरिस तपी मास दुन्नि अणसणि सरिउ ।
 ऊपान्न इंद्र ईसाणि तिणि सुक्कमग्ग न हु अणुसरिउ ॥ २७ ॥
 कंबलरयणविनाणि जाणि जग उत्तमचंगिम ।
 नरवरपिक्कणि जाइ माइ पुत्तह पभणइ इम ।
 आवि इक्क खण पुत्त पत्त सेणिय तुह मंदिर ।
 लेउ क्रियाणउं माइ ठाइ ठावउ जिणि तिणि परि ।
 न क्रयाणउं कुइ एउ सामि तुम्ह सालिभइ य वयण सुणि ।
 भववासविरत्त चरित्त लिइ छंडि सुक्क सहु कणयमणि ॥ २८ ॥
 अयवंतीसुकुमाल नयरि उज्जेणि पसिद्धउ ।
 नलिणीगुलमविचार सुणवि तक्कणि पडिबुद्धउ ।
 अज्जसुहत्थिमुणिंदहत्थि वय लेवि मसाणिहिं ।
 कासगि रहिउ सीयालि खड्ड मण लग्गु विमाणिहिं ।
 सुहझाणि ठाणि तिणि सुर हुओ रमणि वत्तिसे व्रत लिउ ।
 तसु नंदणि तिणि थानकि पछइ महाकालदेउल किउ ॥ २९ ॥
 रायग्गिहि मेयज्ज भज्जनववर विवहारिउ ।
 पुब्बमित्त सुरि बोहि दिक्क दुक्किहिं लेवारिउ ।

विहरंतउ तिहिं पत्त दुट्ठसोनारह मंदिरि ।

कौचि कणय जव खद्ध वद्ध बद्धउ तिणि तस सिरि ।

दढघाइ दिट्ठि दुइ नीकलीय ढलिय धरणि निच्चलु भयउ ।

तस पंखिप्राण रक्षा करी धरी ध्यान सिद्धिहि गयउ ॥ ३० ॥

धणगिरिघरणिमुन्दउयरि जायउ जाईसर ।

छम्मासिउ पिउपासि वयर संपत्तउ वयधर ।

तस समीवि मुणिकज्जि गुरिहिं वायण अणुजाणीय ।

धन्न सीहगिरिसीस जेहिं मन्निय इय वाणीय ।

जे माणगण मनि परिहरी सुगुरुवयण इम सहहइ ।

ते सुद्ध साधु सुकुलीण सविगुणनिहाण गुरुयडि लहइ ॥ ३१ ॥

संगमसूरि गिलाण वासि संजमविहि ररुइ ।

धम्मच्छलि तस सीस दत्त गुरुदोस निरिखइ ।

खित्तविहार सविज्ज पिंड अंगुलि दिप्पंतिय ।

नित्यवास नितु सरसु असणु दीवय मणि चित्तिय ।

मन्नंतउ मुनि अप्पउं सगुण निगुण भणवि गुरु परिभवइ ।

घोरंधयार घण सह करि सम्मदिट्ठि सुर मिक्खवइ ॥ ३२ ॥

वद्धमाण विहरंत नयरि सावत्थिहिं आवइ ।

गोसालउ चउसाल आप तिन्थयर भणावइ ।

मंग्वलिपुत्तसरुव कहइ पहु पुच्छिउ मीमिहिं ।

जिणवरसंमुह मुक्क तेउलेसा तिणि रीसिहिं ।

तं पिक्कि सुगुरुपरिभव असह सुनक्कत्त मुनि विचि थयउ ।

तिणि तेजि दट्ठु आराधना करवि सग्गि अच्युति गयउ ॥ ३३ ॥

नाहियवादि नरिंद नयरि सेतंबी पणसी ।

पाससीस विहरंत पत्त तहिं गणहर केसी ।

नरयगमणि इकचित्त सुगुरुवयणिहिं पडिबोहिउ ।

सावयधम्म सुरम्म करवि तिणि अप्पउं सोहिउं ।

लहुकालि काल करि सु जि सरिउ सूरिआभसुविमाणि सुर ।

इम दुरियदुक्क दूरिहिं हणी सयल सुक्क साधइ सुगुरु ॥ ३४ ॥

तुरमिणिपुरीनरिंद दत्त बंभणकुलि बहुबल ।

माउलकालिगसूरिपासि पुच्छइ जन्नह फल ।

अंगपीड अंगमिय सुगुरु सच्चं चिय जंपइ ।

जागि जीववधि नरय सुणवि सु जि कोपइं कंपइ ।

अहिनाण जाण सत्तमदिवसि मलप्रवेश मुहि तुझतणइ ।

दक्खिन्न दुट्ठभय परिहरिय धम्मवयण मुणि इम भणइ ॥ ३५ ॥

आसि मरीइ मुणिंद भरहसुय नियवय छंडइ ।

कियपरिवायगवेस रिसहपहुसरिस त हिंडइ ।

पडिबोहइ बहुलोय दिक्क जिणपासि लिवारइ ।

अन्नदिवसि अतिकुटिल कपिल तसु वयण विचारइ ।

तसु शिष्यकाजि फुड नवि कहइ इत्थ उत्थि बहु धम्म छइ ।

भव कोडिसागर भमिउ हुउ वीरजिण तउ पछइ ॥ ३६ ॥

कन्हमरणि बलभइ तवइ तव तुंगियगिरिसिरि ।

जाइ सरण इक हरिण रहइ अह्निसि रिषिपरिसरि ।

कट्टकज्जि रहकार पत्त वनि साख कपावइ ।

जिमणवेल जाणेवि लेवि मुणि मृग तहिं आवइ ।

ओ दियइ दान ओ सुद्धतप ओ बिहुगुण मनि चितवइ ।

सिरि पडइ डाल समकाल त्रिहुं बंभलोय सुरगति हवइ ॥ ३७ ॥

पूरणसिद्धि बिभेलगामि लिइ तापसदिसका ।

दीण खयरजलथलचरह अप्प चिहुभागिहिं भिसका ।

बारवरिस बहुकट्ट छट्टतप करइ दयाविण ।

पायालिहिं चमरिंद चमरचंचाहिव हुय तिण ।

अभिमाणि सग्गि सोहम्मि गयउ वज्जदंड पिक्कवि पुलिउ ।

सिरिधीरनाहपयतलि रहिउ तउ सयल वि धंधलु टलिउ ॥ ३८ ॥

सुसुमारपुररोहि कहइ निव सउणसमीहओ ।

वारत्तयरिषि भीयबालप्रति भणइ म बीहउ ।

इयवयणह बलि धंधमारि पज्जोय सु जित्तउ ।

नेमित्तिउ भणि हसइ राउ रिसिपासि पहुत्तउ ।

इम गिहिपसंग सुट्टयमुणिह थोडउ अइमालिन्नकर ।

परिहरइं दूरि इण कारणिहिं सच्चसंग चारित्तधर ॥ ३९ ॥

चंदवडिस नरिंद नयरि साकेइ सुसावय ।

निश्चिइं नियआवासि सुट्ट सामाइय ठावय ।

दीवअवधि कासग्ग करिय निच्चल हुइ पालइ ।
 दासी पुण दीवेल घल्लि चउपहर उजालइ ।
 पूरिय प्रतिज्ञ प्रहउग्गमणि परम प्रीति पामिउ पवर ।
 सुकुमालअंग सुहझाणमण सग्गलोइ संपन्न सुर ॥ ४० ॥
 सावय सागरचंद रहिउ कासग्गि महावनि ।
 कमलामेलाहरणवैर नभसेन धरइ मनि ।
 घल्लइ सिरि अंगार तह वि सो झाणनिरत्तउ ।
 पोसहवय दढ पालि टालि दुह सग्गि पहुत्तउ ।
 जइ हुंति दुसह उवसग्ग सहइ स गिहत्थ सुकुमालतणु ।
 ता अइदुद्धरचारित्तधर साहु केम न सहंति पुण ॥ ४१ ॥
 चंपापुर अढारकोडिधणवइ कोहुंबिय ।
 पोसह करि कासग्गि रहिउ निसि भुज आलंबिय ।
 इंद्रप्रसंस असहहत अमरेहिं परिक्किय ।
 मत्तगइंदभुयंगघोररक्कसभय दक्किय ।
 न हु चलिउ मेरूचूलाअचल कामदेव गिहवइ सुधिर ।
 पहुवीर पयासिउ प्रहसमइ सीसवग्गअग्गलि सुविर ॥ ४२ ॥
 रायग्गिहि इक रंक अछइ अइदुक्किउ अग्गइ ।
 उज्जाणी जण जत्त पत्त तहिं भिक्क सु मग्गइ ।
 अलहंतउ अइरोसि दोसि नियकम्मिहिं नडिउ ।
 चूरिसु लोग समग्ग एम चित्तिय गिरि चडिउ ।
 ढोलेइ टोल परवततणा गडघडाट सुणि नट्ट सहु ।
 पाषाणि तेणि सो चंपिऊ नरयदुक्क पामिऊ दुसहु ॥ ४३ ॥
 वद्धमाण वय लिद्ध जाव बीजऊ वरसालऊ ।
 मुंड तुंड मंडेवि पुंठि विलगऊ गोसालऊ ।
 जिणवयणिहिं विधि जाणी तेजलेइया तपि साधी ।
 तह अट्टंगनिमित्त कह वि विज्जा तिण लाधी ।
 उम्मग्गचारि अनरथभरिउ गुरुद्रोही गरविहिं नडिउ ।
 मंखलिसुय मोघ किलेस करि दुहसायरि दुत्तरि पडिउ ॥ ४४ ॥
 दढपहारि वड चोर जाइ कुसथलिसिउं चोरिहिं ।
 खीरकज्जि धावंत विप्प मारिउ तिणि घोरिहिं ।

बंभणभञ्ज सगन्ध हणिय बालक फुरकंतउ ।
 पिस्सवि भववेरगि लेइ संजम दिप्पंतउ ।
 संभरणअवधि छंडिय असण तिणि ज गामि छम्मास रहि ।
 अक्कोस बंधवह दुसहसह सिद्धि पत्त दुक्कम दहि ॥ ४५ ॥
 वीरसेणसेवक सहसमल्ल त्ति पसिद्धउ ।
 कालसेनरिउराय जेण विहुबांहिहिं बद्धउ ।
 तिणि गुणि संग्वनरिदि किद्ध सामंत विदित्तउ ।
 वेरगिहिं व्रत लेवि तीण अरिदेसि पहुत्तउ ।
 पच्चारिय पूरव बाहुबल कालसेनि कुट्टाविउ ।
 सब्बट्टसिद्धि सुरवर सरिउ कोह कह वि तस नाविउ ॥ ४६ ॥
 सावत्थीनिवकणयकेतुसुय न्वंदग नाभिहिं ।
 दिस्स लेवि जिणकप्प करइ विहरइ पुरगामिहिं ।
 व्रत लिद्धइ तस ताय नेहिं सिरि छत्त भरावइ ।
 तह वि अबद्धउ बंधुपासि कंतीपुरि आवइ ।
 तस बहिन सुनंदा रायघरि मग्गि जंतु तिणि दिट्ठ मुणि ।
 नरवरि अलीकशंका धरिय हरिय प्राण तस तिणि रयणि ॥ ४७ ॥
 दीरघसिउं रइरत्तचित्त चुलुणी मयणातुरि ।
 बंभदत्तनियपुत्तदहण दसइ लस्काहरि ।
 वरधन मंत्रि सुरंगसंगि रक्खिउ परपंचिहिं ।
 फिरिय फिरिय महिमज्झि रज्ज पुण लहइ सुसंचिहिं ।
 इह कस्स कोइ न हु वल्लहउ भवसरूप नडपिक्कणउं ।
 मुहियां जि मूढ मोहिय भणइ हणइ कज्ज पर तहतणउ ॥ ४८ ॥
 तेयलिपुरि निव कणयकेतु पउमावइ राणी ।
 मंत्री तेयलिपुत्त भञ्ज तस पुट्टिल नाणी ।
 जाय मत्त सवि पुत्त राय निय लोभि मरावइ ।
 राणी मंत्रि कहेवि एक सुय छन्न रहावइ ।
 नरनाह पत्त पंचत्त सु जि कुंयर राय महतइ कियउ ।
 महतउ पुण पुट्टिलसुरवयणि पडिबुद्धउ केवलि थियउ ॥ ४९ ॥
 रज्जलोभ मनि धरवि भरह पहुत्तउ समरंगणि ।
 बाहुबलिहिं तहिं दिट्ठिसुट्ठिसुज्झिहिं जित्तउ खणि ।

रोसि चडिउं रणि चक्क भरह भाइसिरि मिल्हइ ।
 धिग विसयारसि लुद्ध मुद्ध सासयसुह ठिल्लइ ।
 इम चित्ति चिंति संजम सबल वाहुब्बलि कासगि रहिउ ।
 भरहेसर पत्त अवज्झपुरि भायनेह कित्तिम कहिउ ॥ ५० ॥
 भज्जा विसयविकारिभारि पइमारणि चल्लइ ।
 सूरियकंत कलत्त भत्तभीतरि विस घल्लइ ।
 रायपणसि सुधम्म रम्म पोसहवय पारिय ।
 करइ पारणउं जाव ताव तक्कणि विसि धारिय ।
 सुहज्जाणि ठाणि निअ आणि मण सग्गलोइ संपन्न सुर ।
 दुक्कमचारि सा नारि पुण भमइ भूरि भव भीडभर ॥ ५१ ॥
 वीरवयणि जाणेवि नरय सेणिय चिंतह मनि ।
 कोणिय रज्ज ठवेसु लेसु संजम जाई वनि ।
 हल्लविहल्लहं हार गुरुयगयवरसिउ दिञ्चउ ।
 कूड करी कोणिक्कि रायसेणिय तव बद्धउ ।
 नियताय कट्टपंजरि धरी खाण पाण बे राहवइ ।
 सयपंच घाय दिणि दिणि दियइ पुत्तनेह एरिस हवइ ॥ ५२ ॥
 वणियपुत्त चाणिक्क कवड बहुबुद्धि वियाणइ ।
 चंदगुत्तसाहिज्जकज्जि पव्वयनिव आणइ ।
 तससरिसी अतिप्रीति करीय अरिकंटय टालिय ।
 नंदनरिंदह रज्जनयरि पाडलि उद्दालिय ।
 विसकन्न जाणि परिणाविउ सो वि मित्त जमपुरि लयउ ।
 नियकज्ज करवि विहडिउ पछइ मित्तनेह एरिस भयउ ॥ ५३ ॥
 परसुराम जमदग्गिपुत्त रेणुयअंगुब्भम ।
 कत्तविरिय नरनाह हणइ मासीसुय दुद्धम ।
 अप्पण पइ तस रज्ज लेवि हत्थिणपुरि रहियउ ।
 खत्तियवंस असेस फरसुज्जालिहिं तिणिं दहियउ ।
 निवघरणि नट्ट पच्छन्न ठिय तस सुभूम सुय चक्कवइ ।
 निहलइ वंस बंभणतणउ निययनेह एरिस हवइ ॥ ५४ ॥
 अज्जमहागिरिसूरि भूरिभवपावनिवारण ।
 गिइ जिणकप्पि करंति तस्स तुलणा अइदारुण ।

कुलघरनियसुहसयणसंग निस्सा सवि छंडिय ।
 अपडिबद्धविहारसार संजमगुणमंडिय ।
 सावयघरि अज्जसुहत्थि गुरि गुणपसंस हरषिहिं करिय ।
 अइआदर दिक्कि सुकारणिहिं पाडलपुर तिणि परिहरिय ॥ ५५ ॥
 सेणियधारणिपुत्त मेह भज्जट्ट विमुक्किय ।
 वीरपासि वय लिद्ध बुद्धि निसि संजम चुक्किय ।
 पुव्वजम्म परिकहिय पुण वि थिर किद्धउ वीरिहिं ।
 बहुजइजणसंघट्ट सहइं अइदुसह सरीरिहिं ।
 सो रायवंसअवर्यंसमणि मणिन अप्प तृणसम गणइ ।
 चापरइ विजयवेमाणि सुह रहिउ सिद्धि घरअंगणइ ॥ ५६ ॥
 चेडयधूयसुजिट्टसुद्धमहासइअंगुवभम ।
 विज्जाहरपेढालपुत्तु विज्जाबलदुद्धम ।
 खायगसम्महिट्टि अंग इग्यारइ जाणइ ।
 तह वि विसयरसरंगि अंगि अतिदूषण आणइ ।
 उज्जेणि उमावेसावसिहि करवि कूड हेला हणिउ ।
 सो सव्वइ सच्चइं नरय गय विसयदोस एरिस भणिउ ॥ ५७ ॥
 बारवईपुरि पत्त नेमिपहु केवलनाणी ।
 दसदसारनरनाह कन्ह निसुणइ जिणवाणी ।
 सहसअठार मुणिंदचंद विधिवंदणि वंदइ ।
 नरयभूमि चिहुदुक्करुक निम्मूल निकंदइ ।
 तित्थयरगुत्त बंधइ सुट्टह असुहकम्म हेला हरइ ।
 पूजाप्रणामवंदणविणय सगुणसाहुसंगति करइ ॥ ५८ ॥
 चंडरुह गुरु रुद्धरोसि रीसाल विदित्तउ ।
 उज्जणीउज्जाणि सगुणसीसिहिंसिउं पत्तउ ।
 नवपरणीत कुमार हसिय पभणइ दिउ दिक्का ।
 सूरि सीस तस चंपि केस लुंचिय दिय सिक्का ।
 सो सीसभावि संजम लियइ मग्गि लग्गि गुरु सिर धरी ।
 तिम सहइ घाय दुव्वयण जिम लहइ बेउ केवलसिरि ॥ ५९ ॥
 गयकलभे परिवरिउ सूरर सुमिणइ मुणि दिट्टउ ।
 तिणि अहिनाणि सुसीससहिय पुण कुगुरु अणिट्टउ ।

निसि चंपह अंगार सूगविण मन्नइ प्राणिउ ।
 तव अंगारयमइ सूरि अभविय इम जाणिउ ।
 ते सीस सवे निवपुत्त ह्य सूरि करह वकरभरिउ ।
 तिहिं देखि सयंवरि आवते पुव्वजम्म तक्कणि सरिउ ॥ ६० ॥
 पुप्फवइसुय पुप्फचूल भइणी तह भज्जा ।
 सुमिणि नरयदुह देखी पुप्फचुला वयसज्जा ।
 अन्नियसुयगुरुकज्जि खीणजंघाबल जाणी ।
 आणंती सा भत्तपाण ह्य केवलनाणी ।
 पुच्छेइ सूरि मह नाण कहिं सु पण गंगभीतरि कहइ ।
 तव दुट्ठदेवि उवसग्ग सहि सुगुरु तत्थ केवल लहइ ॥ ६१ ॥
 सिद्धि पत्त मरुदेवि तपिहिंविणु इणि आलंबणि ।
 के वि करंति पमाय ति पणि अच्छेरयसम गिणि ।
 जिणि कारणि पुव्वंमि जम्मि थावरतरुभीतरि ।
 बोरिसंगि बहु अंगि सहिय दुह कम्म विनिज्जरि ।
 सुहभावि पावि परिमुक्कमण सरलसार संतोसमय ।
 जिणणि नाभिकुलगरघरणि रिसह झाणि निव्वाणि गय ॥ ६२ ॥
 लद्धि पत्त पत्ते य बुद्ध सुहसिद्धि समाणइ ।
 अच्छेरयसमतुल्ल बुल्ल किवि ते मनि आणइ ।
 निहिसंपत्ति स चित्ति धरवि विवसाय ति छंडइ ।
 सामग्गी परिहरिय करिय पातग निय दंडइ ।
 करकंडुदुमुहनमिनग्गइ चिहुचरित्त चितिय सुपरि ।
 धरि धम्म रम्म उज्जमसहिय मुक्क माय अपमाय करि ॥ ६३ ॥
 ससगभसगनिवपुत्तबहिणि सुकुमालिय कुमरी ।
 चंपापुरि चारित्त लेइ रूपिहिं किर अमरी ।
 फिरइ तरुण तस पासि रागि रत्ता गयगमणी ।
 रक्कइ बंधव बेउ लेइ तिणि अणसण समणी ।
 बहुदिवसि तापि तपि मूरछामुइय जाणि वनि परठवी ।
 ओसहविसेसि सु जि सज्ज करि सत्थवाहि गेहिणि ठवी ॥ ६४ ॥
 सु बहुसीसपरिवारसार सिद्धंतविदित्तउ ।
 महुरापुरि सिरिमंगुसूरि रसणिंदिइं जित्तउ ।

नयरखालि उप्पन्न जस्क बहु दुक्क निहालइ ।
 सुविहियजणपडिबोहकज्जि नियजीह दिखालइ ।
 जिप्पह मुणिंद रसणिंदियह अणजित्तइ एरिसु ह्नुउ ।
 जग्गह जि जोग जुगतिहिं सदा म म म मोहनिद्रां सुउ ॥ ६५ ॥
 गिरिसुय ग्रहिउ पुलिंदि पुप्फसुय तवसी सेवइ ।
 सुयडा अडवीमज्झि अछइ पक्कोदर वेवइ ।
 इक्क भणइ लिउ मारि अवर पुण विणय पयासइ ।
 अंतरसंगविसेसि दोस गुण नरनइपासइ ।
 इम जाणि निगुणसंगति तिजउ सगुणसंग अणुदिण करउ ।
 झगमगइ जेम जगमज्झि जस भवसमुइ तस्कणि तरउ ॥ ६६ ॥
 सिरिथावच्चापुत्तसूरि सुकसूरि अणुक्कमि ।
 सेलगसूरि पमायपंकि पडियउ अइदुइमि ।
 गया सीस सवि छंडि एक्क पंथग मुणि रहिउ ।
 खामंतइं पगि लागि पव्ववासरि तिणि कहियउ ।
 मियमहुरवयणि सुनिपुणपणइ ठविउ सुद्धसंजमि स गुरु ।
 सो सूरि पुण वि चारित्त वरि सित्तुंजय सिद्धउ सधर ॥ ६७ ॥
 सेणियनंदण नंदिसेण बारस संवच्छर ।
 वीरसीस वय छंडि वेस धरि वसइ समच्छर ।
 दस प्रतिबोध्याविणु न लेइ आहार निरंतर ।
 इक्क न बुज्झइ भणइ वेस दसमा तुम्हि सुंदर ।
 इण वेसवयणि पुण वेसधर चरण वरवि सुर संपजइ ।
 इय जस्स सत्ति देसुणतणी अहह सो वि संजम तिजइ ॥ ६८ ॥
 वरससहस तव कट्ट करिय कंडरिय न सुद्धउ ।
 अंति दुट्ठपरिणाम कामवश नरयनिबद्धउ ।
 अचिरकालि परिपालि सुद्ध संजम संपत्तउ ।
 पुंडरीक सव्वट्टसिद्धि सुहबुद्धिनिरुत्तउ ।
 बहु दुक्क सहवि नवि लद्ध सुह अप्प दुक्कि बहुसुख लहिउ ।
 बिहु बंधव एवउ अंतरउ भावभेदि भगवति कहिउ ॥ ६९ ॥
 नयरि कुसुमपुरि राय भाय दुइ ससि सूरप्पह ।
 ससी न मन्नइ धम्म रम्म मन्नइ विसयासुह ।

तपजपविण सो पत्त नरगि त्रीजइ दुहतत्तउ ।
 करवि सूर दुहचूर सग्गि सत्तमइ स पत्तउ ।
 ससि रडइ सूरसुरअग्गलिहिं तणु तच्छिय दुह दिक्खवउ ।
 सो भणइ जीव विणु तणु दहिहिं नरयदुक्क किम रक्खिवउ ॥ ७० ॥
 सुग्गहमग्गपईव नाण जे दियइं निरुप्पम ।
 तिहं गुरु किं पि अदेय नत्थि जगमज्झि जगुत्तम ।
 दिद्धउ जेम पुलिदि सिवगजक्कह नियलोयण ।
 तिण सरिसउं सुर वत्त करइ भत्तह दिय चोयण ।
 केवलइं दाणि तूसइ न गुरु अंतरंगभत्तिहिं वरइ ।
 तिणि कारणि बिहुपरि करि विणय जिम बाहिरि तिम अंतरइ ॥७१॥
 अंबचोर चंडाल चड्डिउ अभयडकरि कंपइ ।
 दय नामिणी सुविज्ज मज्झ इम सेणित्त जंपइ ।
 विणयविवज्जिय विज्जकज्ज करिवइ नवि जग्गइ ।
 सिंहासणि बइसारि भारि गुरु करि सो मग्गइ ।
 ओ कहइ विज्ज ओ लहइ फल बिहुह कज्ज तक्कणि सरित्त ।
 इण कारणि जिणसासणि विणय सुगुरु सीम अणुक्कमि करित्त ॥७२॥
 दगसूरउ तिट्ठि तामलिक्की पुरि अच्छइ ।
 नापितपासि सु विज्ज लेवि देसंतरि गच्छइ ।
 महिमा मोट्टिम पत्त दंड गयणंगणि रहियउ ।
 पुच्छिउ नरवरि जाम ताम सच्चउ नवि कहियउ ।
 गुरुलोपि कोपि विज्जा गई गयणदंड गडयडि पडित्त ।
 लज्जियउ लोकि हसित्त सयलि इम सु नाणनिन्हवि नडित्त ॥ ७३ ॥
 बंभण एक अनेककूडकवडाइनिरुत्तउ ।
 उज्जेणिहिं कट्ठियउ देसि चम्मरि स पत्तउ ।
 त्रिहुं गामहं विच्चालि करइ तप वेसि त्रिदंडी ।
 भगतलोकघरसार मुसइ निसि सु जि पाखंडी ।
 अहच डित्त हत्थि नरवरतणइ नयण कड्ढि नडियौ घणउ ।
 बहु मुरइ अति सोचइ सु चिर निंदइ नियकुडक्कणउ ॥ ७४ ॥
 दुहरंग वरदेव कुट्ठिरूपिहिं पडु वंदइ ।
 छींक करइ जव वीर ताम मरि कहि अभिणंदइ ।

सेणियप्रति चिर जीव अभयप्रति जा चड विहुपरि ।
 कालसूरप्रति कहइ म मरि म म जीविय अणुसरि ।
 मगहेसर पुच्छइ ए कवणु कवण एस परमत्थ पुण ।
 जिण भणइ विप्पसेडुयचरिय चिहु प्रकारि नरआचरण ॥ ७५ ॥
 वरि अंगमीइ मरण सरण जिणधम्म धरिज्जइ ।
 जियहिंसा पुण घोर घोरदुहहेउ न किज्जइ ।
 कालसूरियह पुत्त सुलस जिम पाव निवारउ ।
 परपीडा परिहरह तरह संसार असारउ ।
 कुलकारण किं पि म लिक्खवउ गुणह रूप गुरुयडि धरउ ।
 परलोगमग्ग जाणउं सुपरि कुपरि कुकम्म म आयरउ ॥ ७६ ॥
 हेजिइ हित अरिहंत कह वि नवि प्राणि करावइ ।
 तं पुण दिइ उपदेस जेण किज्जइ सुख आवइ ।
 जं सुरवइ सुरवग्गि सग्गि एरावणवाहण ।
 जं भरहाहिव रज्जसज्ज भुंजइ सुहसाहण ।
 जं जं अवर वि सुरअसुरनरमुक्क सुक्क माणइ घणउ ।
 तिहुयणह मज्झि तं सयल फल जिणवरउवएसहतणउं ॥ ७७ ॥
 खत्तियकुंडि जमालि वीरजामाइ खत्तिउ ।
 सुहंसणभत्तार सार वयभारपवत्तिउ ।
 नवि मन्नइ किज्जंत किद्ध इय आगमवाणी ।
 निन्हवि तेण कुदिट्ठि दुट्ठि किय बहु गुणहाणी ।
 नियकित्ति मुसिय सुर किव्विसिय मिलिउ मिच्छमइ मोहियउ ।
 सयपंच साहु साहुणि सहस ठंकसड्ढि पुण बोहियउ ॥ ७८ ॥
 जिम मासाहस पंखि मुखिहिं मा साहस जंपइं ।
 वग्गवयणि पइसेवि मंस लितउ नवि कंपइ ।
 तिम अवरह उवएस दिंति किवि फुडवयणाकरि ।
 पणि अप्पणि न करंति रम्म जिणधम्म तणीपरि ।
 वेरग्गवाणि नड उच्चरइ जलहि जालि पाणी गलइ ।
 इम कम्मभारि भारिय भणी जाइ भूर भवजलतलइ ॥ ७९ ॥
 धम्मवीय जिणराइ आणि दीवंतर दिद्धउ ।
 अविरति सयल वि खड देसविरते अध खडउ ।

पासत्थे पुण खुट्टि खित्ति खाइव सहु हारिउ ।
 संजमि ए सुभखित्ति सब्ब वावीय वद्धारिउ ।
 त्रिहु भेदि जीव ते करसणी राजदंडि अप्पउं दहइ ।
 सुविहियमुणि रायपसायवसि सुख सुगालि लच्छी लहइ ॥ ८० ॥
 इणिपरि सिरिउवणसमालकहाणय ।
 तवसंजमसंतोसविणयविज्जाइ पहाणय ।
 सावयसंभरणत्थ अत्थपय छप्पयच्छंदिहिं ।
 रयणसींहसूरीससीस पभणइ आणंदिहिं ।
 अरिहंतआण अणुदिण उदय धम्ममूल मत्थइ हउं ।
 भो भविय भत्तिसत्तिहिं सहल सयल लच्छिलीला लहउ ॥ ८१ ॥
 ॥ इति श्रीउपदेशमालासर्वकथानकछप्पया ॥

समरारासु

पहिलउ पणमिउ देव आदीसरु सेत्तुजसिहरे ।
 अनु अरिहंत सब्बे वि आराहउं बहुभत्तिभरे ॥ १ ॥
 तउ सरसति सुमरेवि सारयससहरनिम्मलीय ।
 जसु पयकमलपसाय मूरुषु माणइ मन रलिय ॥ २ ॥
 संघपतिदेसलपूत्तु भणिसु चरिउ समरातणउ ए ।
 धम्मिय रोलु निवारि निसुणउ श्रवणि सुहावणउ ए ॥ ३ ॥
 भरह सगर दुइ भूप चक्रवति त हूअ अतुलबल ।
 पंडव पुहविप्रचंड तीरथु उधरइ अतिसबल ॥ ४ ॥
 जावडतणउ संजोगु हूअउं सु दूसम तव उदए ।
 समइ भलेरइ सोइ मंत्रि बाहडदेउ उपजए ॥ ५ ॥
 हिव पुण नवी य ज वात जिणि दीहाडइ दोहिलए ।
 खत्तिय खग्गु न लिति साहसियह साहसु गलए ॥ ६ ॥
 तिणि दिणि दिनु दिक्काउ समरसीहि जिणधम्मवणि ।
 तसु गुण करउं उच्चोउ जिम अंधारइ फटिकमणि ॥ ७ ॥
 सारणि अमियतणी य जिणि वहावी मरुमंडलिहिं ।
 किउ कृतजुगभवतारु कलिजुगि जीतउ बाहुबले ॥ ८ ॥

ओसवालकुलि चंदु उदयउ एउ समानु नही ।
 कलिजुगि कालइ पाखि चांद्रिणउं सचराचरिहिं ॥ ९ ॥
 पाल्हणपुरु सुप्रसीधु पुन्नवंतलोयह निलउ ।
 सोहइ पाल्हविहारु पासभुवणु तहि पुरतिलउ ॥ १० ॥
 भास—हाट चहुटा रूअडा ए महमंदिरह निवेषु त ।
 वाविकूवआरामघण घरपुरसरसपएस त ।
 उवएसगच्छह मंडणउ ए गुरु रयणप्पहसूरि त ।
 धम्मु प्रकासइं तहि नयरे पाउ पणासइ दूरि त ॥ १ ॥
 तसु पटलच्छीसिरिमउडो गणहरु जखदेवसूरि त ।
 हंसवेसि जसु जसु रमए सुरसरीयजलपूरि त ॥ २ ॥
 तसु पयकमलमरालुलउ ए कक्कसूरि मुनिराउ त ।
 ध्यानधनुषि जिणि भंजियउ ए मयणमल्ल भडिवाउ त ॥ ३ ॥
 सिद्धसूरि तसु सीसवरो किम वन्नउं इकजीह त ।
 जसु घणदेसण सलहिजए दुहियलोयवप्पीह त ॥ ४ ॥
 तसु सीहासणि सोहई ए देवगुप्तसूरि बईटु त ।
 उदयाचलि जिम सहसकरो उगमतउ जिण दीटु त ॥ ५ ॥
 तिह पहुपाटअलंकरणु गच्छभारधोरेउ त ।
 राजु करइ संजमतणउ ए सिद्धिसूरिगुरु एहु त ॥ ६ ॥
 जोइ जसु वाणीकामधेनु सिद्धंतवनि विचरेउ त ।
 सावइजणमणइच्छिय घण लीलइ सफल करेउ त ॥ ७ ॥
 उवएसवंसि वेसटह कुलि सपुरिसतणउ अवतारु त ।
 वयरगरि कउतिगु किसउ ए नही य ज रतनह पारु त ॥ ८ ॥
 पुन्नपुरुषु ऊपहु तहिं सलषणु गुणिहि गंभीरु त ।
 जणआणंदणु नंदणु तसो आजडु जिणधमधीरु त ॥ ९ ॥
 गोत्रउदयकरु अवयरिउ ए तसु पुत्रु गोसलुसाहु त ।
 तसु गेहिणि गुणमत भली य आराहइ नियनाहु त ॥ १० ॥
 संघपति आसधरु देसलु लूणउ तिणि जन्म्या संसारि त ।
 रतनसिरि भोली लाच्छि भणउं तीहतणी य घरनारि त ॥ ११ ॥
 देसलघरि लच्छी य निसुणि भोली भोलिमसार त ।
 दानि सीलि लूणाघरणि लाछि भली सुविचार त ॥ १२ ॥

पियभाषा-रतनकुषि कुलि निम्मली य भोलीपुत्तु जाया ।

सहजउ साहणु समरसीहु बहुपुन्निहि आया ॥ १ ॥

लहूअलगइ सुविचारचतुर सुविवेक सुजाण ।

रत्नपरीक्षा रंजवइ राय अनु राण ॥ २ ॥

तउ देसल नियकुलपईव ए पुत्र सधन्न ।

रूपवंत अनु सीलवंत परिणाविय कन्न ॥ ३ ॥

गोसलसुति आवासु कियउ अणहिलपुरनयरे ।

पुन्न लहइ जिम रयणमाहि नर समुद्रह लहरे ॥ ४ ॥

चउरासी जिणि चउहटा वरवसहि विहार ।

मढ मंदिर उत्तंग चंग अनु पोलि पगार ॥ ५ ॥

तहिं अछइ भूपतिहिं भुवण सतखणिहि पसत्थो ।

विश्वकर्मा विज्ञानि करिउ धोइउ नियहत्थो ॥ ६ ॥

अभियसरोवरु सहसलिंगु इकु धरणिहिं कुंडलु ।

कित्तिषंभु किरि अवररेसि मागइ आखंडलु ॥ ७ ॥

अज्ज वि दीसइ जत्थ धम्मु कलिकालि अगंजिउ ।

आचारिहिं इह नयरतणइ सचराचरु रंजिउ ॥ ८ ॥

पातसाहि सुरताणभीवु तहिं राजु करेई ।

अलपखानु हींदूअह लोय घणु मानु जु देई ॥ ९ ॥

साहु रायदेसलह पूतु तसु सेवइ पाय ।

कला करी रंजविउ खानु बहु देइ पसाय ॥ १० ॥

मीरि मलिकि मानियइ समरु समरथु पभणीजइ ।

परउवयारियमाहि लीह जसु पहिली य दीजइ ॥ ११ ॥

जेठसहोदरि सहजपालि निज प्रगटिउ सहजू ।

दक्षणमंडलि देवगिरिहि किउ धम्मह वणिजू ॥ १२ ॥

चउवीसजिणालय जिणु ठविउ सिरिपासजिणिंदो ।

धम्मधुरंधरु रोपियउ धर धरमह कंदो ॥ १३ ॥

साहणु रहियउ षंभनयरि सायरगंभीरे ।

पुव्वपुरिसकीरितितरंडु पूरइ परतीरे ॥ १४ ॥

पभाषा-निस्सुणऊ ए समइप्रभावि तीरथरायह गंजणउ ए ।

भवियह ए करुणारावि नीटुरमनु मोहि पडिउ ए ।

समरज ए साहसधीरु वाहविलग्गउ बहू अ जण ।
 बोलई ए असमवीरु दूसमु जीपइ राउतवट ए ॥ १ ॥
 अभिग्रहू ए लियइ अबिलंबु जीवियजुव्वणबाहबलि ।
 उधरज ए आदिजिणबिंबु नेमु न मेल्लहउ आपणउ ए ।
 भेटिज ए तउ षानषानु सिरु धूणइ गुणि रंजियउ ए ॥ २ ॥
 वीनती ए लागु लउ वानु पूछए पहुता केण कज्जे ।
 सामिय ए निसुणि अडदासि आसालंबणु अम्हत्तणउ ए ।
 भइली ए दुनिय निरास ह ज भागी य हींदूअतणी ए ।
 सामिय ए सोमनयणेहिं देषिउ समरा देइ मानु ॥ ३ ॥
 आपिज ए सब्बवयणेहिं फुरमाणु तीरथमाडिवा ए ।
 अहिदर ए मलिकआएसि दीन्ह ले श्रीमुखि आपण ए ।
 षतमत ए षानपएसि किउ रलियाइतु घरि संपत्तो ।
 पणमई ए जिणहरि राउ समणसंघो तहि वीनविउ ए ॥ ४ ॥
 संधिहि ए कियउ पसाउ बुद्धि विमासिय बहूयपरे ।
 सासण ए वर सिणगारु वस्तपालो तेजपालो मंत्रे ।
 दरिसण ए छह दातारु जिणधर्मनयण वे निम्मला ए ।
 आइसी ए रायसुरताण तिणि आणीय फलही य पवर ॥ ५ ॥
 दूसम ए तणी य पुणु आण अवसरो कोइ नही तसुतणउ ए ।
 इह जुग ए नही य वीसासु मनुमात्रे इय किम छरए ।
 तउ तुहु ए पुन्नप्रकासु करि ऊधरि जिणवरधरमु ॥ ६ ॥

तुर्थभाषा-संघपतिदेसलु हरषियउ अति धरमि सचेतो ।

पणमइ सिधसुरिपयकमलो समरागरसहितो ।

वीनती अम्हत्तणी प्रभो अवधारउ एक ।

तुम्ह पसाइ सफल किया अम्हि मनोरहनेक ॥ १ ॥

सेत्तुजतीरथ ऊधरिवा ऊपन्नउ भावो ।

एकु तपोधनु आपणउ तुम्हि दियउ सहाउ ।

मदनु पंडितु आइसु लहवि आरासणि पहुचइ ।

सुगुरवयणु मनमाहि धरिउ गाढउ अति रूचइ ॥ २ ॥

राणेरा तहि राजु करइ महिपालदेउ राणउ ।

जीवदया जगि जाणिजए जो वीरु सपराणउ ।

पातउ नामिहि मंत्रिवरो तसुतणइ सुरज्जे ।
 चंद्रकन्हइ चकोरु जिसउ सारइ बहुकज्जे ॥ ३ ॥
 राणउ रहियउ आपुणपई षाणिहि उपकंठे ।
 टंकिय वाहइ सूत्रहार भांजइ घणगंठे ।
 फलही आणिय समरवीरि ए अतिबहुजयणा ।
 समुद्र विरोलिउ वासुगिहिं जिम लाधा रयणा ॥ ४ ॥
 कूआरसि उछवु हूअउ त्रिसींगमइनहरे ।
 फलही देषिउ धामियह रंगु माइ न सइरे ।
 अभयदानि आगलउ करुणारसचित्तो ।
 गोत्ति मेल्लावइ षइरालुअह आपइ बहुवित्तो ॥ ५ ॥
 भांडू आब्या भाउघणउ भवियायण पूजइ ।
 जिम जिम फलही पूजिजए तिम तिम कलि धूजइ ।
 खेला नाचइ नवलपरे घाघरिरिउ झमकइ ।
 अचरिउ देषिउ धामियह कह चित्तु न चमकइ ॥ ६ ॥
 पालीताणइ नयरि संघु फलही य वधावइ ।
 बालचंद्र मुनि वेगि पवरु कमठाउ करावइ ।
 किं कप्पूरिहि घडीय देह पीरसायरसारिहि ॥ ७ ॥
 सामियसूरति प्रकट थिय कूप करिउ संसारे ।
 मागी दीन्ह वधावणी य मनि हरषु न माए ।
 देसलऊत्रह चरित्रि सहू रलियातु थाए ॥ ८ ॥

ती भाषा-संघु बहुभक्तिहिं पाटि बयसारिउ ।
 लगनु गणिउ गणधरिहिं विचारिउ ।
 पोसहसाल खमासण देयए ।
 सूरिसेयंबरमुनि सवि संमहे ए ॥ १ ॥
 घरि बयसवि करी के वि मन्नाविया ।
 के वि धम्मिय हरसि धम्मिय धाइया ।
 बहुदिसि पाठविय कुंकुमपत्रिया ।
 संघु मिलइ बहुभली य सज्जाइया ॥ २ ॥
 सुहगुरुसिधसुरिवासि अहिसिंचिउ ।
 संघपति कल्पतरु अमिय जिम सिंचिउ ।

कुलदेवत सचिया वि भुजि अवतरइ ।
 सूहव सेस भरइं तिलकु मंगलु करइं ॥ ३ ॥
 पोसवदि सातमि दिवसि सुमुहुत्तिहिं ।
 आदिजिणु देवालण ठविउ सुहचिन्तिहिं ।
 धम्मधोरी य धुरि धवल दुइ जुत्तया ।
 कुंकुमपिंजरि कामधेनुपुत्तया ॥ ४ ॥
 इंदु जिम जयरथि चडिउ संचारण ।
 सूहवसिरि सालिथालु निहालण ।
 जा किउ ह्यवरो वसहु रासिउ हूउ ।
 कहइ महासिधि सकुनु इहु लद्धउ ।
 आगलि मुनिवरसंघु सावयजणा ।
 तिलु न धिरइ तिम मिलिय लोय घणा ॥ ५ ॥
 मादलवंसविणाञ्जुणि वज्जण ।
 गुहिरभेरीयरवि अंबरो गज्जण ।
 नवयपाटणि नवउ रंगु अवतारिउ ।
 सुषिहि देवालउ संग्वारी संचारिउ ॥ ६ ॥
 घरि बयसवि करि के वि समाहिया ।
 समरगुणि रंजिउ विरलउ रहियउ ।
 जयतु कान्हु दुइ संघपति चालिया ।
 हरिपालो लंदुको महाधर दृढ थिया ॥ ७ ॥

ष्ठी भाषा—वाजिय संख असंख नादि काहल दुडुडुडिया ।
 घोडे चडइ सल्लारसार राउत सींगडिया ।
 तउ देवालउ जोत्रि वेगि घाघरिरवु झमकइ ।
 सम विसम नवि गणइ कोइ नवि वारिउ थक्कइ ॥ १ ॥
 सिजवाला धर धडहडइ वाहिणि बहुवेगि ।
 धरणि धडक्कइ रजु ऊडण नवि सूझइ मागो ।
 ह्य हींसइ आरसइ करह वेगि वहइ बइल्ल ।
 साद किया थाहरइ अवरु नवि देई बुल्ल ॥ २ ॥
 निसि दीवी झलहलहि जेम ऊगिउ तारायणु ।
 पावलपारु न पामियण वेगि वहइ सुखासण ।

आगेवाणिहि संचरण संघपति साहुदेसलु ।
 बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिश्चलु ॥ ३ ॥
 पाछेवाणिहि सोमसीहु साहुसहजापूतो ।
 सांगणुसाहु लूणिगह पूतु सोमजिनिजुत्तो ।
 जोड करी असवारमाहि आपणि समरागरु ।
 चडीय हींड चहुगमे जोइ जो संघअसुहकरु ॥ ४ ॥
 सेरीसे पूजियउ पासु कलिकालिहिं सकलो ।
 सिरषेजि थाइउ धवलकाए संघु आविउ सयलो ।
 धंधूकउ अतिकमिउ ताम लोलियाणइ पहुतो ।
 नेमिभुवणि उछुवु करिउ पिपलालीय पत्तो ॥ ५ ॥

१० भाषा-संधिहिं चउरा दीन्हा तहिं नयरपरिसरे ।
 अलजउ अंगि न माए दीठउ विमलगिरे ।
 पूजिउ परवतराउ पणमिउ बहुभत्तिहिं ।
 देसलु देयए दाणे मागणजणपंतिहिं ॥ १ ॥
 अजियजिणिंदजुहारो मनरंगि करेवि ।
 पणमइ सेत्रुजसिहरो सामिउ सुमरेवि ॥ २ ॥
 पालीताणइ नयरे संघ भयलि प्रवेसु ।
 ललतसरोवरतीरे किउ संघनिवेसु ।
 कज्जसहाय लहुभाय लहु आवियउ मिलेवि ॥ ३ ॥
 सहजउ साहणु तीहि त्रिन्हइ गंगप्रवाह ।
 पासु अनइ जिण वीरो वंदिउ सरतीरिहिं ।
 पंषि करइ जलकेलि सरु भरिउ बहुनीरिहिं ॥ ४ ॥
 सेत्रुजसिहरि चडेवि संघु सामि उमाहिउ ।
 सुललितजिणगुणगीते जणदेहु रोमंचिउ ।
 सीयलो वायए वाओ भवदाहु ओल्हावए ।
 माडीय नमिय मरुदेवि संतिभुवणि संघु जाए ॥ ५ ॥
 जिणबिंबइ पूजेवी कवडिजकु जुहारए ।
 अणुपमसरतडि होई पहुता सीहदुवारे ।
 तोरणतलि वरसंते घणदाणि संघपत्ते ।
 भेटिउ आदिजगनाहो मंडिउ पत्रीठमहूछवो ॥ ६ ॥

अष्टमी भाषा-चलउ चलउ सहियडे सेश्रुजि चडिय ए ।

आदिजिणपत्रीठ अम्हि जोइसउं ए ।

माहसुदि चउदसि दूरदेसंतर संघ मिलिया तहिं अति अबाह॥१॥

माणिके मोतिए चउकु सुर पूरइ रतनमइ वेहि सोवनि जवारा ।

अशोकवृक्ष अनु आम्र पल्लवदलिहि रितुपते रचियले तोरणमाला ॥२॥

देवकन्या मिलिय धवलमंगल दियइ किंनर गायहि जगतगुरो ।

लगनमहूरतु सुरगुरो साधए पत्रीठ करइ सिधसूरिगुरो ॥ ३ ॥

भुवनपतिव्यंतरजोतिसुर जयउ जयउ करइ समरि रोपिउ द्विदु धरमकंदो ।

दुंदुहि वाजिय देवलोकि तिहुअणु सीचिउ अमियरसे ॥ ४ ॥

देउ महाधज देसलो संघपते ईकोतरु कुल ऊधरए ।

सिहरि चडिउ रंगि रूपि सोवनि धनि वीरि रतनि वृष्टि विरचियले ॥५॥

रूपमय चमर दुइ छत्त मेघाडंबर चामरजुयल अनु दिन्नदुन्नि ।

आदिजिणु पूजिउ सहलकंतिहिं कुसुम जिम कनकमयआभरण ॥ ६ ॥

आरतिउ धरियले भावलभत्तारिहिं पुठवपुरिस सगिग रंजियले ।

दानमंडपि थिउ समर सिरिहि वरो सोवनसिणगार दियइ याचकजन ॥७॥

भक्ति पाणी य वरमुनि प्रतिलाभिय अच्चारिउ वाहइ दुहियदीण ।

घाविउ सुधम वितु सिद्धखेत्रि इंद्रउच्छवु करि ऊतरए ॥ ८ ॥

भोलीयनंदणु भलइ महोत्सवि आविउ समरु आवासि गनि ।

तेरइकहत्तरइ तीरथउच्चारु यउ नंदउ जाव रविससि गयणि ॥ ९ ॥

नवमी भाषा-संघवाछलु करी चीरि भले मालहंतडे पूजिय दरिसण पाय ।

सुणि सुंदरे पूजिय दरिसण पाय ।

सोरठदेस संघु संचरिउ मा० चउंडे रयणि विहाइ ॥ १ ॥

आदिभक्तु अमरेलीयह मालहं० आविउ देसलजाउ ।

अलवेसरु अल जवि मिलए मालहं० मंडलिकु सोरठराउ ॥ २ ॥

ठामि ठामि उच्छव हुअइ मालहं० गढि जूमइ संपसु ।

महिपालदेउ राउलु आवए मालहं० सामुहउ संघअणुरत्तु ॥ ३ ॥

महिपु समरु बिउ मिलिय सोहइ मालहं० इंदु किरि अनइ गोविंदु ।

तेजि अगंजिउ तेजलपुरे मा० पूरिउ संघआणंदु । सुणि० ॥ ४ ॥

वउणथलीचेन्नप्रवाडि करे मालहं० तलहदी य गढमाहि ।

ऊजिलऊपरि चालिया ए मालहं० चउडिबहसंघहमाहि । सुणि० ।

दामोदरु हरि पंचमउ माल्हं० कालमेघो क्षेत्रपालु । सुणि० ।
 सुवनरेहा नदी तहिं वहए माल्हं० तरुवरतणउं झमालु ॥ ५ ॥
 पाज चडंता धामियह मा० क्रमि क्रमि सुकृत विलसंति । सुणि० ।
 ऊची य चडियए गिरिकडणि मा० नीची य गति षोडंति ॥ ६ ॥
 पामिउ जादवरायभुवणु मा० त्रिनि प्रदक्षिण देइ ।
 सिवदेविमुतु भेटिउ करिउ मा० उत्तरिया मढमाहि । सुणि० ।
 कलस भरेविणु गयंदमए मा० नेमिहिं न्हवणु करेइ ।
 पूज महाधज देउ करिउ मा० छत्र चमर मेलहेइ ॥ ७ ॥
 अंबाई अवलोयणसिहरे मा० सांबिपज्जुनि चडंति । सुणि० ।
 सहसारासु मनोहरु ए मा० विहसिय सवि वणराइ । सुणि० ।
 कोइलसादु सुहावणउ ए मा० निसुणियइ भमरझंकारु । सुणि० ॥८॥
 नेमिकुमरतपोवनु ए मा० दुडु जिय ठाउं न लहंति । सुणि० ।
 इसइ तीरथि तिहुयणदुलभे मा० निसिदिनु दानु दियंति ॥ ९ ॥
 समुदविजयरायकुलतिलय मा० वीनतडी अवधारि । सुणि० ।
 आरतीमिसि भवियण भणइं मा० चतुगतिफेरडउ वारि । सुणि०॥१०॥
 जइ जगु एकु मुहु जोइयए मा० त्रिपति न पामियइ तोइ । सुणि० ।
 सामलधीर तउं सार करे मा० वलि वलि दरिसणु देजि । सुणि०॥११॥
 रलीयरेवयगिरि उत्तरिउ ए मा० समरडो पुरुषप्रधानु ।
 घोडउ सीकिरि सांकलिय मा० राउलु दियइ बहुमानु । सुणि० ॥१२॥
 १० भाषा-रितु अवतरियउ तहि जि वसंतो सुरहिकुसुमपरिमल पूरंतो
 समरह वाजिय विजयदहक ।
 सागुसेलुसल्लइसच्छाया केसूयकुडयकयंबनिकाया
 संघसेनु गिरिमाहइ वहए ।
 बालीय पूछइं तरुवरनाम वाटइ आवइं नव नव गाम
 नयनीझरणरमाउलइं ॥ १ ॥
 देवपटणि देवालउ आवइ संघह सरवो सरु पूरावइ
 अपूरवपरि जहिं एक हुईअ ।
 तहिं आवइ सोमेसरछत्तो गउरवकारणि गरुउ पट्टतो
 आपणि राणउ मूधराजो ॥ २ ॥
 पान फूल कापड बहु दीजइं लूणसमउं कपूरु गणीजइ
 जबाधिहिं सिरु लिपियए ।

ताल तिविल तरविरियां वाजइं ठामि ठामि थाकणा करीजइं
 पगि पगि पाउल पेषण ए ॥ ३ ॥
 माणुस माणुसि हियउं दलिजइ घोडे वाहिणिगाहु करीजइ
 ह्यगय सृझइ नवि जणह ।
 दरिसणसउं देवालउ चल्लइ जिणसासणु जगि रंगिहिं मल्लइ
 जगतिहिं आव्या सिवभुवणि ॥ ४ ॥
 देवसोमेसरदरिसणु करेवी कवडिबारि जलनिहिं जोएवी
 प्रियमेलइ संघु उत्तरिउ ।
 पहुचंदप्पहपय पणमेवी कुसुमकरंडे पूज एएवी जिणभुवणे
 उच्छवु कियउ ॥ ५ ॥
 सिवदेउलि महाभज दीधी सेले पंचे वन्नसमिद्धी अपूरवु उच्छवु
 कारविउ ।
 जिनवरधरमि प्रभावन कीधी जयतपताका रवितलि बद्धी दीनु
 पयाणउं दीवभणी ।
 कोडिनारिनिवासणदेवी अंबिक अंबारामि नमेवी दीवि
 वेलाउलि आवियउ ए ॥ ६ ॥

एकादशी भाषा-संघु रयणायरतीरि गहगहए गुहिरगंभीरगुणि ।

आविउ दीवनरिंदु सामुहउ ए संघपतिसवदु सुणि ॥ १ ॥

हरषिउ हरपालु चीति पहुतउ ए संघु मोलविकरे ।
 पभणइं दीवह नारि संघह ए जोअण उतावली ए ।
 आउलां वाहिन वाहि वेगुलइ ए चलावि प्रिय बेडुली ए ॥ २ ॥
 किसउ सुपुन्नपुरिषु जोइउ ए नयणुलां सफल करउ ।
 निवछणा नेत्रि करेसु उत्तरिसू ए कपूरि ऊआरणा ए ।
 बेडीय बेडीय जोडि बलियऊ ए कीधउं बंधियारो ॥ ३ ॥
 लेउ देवालउमाहि बइठउ ए संघपति संघसहिउ ।
 लहरि लागइं आगासि प्रवहणु ए जाइ विमान जिम ।
 जलवटनाटकु जोइ नवरंग ए रास लउडारस ए ॥ ४ ॥
 निरुपमु होइ प्रवेसु दीसई ए रुवडला धवलहर ।
 तिहां अच्छइ कुमरविहारु रुअडऊ ए रुअडुला जिणभुवण ।
 तीथंकर तीह बंदेवि बंदिऊ ए सयंभू आदिजिणु ।

दीठउ वेणिवच्छराजमंदिरु ए मेदनीउरि धरिउ ।

अपूरवु पेषिउ संघु उत्तारिऊ ए पइली तडि समुदला ए ॥ ५ ॥

शी भाषा-अजाहरवरतीरथिहिं पणमिउ पासजिणिंदो ।

प्रभावन तहिं करहिं अज्जिउ ए अज्जिउ ए अज्जिउ सफल सुछंदो ॥ १ ॥

गामागरपुरवोलिंतो वलिउ सेतुजि संपत्तो ।

भादिपुरीपाजह चडिऊ ए वंदिऊ ए वंदिऊ ए वंदिऊ ए मरुदेविपूतो ॥२॥

अगरि कपूरिहिं चंदणिहिं मृगमदि मंडणु कीय ।

कसमीराकुंकुमरसिहिं अंगिहिं ए अंगिहिं ए अंगो अंगि रचीय ।

जाइवउलविहसेवत्रिय पूजिसु नाभिमल्लहारो ।

यजनसुफलु पामिऊ ए भरियऊ ए भरियऊ ए भरियऊ सुकृतभंडारो ॥३॥

सोहग ऊपरि मंजरिय बीजी य सेत्रुजि उधारि ।

ठिय ए समरऊ ए समरऊ ए समरु आविउ गुजरात ।

पिपलालीय लोलियणे पुरे राजलोकु रंजेई ।

छडे पयाणे संचरण राणपुरे राणपुरे राणपुरे पहुचेई ॥ ४ ॥

वढवाणि न विलंबु किउ जिमिउ करीरे गामि ।

लि होईउ पाडलए नमियऊ ए नमियऊ ए नमियऊ नेमि सु जीवतसामि ।

संखेसर सफलीयकरण पूजिउ पासजिणिंदो ।

जुसाहु तहिं हरषियउ ए देषिऊ ए देषिऊ ए देषिउ फणिमणिवृंदो ॥ ५ ॥

डुंगरि डरिउ न खोहि खलिउ गलिउ न गिरवरि गव्वो ।

सुहेलइ आणिउ ए संघपती ए संघपती ए संघपतिपरिहिं अपुव्वो ॥ ६ ॥

सज्जण सज्जण मिलीय तहिं अंगिहिं अंगु लियंते ।

विहसइ ऊलट्टु घणउ ए तोडरू ए तोडरू ए तोडरू कंठि ठवंते ॥ ७ ॥

मंत्रिपुत्रह मीरह मिलिय अनु ववहारियसार ।

पति संघु वधावियउ कंठिहिं ए कंठिहिं ए कंठिहिं घालिय जयमाल ।

तुरियघाटतरवरि य तहिं समरउ करइ प्रवेसु ।

गहिलपुरि वडामणउ ए अभिनवु ए अभिनवु ए अभिनवु पुन्ननिवासो ॥८॥

संवच्छरि इक्कहत्तरए थापिउ रिसहजिणिंदो ।

वदि सातमि पहुत घरे नंदऊ ए नंदऊ ए नंदऊ जा रषिचंदो ॥ ९ ॥

पासडसूरिहिं गणहरह नेऊअगच्छनिवासो ।

सीसिहिं अंबदेवसूरिहिं रषियऊ ए रषियऊ ए रषियऊ समरारासो ।

एहु रासु जो पढइ गुणइ नाचिउ जिणहरि देइ ।
 श्रवणि सुणइ सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ ए तीरथजात्रफलु लेई ॥ १० ॥
 इति श्रीसंघपतिसमरसिहारासः ॥

सिरिथूलिभद्वफागु ।

पणामिय पासजिणंदपय अनु सरसइ समरेवी ।
 थूलिभद्वमुणिवइ भणिसु फागुबंधि गुण केवी ॥ १ ॥
 अह सोहगसुंदररूववंतु गुणमणिभंडारो ।
 कंचण जिम झलकंतकंति संजमसिरिहारो ।
 थूलिभद्वमुणिराउ जाम महियलि बोहंतउ ।
 नयररायपाडलियमाहि पहुतउ विहरंतउ ॥ २ ॥
 वरिसालइ चउमासमाहि साहू गहगहिया ।
 लियइ अभिगह गुरह पासि नियगुणमहमहिया ।
 अज्जविजयसंभूयसूरि गुरु वय मोकलावइ ।
 तसु आएसि मुणीस कोसवेसाघरि आवइ ॥ ३ ॥
 मंदिरतोरणि आवियउ मुणिवरु पिस्केवी ।
 चमकिय चित्तिहि दासडिय वेगि जाइ वधावी ।
 वेसा अतिहि ऊतावलि य हारिहि लहकंती
 आविय मुणिवररायपासि करयल जोडंती ॥ ४ ॥
 भास—धर्मलाभु मुणिवइ भणिसु चित्रसाली मंगेवी ।
 रहियउ सीहकिसोर जिम धीरिम हियइ धरेवी ॥ ५ ॥
 झिरिमिरि झिरिमिरि झिरिमिरि ए मेहा वरिसंति ।
 खलहल खलहल खलहल ए वाहला वहंति ।
 झबझब झबझब झबझब ए वीजुलिय झबकइ ।
 थरहर थरहर थरहर ए विरहिणिमणु कंपइ ॥ ६ ॥
 महुरगंभीरसरेण मेह जिम जिम गाजंते ।
 पंचबाण निय कुसुमबाण तिम तिम साजंते ।
 जिम जिम केतकि महमहंत परिमल विहसावइ ।
 तिम तिम कामि य चरण लगि नियरमणि मनावइ ॥ ७ ॥

सीयलकोमलसुरहि वाय जिम जिम वायंते ।
 माणमडप्फर माणणि य तिम तिम नाचंते ।
 जिम जिम जलभरभरिय मेह गयणंगणि मिलिया ।
 तिम तिम कामीतणा नयण नीरिहि झलहलिया ॥ ८ ॥

भास—मेहारवभरज्जलटि य जिम जिम नाचइ मोर ।
 तिम तिम माणिणि खलभलइ साहीता जिम चोर ॥ ९ ॥
 अइ सिंगारु करेइ वेस मोटइ मनज्जलटि ।
 रइयरंगि बहुरंगि चंगि चंदणरसज्जगटि ।
 चंपयकेतकिजाइकुसुम सिरि धुंभ भरेइ ।
 अतिआछउ सुकमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ ॥ १० ॥
 लहलह लहलह लहलह ए उरि मोतियहारो ।
 रणरण रणरण रणरण ए पणि नेउरसारो ।
 झगमग झगमग झगमग ए कानिहि वरकुंडल ।
 झलहल झलहल झलहल ए आभरणहं मंडल ॥ ११ ॥
 मयणखग्ग जिम लहलहंत जसु वेणीदंडो ।
 सरलउ तरलउ सामलउ रोमावलिदंडो ।
 तुंग पयोहर उल्लसइ सिंगारथवक्का ।
 कुसुमबाणि निय अमियकुंभ किर थापणि मुक्का ॥ १२ ॥

भास—काजलि अंजिवि नयणजुय सिरि संथउ फाडेइ ।
 बोरीयावडिकांचुलिय पुण उरमंडलि ताडेइ ॥ १३ ॥
 कन्नजुयल जसु लहलहंत किर मयणहिंडोला ।
 चंचल चपल तरंगचंग जसु नयणकचोला ।
 सोहइ जासु कपोलपालि जणु गालिमसूरा ।
 कोमल विमलु सुकंडु जासु वाजइ संखतूरा ॥ १४ ॥
 लवणिमरसभरकूवडिय जसु नाहि य रेहइ ।
 मयणराय किर विजयखंभ जसु ऊरु सोहइ ।
 जसु नहपल्लव कामदेवअंकुस जिम राजइ ।
 रिमिझिमि रिमिझिमि ए पायकमलि घाघरिय सुवाजइ ॥ १५ ॥
 नवजोवनविलसंतदेह नवनेहगहिल्ली ।
 परिमललहरिहि मयमयंत रइकेलिपहिल्ली ।

अहरबिंब परवालखंड वरचंपावन्नी ।

नयणसल्लूणी य हावभावबहुगुणसंपुत्री ॥ १६ ॥

भास—इय सिणगार करेवि वर जव आवी मुणिपासि ।

जोएवा कउतिगि मिलिय सुरकिंनर आकासि ॥ १७ ॥

अह नयणकडकहं आहणए वांकउ जोवंती ।

हाव भाव सिणगार भंगि नवनवि य करंति ।

तह वि न भीजइ मुणिपवरो तउ वेस बोलावइ ।

तवणुतुल्लु तुह देह नाह मह तणु संतावइ ॥ १८ ॥

बारहवरिसहंतणउ नेहु किणि कारणि छंडिउ ।

एवडु निटुरपणउ कंइ मूसिउ तुम्हि मंडिउ ।

थूलिभइ पभणेइ वेस अह खेदु न कीजइ ।

लोहिहि घडियउ हियउ मज्झ तुह वयणि न भीजइ ॥ १९ ॥

मह विलवंतिय उवरि नाह अणुराग धरीजइ ।

एरिसु पावसु कालु सयलु मूसिउ माणीजइ ।

मुणिवइ जंपइ वेस सिद्धिरमणी परिणेवा ।

मणु लीणउ संजमसिरीहिंसुं भोग रमेवा ॥ २० ॥

भास—भणइ कोस साचउ कियउ नवलइ राचइ लोउ ।

मूं मिलिहवि संजमसिरिहि जउ रातउ मुणिराउ ॥ २१ ॥

उवसमरसभरपूरियउ रिसिराउ भणेइ ।

चिंतामणि परिहरवि कवणु पत्थरु गिल्लेइ ।

तिम संजमसिरि परिवएवि बहुधम्मसमुज्जल ।

आलिंगइ तुह कोस कवणु पसरंतमहाबल ॥ २२ ॥

पहिलउ हिवडा कोस कहइ जुव्वणफलु लीजइ ।

तयणंतरि संजमसिरीहि सुह सुहिण रमीजइ ।

मुणि बोलइ जि मइ लियउ तं लियउ ज होइ ।

कवणु सु अच्छइ भुवणतले जो मह मणु मोहइ ॥ २३ ॥

भास—इणपरि कोसा अवगणिय थूलिभइमुणिराइ ।

तसु धीरिम अवधारिकरि चमकिय चित्ति सुहाइ ॥ २४ ॥

अइबलवंतु सु मोहराउ जिणि नाणि निधाडिउ ।

झाणखडगिण मयणसुभड समरंगणि पाडिउ ।
 कुसुमवुट्टि सुर करइ तुट्टि हुउ जयजयकारो ।
 धनु धनु एहु जु थूलिभइ जिणि जीतउ मारो ॥ २५ ॥
 पडिबोहिवि तह कोसवेस चउमासिअणंतरु ।
 पालिय भिग्गह ललिय चलिय गुरुपासि मुणीसरु ।
 दुक्करदुक्करकारगु त्ति सूरिहि सु पसंसिउ ।
 संखसमुज्जलजसु लसंतु सुरनरहं नमंसिउ ॥ २६ ॥
 नंदउ सो सिरिथूलिभइ जो जुगह पहाणो ।
 मलियउ जिणि जगि मल्लसल्लरइवल्लहमाणो ।
 ग्वरतरगच्छि जिणपदमसूरिकियफागु रमेवउ ।
 खेला नाच्चइं चैत्रमासि रंगिहि गावेवउ ॥ २७ ॥
 ॥ सिरिथूलिभइफागु समत्तु ॥

जंबूसामिचरिय

जिण चउवीसइ पय नमेवि गुरुचलण नमेवी ।
 जंबूसामिहितणउं अरिय भविउ निसुणेवी ।
 करि सानिध सरसत्तिदेवि जिम रयं कहाणउं ।
 जंबूसामिहिं गुणगहण संखेवि वषाणउं ॥ १ ॥
 जंबूदीपह भरहखित्ति तिहिं नयरपहाणउं ।
 राजगृह नामेण नयर पहुवि वक्काणउं ।
 राज करइ सेणियनरिंद नरवरहं जु सारो ।
 तासुतणइ पुत्त बुद्धिमंत मंति अभयकुमारो ॥ २ ॥
 अन्नदिणंतरि वडमाण विहरंत पहूतउ ।
 सेणिउ चालिउ वंदणह बहुभत्तितुरंतु ।
 मागि वहतु माहाराज केसउं पेखेइ ।
 भोगविरत्तउ पसनचंद बहुतवण तवेइ ॥ ३ ॥
 धनु धनु माया एहरसि पसंसिउ वंदइ ।
 दुमुग्ववयणि सो चलिउ ध्यानि कुमारगि चल्लइ ।
 धम्मलाभ नवि दीयइ जाम मुनि डूउ अभाओ ।

ईहं सहू को एक मानि रंको अनु राओ ॥ ४ ॥
 सामिय वंदिउ वद्धमाण सेणीयं पूछीइं ।
 जइ पसनचंद हिव करेइ काल कींछे ऊपजइ ।
 मन जाणेविण पसनचंद सामी बोलीजइ ।
 नरगावासइ सातमए नींछइं ऊपजइ ॥ ५ ॥
 बीजी पूछहं मणुय होइ त्रीजी अणउत्तर ।
 दुंदुहि वाजी देवकीय चालीय तिहिं सुरवर ।
 सेणित पूछइ सामिसाल कांहां जाईजइ ।
 केवलमहिमा पसनचंद देवे कीजीजइ ॥ ६ ॥
 सेणित मनि चिंताचडिओ सामी वलि पूछइ ।
 जं प्रभु तम्हे बोलीयउं तं अम्हे न बूझिउं ।
 सेणिय तम्हि बूझियउं तअं तिसउं त होए ।
 मणपरिणामह विसमगति जीवहं पुण होइ ॥ ७ ॥
 केवलनाणउ भरहखेति केतूं वरतेसिइ ।
 सामी दाषीउ विज्जुमालियउ छेदु होसिइ ।
 चउसट्टि देवे परियरिउ चउदेवे सहीउ ।
 अतिसइं दीसइ देहकंति सेणीचिति चडीउ ॥ ८ ॥
 देवहं नवि हुइ एहु नाणु यउ किम होएसिइ ।
 आजूना दीह सातमए इणि नयरि चवेसिइ ।
 किंकारण पुण एहकंतिं किंरूयह अतिसउ ।
 कवणह धम्महतणइ भावियउ देवअइसउ ॥ ९ ॥

ठवणि—महाविदेहतणइ विजय वीतसोय नयरी ।
 पदमरथ नामेण राउ वनमाला घरणी ।
 तास ऊयरि ऊपन्न पुत्रु सुरलोयहहंतु ।
 वरुइ नामिइं सिवकुमार बहुगुणिहिं संजुत्तउ ॥ १० ॥
 पुव्वभवंतरतणइ नेहि सागरमुणि पहुतु ।
 आबीउ वंदण सिवकुमार बहुभत्तितुरंतउ ।
 हउं जाणउं तू मुणिहिं नाह कीछे मइं दीठउ ।
 एह जन्मह तइयभवि मुझ भाइ य हंतउ ॥ ११ ॥
 ऊहापोह करेहि जाम पाछिलउ भव देषइ ।

जा मइं मूकी सुरह रिद्धि या कीणइं लेखइं ।
तु चिंताविउ सिवकुमार अधिरउ संसारो ।
भवनिन्नासण लेइसिउं अम्हि संजमभारो ॥ १२ ॥
माइ न मेलहइं एकपूत सो मुनिहिं थाई ।
दृढधम्मेण सावण्ण जायवि बोलावीउ ।
पारि पारि दृढधम्म भणइ अम्ह भणीउ कीजइ ।
दुल्लभ वेडी मणुयजम्म जतनिहिं राषीजइ ॥ १३ ॥
कहइ धम्म सो मुणिहिं जाम तसु वयण मनेई ।
बिहुं उपवासहं पारणइ ए आंबिल पारेई ।
फासुयवेसण भत्तपाण दृढधम्मो आणइ ।
माहि थीउ अंतेउरहं सो सील ज पालइ ॥ १४ ॥
नवकरवालीतीषधार करमं सवि सूडइ ।
निहणइ मोहकंदप्पराउ भवपरीयण मोडइ ।
वारहं वरसहंतणइ अंति आऊषूं पूरीजइ ।
पंचमदेवलोकि सिवकुमार सो देव ऊपजइ ॥ १५ ॥
कवणह नारिहितणइ उयरि एह जीव चवेसिइ ।
कवणह बापहतणइ कुलि एउ मंडण होसिइ ।
उसभदत्तसेठिहिं घरणि धारणिउरि नंदण ।
होसिइ नामिइं जंबुसामि तिहुयणि आणंदण ॥ १६ ॥
ऊठीउ देव अणाढिउ हरषिइं नाचेई ।
धनु धनु अम्हतणउं कुल एसु पुत्त होसिइ ।
चविउ विमाणह बंभलोय धारणिउरि आविउ ।
सुमिणप्रभाविइं उसभदत्त अंगेहि न माईउ ॥ १७ ॥
जायउ पुत्रु पहाण जाम दसदिसि उदयंतउ ।
वद्धइ नामिहिं जंबुसामि गुणगहण करंतु ।
अठवरीसउ हूउ जाम गुरुपासि पट्टु ।
ब्रह्मचारि सो लियइ नीम भववासविरत्तउ ॥ १८ ॥
जोयणवेसह पट्टुतु जाम कल्ला मग्गावइ ।
बीजा धूया पाठवए तस विवारा वय ।
मन देजिउं तम्हि अम्ह देसु अम्हि इसउं करेशउं ।

सांश्रहं परणी प्रहह जाम नीछइं व्रत लेसिउं ॥ १९ ॥
 माय दुल्लंघीय तणइं वयणि परिणेवउ मन्नीउ ।
 आठइ कन्या एकवार परिणीय घरि आवीउ ।
 आठइ परणी मृगनयणी बूझवणइ बइठउ ।
 पंचमणचोरेहंसिउं प्रभवउ घरि पइठउ ॥ २० ॥
 नीद्र अणावीय सोयणीय आभरण लीयंता ।
 ते सवि अछइं थंभीया टगमग जोयंता ।
 प्रभवउ भणइ हो जंबुसामि एक साठि ज कीजइ ।
 बिहुं विज्जावडइं एक विज्ज थंभणीय ज दीजइ ॥ २१ ॥
 हिव हूं कहि नवि ज लेवि पुण किसउं करेसो ।
 आठइ परणी ससिवयणी नीछइं व्रत लेसो ।
 रूपवंत अणुरत्त रमणि एउ एम चणसिइ ।
 अणहंतासुहतणी य आस मुझ जीव करेसिइ ॥ २२ ॥
 एवडु अंतर नरहं होइ प्रभवउ चितेई ।
 संवेगरसि जउ गयउं मन प्रभवउ पूछेई ।
 सिद्धिरमणिऊमाहीया ह तम्हि संजम लेसिउ ।
 करुणइं विलवइं माइवप्प किम किम मेल्लेसिउ ॥ २३ ॥
 इंदियाल नवि जाणीइ ए को किम होइसिइ ।
 अढार नात्रां एकभवि जंबूस्वामि कहेई ।
 पितर तम्हारा जंबुसामि किम तृपति लहेशइं ।
 पिंड पडइ लोयहंतणइ ए ऊभा जोसिइं ॥ २४ ॥
 बाप मरवि भइंसु हुऊ पुत्रजन्म हणीजइ ।
 इणपरि प्रभवा पितरतृसि तिणि धीवरि कीजइ ।
 अणहंतासुहतणी य आस हूं तउं छांडेसिउ ।
 तिण करसणि जिम कलत्र भणइ अवतरता करेशिउ ॥ २५ ॥
 तम्ह रुपिहिं हउं लोभ करउं देषि मणहर रूयडउं ।
 हत्थिकडेवर काग जिम भवसायर निवडउं ।
 बीजी कलत्र कहेवि नाह जइ अम्ह छंडेसिउं ।
 तिणिं वानरि जिम पच्छुताव बहु चींति धरेसिउं ॥ २६ ॥
 बिंदुसमाणउं विसयसुख आदर किम कीजइ ।

इंगालवाहग जेम तुम्हि तृस किम न छीपइ ।
 त्रीजी कलत्र भणइवि नाह जउ अम्ह छांडेसिउ ।
 तिणि जंबुकि जिम साणहार बहुखेद करेशउ ॥ २७ ॥
 ऊतर पडि ऊतर बहू य संखेवि कहीजइ ।
 विलखी हुई ते सखि बाल जंबूसामि न बूझइ ।
 आसातरुवर सुक्क जाम अम्हि इशउं करेशउं ।
 नेमिहिंसिउं राइमइ जिम वयगहण करेशउं ॥ २८ ॥
 आठइ कलत्रह बूझवीय पंचसयसिउं प्रभवउ ।
 माइ बाप बेउ भणइं ताम अम्ह साधुसरीसउ ।

३वणि—प्रह विहसइ सुविहाण प्रभवु विनवइ जंबूसामि ।
 सजनलोक मोकलावि तम्हिसिउं संजम लेसिउं ॥ २९ ॥
 न्वण एक पडषाएवि राय मोकलावण चालीय ।
 तु सुहडसमूह करेवि भुइं कंपइं भडभडवइं ॥ ३० ॥
 जस भय धसकइ राउ जस भय नींद्र न वयरीयहं ।
 एसउ प्रभवउ जाइ नरनारी जोयण मिलीय ।
 पहुतु रायदुवारि पडिहारिइं बोलावीउ ।
 वेगिइं राउ भेटावि अम्हि अछउं उत्सुकमणा ए ॥ ३१ ॥
 पुत्तणउ विझ राय तुम्ह दरिसणि ऊमाहीउ ओ ।
 कारण जाणीउ राय वेगिहिं सो मेलहावीउ ओ ।
 ट्रेठि न खंडइ राउ प्रभवउ देषी आवतउ ।
 साचउ ए भडिवाउ पुरुषह आकृति जाणीइ ए ॥ ३२ ॥
 रूपगुणे संपन्न रायरमणिमन चोरतु ओ ।
 सोहइ पूनिमचंद जइद्रव कोणी प्रणमीउ ।
 नुतउ अडसीय शरीर जइ कोइ जणणीजाइउ ।
 नयणे छूटुं नीर संवेगजलहरि वरिसिउ ।
 सामी खमि अपराध अम्हे लोक संतावीया ए ॥ ३३ ॥
 पडिबज बोलइ राउ कोणी मनि आणंदियउ ।
 धन्न पनुती माइ इंसिउ पुत्र जिणि जाईउ ओ ।
 तो मोकलावी राउ चोरपल्ली सासंचरए ।
 सजनह कहीइं एउ अम्हे संजम लेइशउं ॥ ३४ ॥

किण कारणि वइराग तं कारण अम्ह बोलीइ ए ।
 मेलही अट्टइ बाल कणयकोडि नवाणवइ ए ।
 अनइ रिद्धि बहूत तिहिं पुण पार न जाणीयए ।
 जंबूसामिचरित्त महिमंडलि हूउं अच्छरीय ॥ ३५ ॥
 इणि कारणि वयराग तृण जिम दीठउ मेलहतउ ओ ।
 अम्ह सोइ जि सामि तम्हे भलइं अछजिउ ओ ।
 मोहनरिंदशउं झूझ संजमकित्तिइं झूझसिउं ओ ॥ ३६ ॥

इवणि—प्रभवउ पंचसएण अट्टइवह्वयरमाइवप्पो ।

सविकहं ए रूठउ जाइ नीयघरहंतु नींसरइ ए ।
 चालीउ ए सिवपुरिसाथ सारथवय तिहिं जंबुसामि ।
 तिहुयणी ए जयजयकार सोहम देषीउ जंबुसामि ।
 कंचण ए रयणिहिं दाण जिम घण वरसइ भाद्रवए ।
 सयतऊ ए ईह गोलोक भवियजणसंवेगकरो ॥ ३७ ॥

इवणि—कसकेरी पिइ माइ पुत्र कलत्र धन्न धण ।

देसी कुडिसारिच्छ जिण जिम जंबू परिहरए ।
 अनइ लोक बहूत व्रत लेवा तिहिं चालीउ ।
 वंदिय जिणभवणाइं सोहम्मसामिपासि गयउ ॥ ३८ ॥
 भवसायर ऊतारि जम्मण मरणह बीह तउ ओ ।
 पंचमहव्वयभार मेरुसमाणउ अंगमइ ए ।
 अनु तेतउ परिवार सोहमसामिहिं दिक्कीउ ओ ।
 हूउं केवलनाण संजमराज ह पालतां ए ॥ ३९ ॥
 वीरजिणिंदह तीथि केवलि हूउ पाछिलउ ।
 प्रभवउ बइसारीउ पाटि सिद्धिं पहुनु जंबुस्वामि ।
 जंबूसामिचरित पढइं गुणइं जे संभलइं ।
 सिद्धिसुक्क अणंत ते नर लीलाहिं पामिसिइं ॥ ४० ॥
 महिंदसूरिगुरुसीस धम्म भणइ हो धामीऊ ह ।
 चिंतउ रातिदिवसि जे सिद्धिहि ऊमाहीया ह ।
 बारहवरससएहिं कवितु नीपनूं छासठए ।
 सोलह विज्जाएवि दुरिय पणासउ सयलसंघ ॥ ४१ ॥

सप्तक्षेत्रिरासु

सवि अरिहंत नमेवी सिद्ध सूरि उवझाय ।

पनरकर्मभूमिसाहू तीह पणमिय पाय ॥ १ ॥

जिणसासणहमाहि जो सारो चउदह पूरवतणउ समुधारो ।

समरिउ पंचपरमिष्टि नवकारो सप्तक्षेत्रि हिव कहउ विचारो ॥ २ ॥

धुनु धुनु ते जि संसारे जीहं जिणवरु स्वामी ।

गुरु सुसाहु जिणभणिउं धम्म सुगुगङ्गामी ॥ ३ ॥

बारि अंगि दुलहु मणुजम्म अनी अ विशेषिहि जिणवरधम्म ।

सम्मत् रयणु चिति निवसइ जीह सोहग ऊपरि मंजरि तीह ॥ ४ ॥

पुणु जिणसासणु दुलहउं जीव संभलि कथनु निरुपमु ।

नाणुपहाणु एकु जि जिनवरधम्म ॥ ५ ॥

भरहखित्ति खट्टुषंडह थित्ति केवलनाणि जिणवर जंपंति ।

वैताढ्यपरहां त्रिन्नि खंड होइ तहि धरमनामु निवरतन तोइ ॥ ६ ॥

उल्या त्रिहु खंडि थित्ति केवलि इम आपइ ।

तीहमांहि दुनि षंडने पडिया पाषइ ॥ ७ ॥

मज्झिम षंड इकु बइनी मडिउ तेउ त्रिहुभागि पाळइ पडिउं ।

चउथउ भाग धरमनइ लागे तेउ जोईजइ सयमइ भागे ॥ ८ ॥

ते अ नवाणवइ भाग साहू मिथ्यातिहि जडिउं ।

थाकतउं कुमतिकुबोधिकुगुरुगुगहि पडिउं ॥ ९ ॥

डा जीव केई दीसंते जे जिणभणिअं मनिहि करंति ।

व तिहुयणिहि सारु समिकत्तु पामिउ जीवि जिनभणिउ नवतत्तु ॥१०॥

बार वरत तइं पामिउ जे जिणवरि वुत्ता ।

सुगइनिबंधण सत्ता जीव मुगति दीयंता ॥ ११ ॥

प्राणातिपातव्रतु पहिलउं होई बीजउ सत्यवचनु जीव जोई ।

त्रीजइ व्रति परधनपरिहारो चउथइ शीलतणउ सचारो ॥ १२ ॥

परिग्रहतणउं प्रमाणु व्रतु पांचमइ कीजइ ।

इणपरि भवह समुहो जीव निश्चय तरीजइ ॥ १३ ॥

छट्टुं व्रतु दिसितणउ प्रमाणु भोगुवभोगव्रत सातमइ जाणु ।

अनरथव्रतु दंड आठमउं होइ नवमउं व्रत सामायकु तोइ ॥ १४ ॥

देसावगासी दसमुं व्रतु नथी मूलु ।

पोषधव्रतु इग्यारमउ संजमसमतूलु ॥ १५ ॥

व्रतु बारमउं अतिथिसंविभागुउ तोइ मुकतिनयर न न मागो ।

जे ईणइ मारगि चालइ संसारे धनु सक्रियारथ ते नरनारे ॥ १६ ॥

समकितमूल व्रतु बारइ गहियधरमि पालेवउ ।

ससक्षेत्रि जिनभणिया तिह वित्तु वावेवउ ॥ १७ ॥

ससक्षेत्रि जिन कहिया महामुनि वित्तु वावेजिउ विवहपरे ।

जिनवचनु आराधीउ अवक्रमु साधिउ लहइ पारु संसारुसरे ॥ १८ ॥

ससक्षेत्रि जिनसासणिहि सघली कहीजइं ।

अथिरु रिधि धनु द्रव्यु बीजउ तहि जि वावीजइ ।

तेहि क्षेत्रि वावेव्रणा थानकि लाभइ देवलोको ।

कणनी थाहरु मुक्तिफलो पामउ निसंदेहो ॥ १९ ॥

पहिलउं क्षेत्र सु जिणह भुवण करावउ चंगू ।

जीळे महिमा करइ सहु श्रीचउविहसंधू ।

मूलगभारउगूढमंडपुछकुचउकीसहिउ ।

आगइ कीजइ रंगमंडपु जो पुस्तकि कहिउ ॥ २० ॥

तहिं आतरइ बलामणु कीजइ आवेरउ ।

जिम जिनभवनह नालिमाहि दीसइ नीकेरउं ।

उत्तंगतोरणु थंभथोरु घांडु अतिनीकउ ।

कडीयइ नानाविधि रूपि सारु चारु तहि नीसलु जडिउ ॥ २१ ॥

बिहु पक्ष फरती देहरी कीजइ अतिरूडी ।

ठवीजइ मूर्ति जिनहतणी माहि तेवड तेवडी ।

कणयकलस दंड घांटीइं धज पूरीय कियजइ ।

छोहपकतप्रासादु भलउ जीव नीपाइजइ ॥ २२ ॥

तहि जिनबारिं कमाड भलां कीजइ अतिसुविघट ।

सारुआर दृढ प्रागू ए जो आवइ संपुट ।

तालां कूंची सांकली अतिनीसल कीजइ ।

जउ आथमणह जाइ सूर तउ संपुट दीजइ ॥ २३ ॥

अतिसउ जिणह भुयणु किरि अमरविमाणु ।

दीसइ मूरनि बीतराग माहि तिहुयणुभाणु ।

कवणु रूप वीतरागतणु जोइ कवणु विशेषु ।
 अठ प्रतिहारि ज जिणहतणइ वृक्ष होइ अशोकू ॥ २४ ॥
 भामंडलसुरकुसुमवृष्टिसीहासणुछत्तू ।
 भेरिचमरदेवंडुणिहिण जोइ कवणु प्रभुत्तू ।
 ए थिति एसी वीतराग मेलही अवर न होई ।
 सूर्रादिक जिनसेव करइं नवि सगलइं जोई ॥ २५ ॥
 तउ जिनजीर्णउद्धारु भवि जीव विशेषिहि करीयइ ।
 भागउ लागउ जिणह भुवणि तेउ तोइ समुद्धरियइ ।
 लीपिउ धउलीउ भीगु देइ चीत्रामु लिषीजइ ।
 इणपरि भुयणु समारीय जन्मह फलु लीजइ ॥ २६ ॥
 अनीउ जु काइं किंपि ठामु जिणभुवण सीदाइ ।
 तं निश्चिइं करावीयए बहुफलु बोलाइ ।
 आपणि सामिउ वीतरागु ईणपरि भणेइ ।
 जीर्णोद्धारहतणा पुण्य तेह अंत न होइ ॥ २७ ॥
 बीजं खेत्रु सुजिनह बिंबु ते इहां विचारो ।
 मणिमय रयण सुवर्णमण बिंब रूपम कारो ।
 हिव जिनभुवणह गृहचैत्यदेवरा छ कहीसइ ।
 कीजइ कणयभिगार कलस जे नीर भरीसइ ॥ २८ ॥
 तउ सीलमइ करावीयइ जिनभवन ठवीजइ ।
 पारइ पीतलमइ भलां ग्रिहचैति पूजीजइ ।
 घरि देवालाइं कराविय नीकाइ मणोहर ।
 जीळे तिहुयणसरण सामि पूजीजइ जिणवर ॥ २९ ॥
 सुगंधि नीरि सनाथु करइ जिण जीणि आणंदिहि ।
 ते संसारह कसमलह नवि छीपइ बिंदिय ।
 अंगलूहणे सूक्ष्म करउ सुफरां बहुमूलां ।
 नियनियसक्ति करावियइ कीजे देवंगतूलां ॥ ३० ॥
 कीजइ ओरसु रूयडा सिरखंड घसेवा ।
 कपूरवटे वाटीइ कपूरु जिनस्वीमुखि देवा ।
 मूंकइ जिणभुयणिहि धोति अतिनीकी धूपी ।
 वालाकुंची पूजणीइ पीगाणी कूपी ॥ ३१ ॥

अतिसुगंधिहि सिरग्वंडिहि कपूरिहि आंगी ।
 कीजइ सामी वीतराग प्रभु नवनवभंगी ।
 कस्तूरिहिं कुंकुमिहि तिलउ निलाडिहिं सामी ।
 ते पुण वितपति करइ भली अतिनीकइ धामी ॥ ३२ ॥
 तउ आभरण चडावियइ सोत्रणमय घडिया ।
 हीरे माणिकि मोतीए बहुरयणे जडिया ।
 अतिरुयडउं आभरणउ भलउं कीजइ संपूरउ ।
 नीकउं सिहरउं पूठिउं हूतलि अनइ मसूरउ ॥ ३३ ॥
 कानिहि कुंडल सिरि मुकुटु किरि ऊगिउ भाणूं ।
 जाणे तिहूयणि सयल लोक अभिनवउं विहाणूं ।
 उरह माल कंठि सांकलउं मुक्तावलिहार ।
 नयणि निहालिन वीतरागु रुयडउ सुरसार ॥ ३४ ॥
 बाहुजुयलि बेउ बहिरखा अतिनीका सोहई ।
 टीलूउं श्रीवत्सु सारुघार भवियण मणि मोहइ ।
 सोनाकेरी पालठी कीजइ जिनपत्ते ।
 सोहइ बीजउरउं रुयडउं सामीजिणहत्थे ॥ ३५ ॥
 इणि विवेकिहि बहु य विशेषिहि जिणवरपूज सलरुणी य ।
 करउ मनरंगिहि नवनवभंगिहि श्रीसंघनयणसुहामणी य ॥ ३६ ॥
 एती अ जोइ आभरणतणी पूजा नीपत्री ।
 हिव आरंभिसु जिणह अंगि सुरहां कुसमत्री ।
 कीजइ कुसमे चंगेरीयए पूज कारणि रुयडी ।
 वावरीइ दीहु देवकाजि अन्नइ छाजी छवडी ॥ ३७ ॥
 रायचंपु केतकी जाइ सेवत्री परिमल ।
 बउलि सिरीवालउ वेअलु अनु करणी पाडल ।
 नीलउत्री विचि पूजमाहि सोहइ अतिचंगी ।
 वितपति दीसइ रुयडे तिणि नवनवभंगी ॥ ३८ ॥
 नीकउ कणयरु पूजमाहि वरणकि सोहंती ।
 परिमलु पसरइ कुसुमजाति पाछइ विहसंती ।
 कुंदु अनइ मुचुकुंदु वालु जूई परिजाते ।
 एसे कुसुमि करउ पूज तुम्हि तिहुयणपत्ते ॥ ३९ ॥

सुरहउ सरुयउ बावची अनइ कल्हार ।
 सहुयइ सोहइ वीतराग सामी सुरसार ।
 नीलउत्री नागवेलि पानमाहि जा सोहइ ।
 ईणपरि पूजइ सामिसाल नरनारी धन्न ॥ ४० ॥
 एहि रामणीयइ पूज तोइ नीकी सोहंती ।
 तउ नक्षत्रहतणी माल दीवाशू चंगी य ।
 खेलीयइ माहि भुयण जिणबिंबहकेरी ।
 आणी कुसुमे पूजियइ ते सवि संखेवी ॥ ४१ ॥
 समोसरणु जो पूजीयणु जो तिन्निपयारूं ।
 चिहु पखि दीसइ वीतरागु जहि तिहुयणसारूं ।
 तउ पूजा नीपत्री पूठि धूपउटजउ लीजइ ।
 वीजणिय ऊखेवितु गुरु तहि घंटी वाजइ ॥ ४२ ॥
 धूप अगुरु सातिवारेसि डाबडी जि कीजइ ।
 दंडासणे अतिरुयडे जिणभुवणु पुंजीजइ ।
 आखेरिहिं मंजूस भली अन्नय चउकीवट ।
 ढोइउ आखे करउ भली य मंगलीक आठ य ॥ ४३ ॥
 वद्धमाणु वरकलसु अनइ भद्दासणु छत्तू ।
 दप्पणु नंदावरतु तहि साथिउ श्रीवत्सू ।
 अठ मंगलीक तीण पाटि भरियइ जिनआगइ ।
 इणपरि जं धन वेवीइ ए तं लेखइ लागइ ॥ ४४ ॥
 दीवा कीजइ जिनभुवणि छत्रत्रउ दीजइ ।
 चमर ढलंते वीतराग तेहि धनु वेवीजइ ।
 ते उलोच कारावियइ जिणभुवणमज्झारे ।
 वाचोटा मरवर अ लंब कीजइ जिनबारे ॥ ४५ ॥
 तोरण बंदुरवाली बारि साषि जिणभुवणि ।
 पूजा जोइ सहु कोइ आवइ तीणि खिणि ।
 पूजा जोइवा जिणह भुयणि तोइ सुहगुरु आवइ ।
 तउ संधिहि आग्रहु करीउ तीळे रहाविय ॥ ४६ ॥
 पडषउ वेला एक प्रभु अहां उच्छवु होसिइ ।
 संघवयणु मानेवि सुगुरु निसि सिखं पइसइ ।

तिणि वेलां बइसणां पाटि जोइ पाटल्ला ।
चउकीवटि बइसंति सुगुरु तउ भावइ भल्ला ॥ ४७ ॥
बइसइ सहइ श्रमणसंघ सावय गुणवंता ।
जोयइ उच्छवु जिनह भुवणि मनि हरष धरंता ।
तीळे तालारस पडइ बहु भाट पढंता ।
अनइ लकुटारस जोइई खेला नाचंता ॥ ४८ ॥
सविहू सरीषा सिणगार सवि तेवड तेवडा ।
नाचइ धामीय रंभरे तउ भावइ रूडा ।
सुललित वाणी मधुरि सादि जिणगुण गायंता ।
तालमानु छंदगीत मेलु वाजिंत्र वाजंता ॥ ४९ ॥
तिविलां झालरि भेरु करडि कंसालां वाजइं ।
पंचशब्द मंगलीकहेतु जिणभुवणइं छाजइ ।
पंचशब्द वाजंति भाटु अंबर बहिरंती ।
इणपरि उच्छवु जिणभुवणि श्रीसंघु करंतउ ॥ ५० ॥
तउ आरत्ती परुगुणउं कीउं आरती पटऊपरि ।
ऊठिउ संघपति विधिहि सहिउ तउ साहीउ बिहुकरि ।
नीर लुण ऊतारियए कुसुम ऊतारी ।
संघपति ऊठी सेसि भरइं सहइत्थिहि माडी ।
संघपति आरती छ्लिया हुइ जउ वार वडेरी ।
आरती जोगी थांभली अ आणउ गरुएरी ॥ ५१ ॥
पाछइ जिणगुण गाइ पढइ सहू पालउ लोक ।
श्रीसंघु तीह अ दानु दियई जीह जेसा जोगू ।
ऊतारीइ आरतीअ तोइ संघपति सहू हरखिउ ।
रोमांचीसारीरु तहि जिणदंसणु देखीउ ॥ ५२ ॥
मंगलीकु ऊतारीयए घंट वाजइ सरुई ।
श्रीसंघु करइ प्रभावना जिणसासणि गरुईं ।
तउ विधि वांदियउ वीतराग श्रीसंघु ऊतारीउ ।
इणपरि सुकृतभंडारु तोइ भव्यजीविहि भरियउ ॥ ५३ ॥
जे जिन भुवणतणां कृत्य ईह छेडइ कहिया ।
ते गृहचैत्य करावियइ सविशेषिहि सहिया ।

अनि अ ज काई कोइ ठामु मूं हूइं वीसरियउं ।

तेउ तुम्हि भविय करावि जि अ सहूइ सांभरियउं ॥ ५४ ॥

उछवुं जिनभुवयणि हरषि नियमणि करइ संघु जयवंतु ।

नितु हिव त्रीजउ क्षेत्रु कहिसु पवित्तू सुणउ जीव जे जिणभणित्तू ॥ ५५ ॥

त्रीजउ क्षेत्रु सु संभलउ ए वरलोयणे जं भणितं वीयराइ ।

गुणगंभीर सो जिणह वयणु मृगलोयणे तसु नवि ऊपम काइ ॥ ५६ ॥

वचन इकेका मूलु नही वरलोयणे जं बोलइ भगवंतु ।

त्रिहु भुवणे चूडामणि य मृगलोयणे सहू जाणइ अरिहंतु ॥ ५७ ॥

पढ कवण व्याप जिनवचनतणउ वर० बुज्झइ लोक्कु अलोक्कु ।

सउ जि सिद्धंत ज सलहीअइ ए मृग० देअइ सिद्धिसंजोगु ॥ ५८ ॥

गणधर करइ जं पुन्वधर वर० सुयकेवलिहि करंतु ।

दसपूरवधर जं करइ मृग० तं भणियउ यइ सिद्धितु ॥ ५९ ॥

त्रिहु भुवणहतणउ जाणियइ वर० आगममाहि विचारु ।

चउदपूरव इग्यार अंग मृग० करइ गोतमु सुतिहारु ॥ ६० ॥

सूत्रहार तहि निउछणा ए वर० जिणि जाणित एउ सूत्र ।

त्रिपदी आपी य वीरनाथिइ मृग० आघउं गोतम वृतु ॥ ६१ ॥

केवलनाण बुच्छिति गयउं वर० गया सवि पूरवधर ।

जे हुंता गुरु प्रज्ञघणउं मृग० गया सु ते मुनिवरा ॥ ६२ ॥

अल्पप्रज्ञह नवि थाहरण वर० जिणवयणुं निरूपमु ।

तीण कारणि श्रीसंघ मिलीय मृग० पोथे ठवीउ आगमु ॥ ६३ ॥

भक्षाभक्ष सो बुज्झियए वर० अन्नी गम्मागंसु ।

कृत्याकृत्य परीछियए मृग० जाणीयइ धर्म्मधर्म्म ॥ ६४ ॥

धन जीवी लाहुउ लिउ ए वर० बुज्झियइ एहु विचारु ।

श्रीसिद्धंतु लिखावियए मृग० जोउ त्रिहुभुवणह सारु ॥ ६५ ॥

त्रीजउ क्षेत्रु इस वावीयए वर० चित्ति संवेगु धरेउ ।

वेवीउ वित्त लिखावियए मृग० श्रीसिद्धान्त जएउ ॥ ६६ ॥

बाहूदंड पोथा कराउए वर० पोथीय नीकी य तोइ ।

ज्ञानलगइ सवि लाभ हुइ मृग० एह विचार तूं जोइ ॥ ६७ ॥

पाठां दोरी वीटणां वर० वर सिद्धांतह भत्ति ।

वानीदोरा ऊतरीय मृगलोयणे पोथीय पोथीय सत्ति ॥ ६८ ॥

त्रीजउ क्षेत्रु इम वावउ निरुपम लियउ लाभु हुंतातणउ ।
 जिम अट्टकम्म गंजीउ भवदुह भंजीउ सिद्धिनयरि खेमिह मुणउ ॥६९॥
 हिव श्रीश्रमणसंघभत्ति करउ जीव तुम्हि यथासक्ति ।
 पहिलउ कीजइ तोइ पावयणा अनी य विशेषिहि आयरियठवणा॥७०॥
 इणपरि श्रमणुक्षेत्रु वावीजइ निश्चय भवसायरु तरीजइ ।
 जे जिनवरि मुनि कहिया आगमि क्रियासार अनइ खरतर संजमि॥७१॥
 पंचमहन्वयभारु धरंता दस अनु च्यारि उपगरण वहंता ।
 नव कल्पिइ विहार करंता ते मुनि भणियइ चारित्तवंता ॥ ७२ ॥
 जे मुनि पंच समिति छइ समिता त्रिहुहि गुसिहि जे अछइ गुपिता ।
 सीलंग सहसअठार वहंता ते मुनि भणियइ उपसमवंता ॥ ७३ ॥
 जे मुनि निम्मल निरहंकार सदाचार दीसइ सुवियार ।
 जे धुरि जूता गणगच्छभारा ते मुनि भणिया गुणह भंडारा ॥ ७४ ॥
 ईणपरि भल्ला क्षेत्र विशेषि दियउ दानु तुम्हि भवि हरखि ।
 जिम तु छटउ भवना भार पामउ सिवमुखु निरुपमसारु ॥ ७५ ॥
 जे जिनआण सदा छइ रत्त बावीस परीसह सहइ अपमत्त ।
 जिनआदेसु धरइ सिरिऊपरि ते जि महामुनि नमीयइ सुरवरि ॥ ७६ ॥
 बईतालीसदोषसुविसुद्धउ लियइ आहारु जे जिणवरि दिहुंउ ।
 इंदियविषयव्यापिनवि गूचइ तवि नीमि संजमि खण विन मूचइ ॥७७॥
 किसुं घणउं हउं कहउ विचारो मुनिरयणगुण न लहउं पारो ।
 अनुव्रतु चालइ जे जिनआण ते मुनि भणियइ मेरुसमाण ॥ ७८ ॥
 प्रसंसीइ मुनि जिहि गुणि सहिया ते गुण जिणवरि श्रमणी कहिया ।
 एकु विशेषु पुण श्रमणी दीसइ वहइ उपगरण तोइ पंचवीसइ ॥ ७९ ॥
 चालइ खड्गधार तोइ ऊपरि सीलवंत ति नमीइ सुरवरि ।
 महासती जे छइ अपमत्त धारा भणइ हूंतेहि पवित्त ॥ ८० ॥
 जीह जिनआण हियइ परिणमी ते श्रमणी तोइ मेरह समी ।
 जे सिद्धी जिणआण करंती धनु धनु श्रमणी ते महासती ॥ ८१ ॥
 जिणसासणु जेहि य इम उज्जालिउ कसिमल पावपंकु पखालिउ ।
 एउ साहू अनइ श्रमणी खित्त वाविन धामी हुईउ सवित्त ॥ ८२ ॥
 जा हिवडांतूं संपति अच्छइ इसीय वराप न पामिसि पछइ ।
 जउ भलखेत्रिहि वित्त न वाविसि पाछइ परभवि किसउ लुणाविसि॥८३॥

वराप टली वितु वाविसि सारु जगिसि खडसलु काइ कतवारु ।
 जउ भलक्षेत्रि वरापहं वाविसि तउ इकुगुणइ अणंतगुणं पाविसि ॥८४॥
 ए भलुं क्षेत्रं जिनवरि कहिया वावे धम्मी भावणसहिया ।
 तउ सीचे अनुमोदनापाणी जिम हुइ सफली गय निरुवाणी ॥ ८५ ॥
 ईणपरि वावीजइ मुनिखेचु दीजइं भक्त पानु सूझंतू ।
 विद्यादानुं जउ दीजइं सारु जिणु भणइ तेह पुन्य नहीं पारु ॥ ८६ ॥
 ओषधआदि सहु सूझतउ तं तं दीजई नियघरिहुंतउं ।
 अनिउ ज्ज काई मुनि उपगरइ तं सूझतूं वहरउं करइ ॥ ८७ ॥
 जं जं मुनि जोअइ सूझंतउं तं तं दीजई नियघरुहुंतउं ।
 गुरु आवंता कीजइ अभिगमणउं दीजइ भक्ति थोभवंदनउ ॥ ८८ ॥
 विनउ वेयावचु अनीउ विशेषिउ कीजइ भवीउ महामुनि देग्वीउ ।
 पर्युपास्ति तही कीजइ घणी य जिम जिम जिनवरि आगमि भणीय ॥८९॥
 एह ज परि श्रमणी जाणेवी करउं भक्ति तुम्हि हरिख धरेवी ।
 जे सूझ महामुनि दीजइ तं तं श्रमणी कीजइ ॥ ९० ॥
 आगइ तोइ पूर्वहि सुणीजइ धनु धनु सारथवाह कहीजइ ।
 घीउ विहिराविउ जिणि मुणिदउ तिणि फलि ह्यउ पढम जिणंद ॥९१॥
 हथिणाउरि नयरि श्रेयंसिहि पाराविउ रिषुभु इक्षुरसिहिं ।
 तिणि फलि तिण भवि केवलु ज्ञानु दिइन भविकु मुनि इणपरि दानु ॥९२॥
 वीर जिणेसर छट्टा मास चंदण पारावइ कोमास ।
 तीणि दानि शिव संपति पामी दियउ दानु तुम्हि अनुव्रत धामी ॥९३॥
 जोइन संगमि कीउं मुनि पारावीउ खंड खीरु घीउ ।
 तिणि फलि तु सर्वार्थसिद्धि पामी पाछइ होसिइ सिवसुहगामी ॥ ९४ ॥
 इउ भल्लउ खेतू वावउ वितू अतिफलीअइ संवेगचिचू ।
 सिवसुह संपत्ती देइन भक्ति सामिसालु आगमि भणित्ति ॥ ९५ ॥
 हिव तोइ श्रावकतणउं क्षेत्तु भवी कहीसइ ।
 जउ जिणसासणतणी भूमि अतिभलउं फलीसिइ ।
 किसउ सुश्रावक जाणिवउ जिणसासणभितरि ।
 श्रीवीतरागतणी य आण मानइ सिरऊपरि ॥ ९६ ॥
 समकितमूल बार वरत पालइ नरनारि ।
 निवसइ हियडइ वीतरागु एक जि सुरसारु ।

कामदेव जिम चलइ नही वीतरागह धर्म ।
 वीरनाहु जिणवरु दियइ तसुनी ऊपम्म ॥ ९७ ॥
 सदाचारु सुविचारु कुसलु अनइ निरहंकारु ।
 शीलवंत निकलंक अनइ दीनगणआधार ।
 जिनह वचनि तिम सातधातु जीह श्रावक भेदी ।
 जाणे तीह गर्भवासवेलि मूलहुंति छेदी ॥ ९८ ॥
 जाणइ ऊचितु सह काय साचउ विवहार ।
 त्रिधा सुद्धि मनमाहि वसइ इकु निश्चउ सारु ।
 उत्सर्ग अनइ अपवाद एह जाणइ सविसेषु ।
 भणियइ श्रावकतणी भावीय मूलिइ सा जीह एहु विवेक ॥९९॥
 जे पुण श्रावकतणा भविय कहीयइ जिणसासणि ।
 ते गुणु जिण भणइ श्रावियह जाणेवा नियमा ॥ १०० ॥
 त्रिधा सुद्धि वीतराग वसइ मनभीतरि जीह ।
 सुलहउ सिवपुरतणउ वासु तो श्रावक तीह ।
 पढइ गुणइ जिणवयणु सुणइ संवेगि संपूरिय ।
 सील सनाहि पहिरिइ क्रमऊपरि सूरी ॥ १०१ ॥
 ईहं तु श्रावकतणउ क्षेत्रु वावु सवि दीस ।
 जे तुम्हि भवियउ अच्छइ काइ धर्मतणी जगीस ।
 जिम भरयेसरि वावी रिसहेसरनंदणि ।
 गृहवासऊपरि ज्ञानु जासु पसरीउ तिहुयणि ॥ १०२ ॥
 तिम तुम्हि वावेउ भलीपरि भविउ इउ खित्तु ।
 लहिसउ फल निरवाणनयरि तिम तिहां बहूतु ।
 पहिलुं कीजइ महाविनउं गुणश्रावक जाणी ।
 पाय पषालीय सइहाथि लेउ कुंकुम वाणी ॥ १०३ ॥
 पाछइ भोजनुं भलीयभक्ति सविवेकिहि सहियउ ।
 दीजइ श्रावकश्राविकां एउ आगमि कहिउ ।
 ऊपरि ऊगटि फूल पान कापड अनुमानिय ।
 दीजइ निजभक्ति भलां गरुयइ बहुमानि ॥ १०४ ॥
 भरयेसर जिम श्रावकह दीजइ आवासे ।
 लीणा जे जिनवयणि अछइ घणगुणह निवास ।

वाछिलनी परि एक कीसउ परि हुअइ असंख ।
 विधिमानु फरसइ सहू कोइ नरनारी दुःख ॥ १०५ ॥
 वाछिलनी परि एकजीभ हउं कहिउं न सकउं ।
 एकह वारु सारु सकू तुम्ह कहीउ अज मू किउं ।
 जं जं कीजइ कुणबकाजि अतिभलां भलेरां ।
 ता कीजइ साहमिय प्रति अजी अधिकेरां ॥ १०६ ॥
 कीधे काजे कुटंबतणे अतिघणउ संसारो ।
 जं कीजइ साहंमिअकेरउ काजि ते परत भंडारो ।
 इणपरि वाछिल श्रावकह कीजइ सुरचंगू ।
 हव ते कहीइसिइ जिणभवणि वाछिल अंतरंगू ॥ १०७ ॥
 जिणपरि लोग समाराअए सवि साहंमिअकेरु ।
 थाकइ जिम संसारमझि वलि वलि एउ फेरु ।
 कीजइ श्रावकश्राविकारहि वरपोषधशाल ।
 जीछे करिसिइ धरमध्यान तु हरषि सवि काले ॥ १०८ ॥
 षडुजीवरक्षा सवि काल तीछे दीसंती ।
 समकितसिउं वार य व्रत जीव अनेकिइ लहंती ।
 प्रतिमा नीम अभिग्रह संपज्जइ तिणि हाट ।
 अनेकि सुकृत ऊपजइ कुहियाकडेवरमाट ॥ १०९ ॥
 तीछे सुगुरु वषाणु करइ आगमभंडार ।
 सहू समाधियइ सांभलइ व्यूथ नरनारे ।
 थापनाचार्य चउकीवटउ सिंहासण कीजइ ।
 नउकरवाली चिरवला महुपत्ती मूंकीजइ ॥ ११० ॥
 संथारा उतरउट पाटि कीजइ पुंछणा ।
 करे पोसाल पाटला अनइ दंडाछणा ।
 काजामेलणी य पउंजणी य काजाऊधरणी ।
 पौषधसालहतणइ ठामि ए काजह करणी ॥ १११ ॥
 कीजइ कमली ठवणी य वाचीजइ सिद्धांतु ।
 ज्ञान पढंता जीव तीहा कर्मक्षय अनंतु ।
 जइ ज्ञान पडिलेहवा मोरवीछी य छे तोई ।
 दीसई आखर पडवडा अनइ जइणा होई ॥ ११२ ॥

ईह सातइ क्षेत्र इम बोलीया आगमअणुसारे ।
 पुण तुम्हे वावीयं भलीयपरि वित्त आपणरे ॥ ११३ ॥
 न्यायनीति वितु लिउं तीउ थानकि वावे ।
 जिणसासणि वेवीतु कुलि कमल सु चडावे ।
 संघसमुदाइ सहू कोइ तीरथ वंदावे ।
 देवजात्र गुरुजात्र करीइ तउ भलउ भणावे ॥ ११४ ॥

इम वितु सु वेवउ धम्म सु संचउ अप्पं जीव स वंचसुउ ।
 वली न लहिसउ प्रस्तावु एसउ करउ सफलु भव माणसउ ॥ ११५ ॥

सातक्षेत्र इम बोलीया पुण एकु कहीसिइ ।
 कर जोडी श्रीसंघपासि अविणउ मागीसइ ।
 काईउ ऊणं आगउं बोलिउं उत्सुहु ।
 ते बोल्या मिच्छा दुकडं श्रीसंघविदीतुं ॥ ११६ ॥
 मूं मूरष तोइ ए कुण मात्र पुण सुगुरुपसाऊ ।
 अनइ ज त्रिभुवनसामि वसइ हियडइ जगनाहो ।
 तीणि प्रभाणिइ सातक्षेत्र इम कीधऊ रासो ।
 श्रीसंघु दुरियह अपहरउ सामी जिणपासो ॥ ११७ ॥
 संवत तेरसत्तावीसए माहमसवाडइ ।
 गुरुवारि आवी य दसमि पहिलइ पम्बवाडइ ।
 तहि पूरू हूऊ रासु सिव सुख निहाणूं ।
 जिण चउवीसइ भवीयणह करिसिइ कल्याणूं ॥ ११८ ॥
 जां सिसि रवि गयणंगणिहि ऊगइ महिमंडलि ।
 ता वरतउ एउ रासु भविय जिणसासणि ।
 निम्मल ज ग्रह नक्षत्र तारिका व्यापइं ।
 गयवंतु श्रीसंघ अनइ जिणसासणु ॥ ११९ ॥

कछ्लीरासः

इ जो जिम दुरीउविहंडणु रोलनिवारणु तिह्यणमंडणू पणमवि सामीउ
पासजिणु ।

भदेसरसूरिहिं वंसो बीजीसाहह वंसिसु रासो धमीय रोलु निवारीउ ।
इंडु जिम महीयलि जाणउं अठारसउ देसु वषाणउं गोउलि धन्नि
रमाउलउ ॥

कुंडसंभम परमार राजु करइं तहिंछे सविवार आवूगिरिवरु तहिं पवरो ।
इडवसहीं आदिजिणंदो अचलेसरु सिरिमासिरि वंदो तसु तलि
नयरी य वन्नीयण ।

णनयणह कम्मणमूली कछ्ली किरि लंकविसाली सरप्रववावि
मणोहरी य ॥

वस्त—तम्हि नयरी य तम्हि नयरी य वसइं बहु लोय ।

चिंतामणि जिम दुच्छीयहं दीइं दानु सविवेय हरिसि य ।

सच्चइं सीलि ववहरइं कूडकपटु नवि ते य जाणइं ।

गलीउं जलु वाडी पीइ धम्मकम्मि अणुरत्त ।

एकजीह किम वन्नीइ कछ्ली सु पवित्त ॥

गेरिधवलउ जिमु कविलासो गुरुमंडणु पुतलीयविणासो पासभूयणु
रलीयामणउं ।

हं गुरु मणि आणंदु आणइ जमहडनंदणु तं परिमाणइ सतरि भेदि
संजमु परिपालइ ।

गि सिरिपहसुरि गुण गाजइ एगंतर उपवास करेइ बीजा दिण
आंबिल पारेइ ।

देवति देसण आवइ रयणिहिं ब्रह्मसंति गुरु वंदीइ कविलकोटि श्रीय-
सुरि विहरंतइं ।

तेपण कीयां तुरंतइं सइ नर आवीय पंचसयाइं समिकति नंदइं बहु य वयाइ ।

छाहडनंदणु बहु गुणवंतउ दीख लीइ संसारविरत्तउ ।

लाषणछंदपरमाणपरिक्खणु आगमधम्मवियारवियक्खणु ।

छत्रीसी गुरुगुणि जुत्तउ जाणीउ नियपदि ठविउ निरूत्तउ ।

माणिकपहसूरि नाम् श्रीयसूरिप्रतीछीउ कछ्छलीपुरि पासजिणभूयणि अहिठीउ ॥
 सावयलोय करइं तसु भत्ती नवनवधम्ममहूसवजुत्ती ।
 श्रीयसूरि आरासणिअठाही अणसणविहि पहतउ सुरनाही ।
 निवीय आंबिलि सोसीय नियकाया माणिकपहसूरि वंदउ पाया ।
 विणठदेह जस धवलह राणी पायपखालणि हुई य पहाणी ।
 माणिकसूरि जे कीध जिणधम्मपभावण इकमुहि ते किम वन्नउ भवपाव-
 पणासण ॥

कालु आसन्नु जाणेवि माणिकसूरि नयरिकछुलि जाणवि गुणमणिगिरि ।
 सेठि बासलसुउ वादिगयकेसरी विरससंसारसरिनाहतारणतरी ।
 संघु मेलवि सिरिपासजिणमंदिरे वेगि नियपाटि गुरु ठविउ अइसइ परे ।
 उदयसिंहसूरि कीउ नामि नाचंती ए नारिगण गच्छभरु सयलु समपीजए ।
 सूरु जिम भवियकमलाइं विहसंतओ नयरि चड्ढावली ताव संपत्तओ ॥
 वन्न चत्तारि वरवाणि जो रंजए राउलो धंधलोदेउ मणि चमकए ।
 कोइ कम्माली पाऊयारूढओ गथणि खापरिथीइं भणइ हउं वादीओ ।
 पंडिते बंभणे तापसे हारियं राउलोधंधलोदेविहिं चितियं ।
 वादिहिं जीतउं नयरो नवि कोउ हरावइ उदयसूरि जइ होए अम्ह माणु रहावइ ॥
 वस्त—जित्त नयरि य जित्त नयरि य सयलमुणिसीह ।
 नीरंतइं नीरु षडो गरुयदंडडंबरु करंतइं ।
 धंधलु राउलु विन्नवइ सामिसाल पइ मझि संतइं ।
 बंभण तपसीय पंडीया जं त न बंधइं बाल ।
 सु गुरु कम्मालिउ निज्जणीउ अम्ह अप्पउ वरमाल ॥
 धंधलजिणहरि सवि मिलिय राणालोय असेस ।
 उदयसूरि संधिहि सहीउ निवसइ ए निवसइ ए निवसइ वरहरि पीठि ॥
 सत्थिपमाणी हरावीउ मंत्रिहिं ए मंत्रिहिं ए मंत्रिहिं वादुकमठो ॥
 सेर्यवर तउं हिव रहिजे जे गुरु सिद्धिहिं चंडो ।
 विसहरु आवतु परिषलि जे लंषीउ ए लंषीउ ए लंषीउं दंडु पयंडो ॥
 तउ गुरि मुहंतां मिलिहकरि होई गरडु षणेण ।
 धाईउ लीघउ चंचुपडे गिलीउ ए गिलीउ ए गिलीउ छालभुयंगो ॥
 पाउपिल्लि वि संमुहीय डरडरंतु थीउ वाघो ।
 जोवणहार सवि षलभलीय हीयडई ए हीयडई ए हीयडइ पडीउ दाघो ॥

तउ गुरि मूकीउ रयहरणु कीधउ सीहु करालो ।
 वाघह जं ता दूरि थीउ हरिसीउ ए हरिसीउ ए हरिसीउ नयरु सबालो॥
 इत्थंतरि मुणि गयणठिय तसु सिरि पाडीय ठीब ।
 हुउ कमालीउ कालमुहो लोकिहिं ए लोकिहिं ए लोकिहिं वाईय ब्रूब ॥
 छंडीउ माणु कवालधरो धाईउ वंदइ पाय ।
 खमिखमि सामि पसाउ करी जीतउं ए जीतउं ए जीतउ तइं मुणिराय ॥
 वस्त—ताव संधीउ ताव संधीउ ठीब मंतेण ।
 गणहरि करि कम्मालीयह भिखभरीउ अप्पीउ मुहत्तिण ।
 रामिहिं जिम वायसह इक्कु निजुत्त सु हरीउ सत्तीण ।
 धारावरसि कयंतसमि भिंडीउ डिंभीउ ताम ।
 प्रतपउ कोडि वरीस जिनउदयसूरिरवि जाम ॥
 चड्डावलिहिं विहरीउ प्रभु पहुतउ मेवाडि ।
 पासु नमंसीउ नागद्रहे समोसरीउ आहाडि ॥
 जालु कुद्दालिय नीसरणी दीवउ पारउ पेटि ।
 वादीय टोडरु पइ धरण पहुत्तउ षमणउ घेटि ॥
 केवलिभुकति न जिणु भणण नारिहिं सिद्धि सजाणि ।
 उदयसूरि षमणउ षलीउ जयत ल रायअथाणि ॥
 केवलिभुकति म भ्रंति करे नारि जंति ध्रुव सिद्धि ।
 तिसमयसिद्धा वज्जि जीय लीहं आहारु विसुद्ध ॥
 षीच षीर दीठंतु दीउ जिच्चु नंदिमुणिदेवि ।
 गयकुंभथलि आरुहीय पढमसिद्ध मरुदेवि ॥
 विवरणु पिंडविसुद्धि कीउ धमविहिग्रंथु प्रसिद्धु ।
 चीयवंदणदीवीय रचीय गणहरु भूअणि प्रसिद्धु ॥
 अम्हहं साजणसेठे छम्मासहं कालो ।
 वसतिणि ऊयरि ऊपनउ पदि ठाविजि बालो ॥
 तेरदुरोत्तरवरिसे अप्पउं साघेहं ।
 चड्डावलि दिविहो जगि लीह लिहावी ॥
 कळली जाएवि परमकल सु गच्छभारुधरो ।
 पंचम वरिस बहंति सजणनंदणु दीखीउ ।
 देवाएसु लहेवि गोठीय सप्तमे वरिस लहो ।

चउदीसि मेलीउ संघु आरीठवणउं विविहपरे ।
 गोतमसामिहिं मंत्रु आषात्रीजइ दिणी दीइए ।
 जोगवहाणु वहेवि अंग इग्यारइ सो पढए ।
 त संजमि रणि जीतु सयरह चुकउ पंचसरो ॥
 गूर्जरधर मेवाडि मालव ऊजेणी बहू य ।
 सावय कीय उवयार संघपभावण तहिं घणी य ॥
 सात्रीसइ आषाडि लखमण मयधरसाहुसूओ ।
 छयणीनयरमझारि आरिठवणउं भीमि किओ ॥
 कमलसूरि नियपाटि सइं हथि प्रज्ञासुरि ठवीओ ।
 षमीउ षमावीउ जीवु अणसणि अप्पा सूधु कीओ ॥
 षणि पहुत्तउ सुरलोइ गणहरू गंगाजलविमलो ।
 तासु सीसु चिरकालु प्रतपउ प्रज्ञातिलकसूरे ॥
 जिणसासणिनहचंडु सुहगुरु भवीयहं कलपतरो ।
 ता जगे जयवंत उम्हाउ जां जगि ऊगइ सहसकरो ।
 तेरत्रिसठइ रासु कोरिंटावडि निम्मिउ ।
 जिणहरि दिंतसुणंतं मणवंछिय सवि पूरवउ ॥

कहूलीरासः समाप्तः ॥

सालिभद्दकक

भलि भंजणु कम्मारिबल वीरनाहु पणमेवि ।
 पउमु भणइ कक्करिण सालिभद्दगुण केइ ॥ १ ॥
 कत्थ वच्छ कुवलयनयण सालिभद्द सुकमाल ।
 भद्दा पभणइ देव तुहु कह थिउ इत्तियवार ॥ २ ॥
 कारुन्नामयनीरनिहि समवसरणि ठिउ सामि ।
 अज्जु माइ मइं वंदियउ वीरनाहु सिवगामि ॥ ३ ॥
 खरउं कुड्डु ता पुत्त कहि का देसण किय वीरि ।
 कवणु अत्थु वखाणिइउ कंचणगोरसरीरि ॥ ४ ॥
 खारसमुद्दह आगलउ माइ कहिउ संसारु ।
 संजमपवहणहीण तसु किमइ न लब्भइ पारु ॥ ५ ॥

गयममत्त वीरियपवर जे जगि पुरिसपहाण ।
 सालिभद्र भद्रा भणइ संजमु सोहइ ताण ॥ ६ ॥
 गारववज्जिउ विन्नवउं काइउ मग्गउं माइ ।
 जइ मोकलउ तउ व्रतु लियउं तुम्हह पाय पसाइं ॥ ७ ॥
 घणकुंकुमचंदणरसिण तुह तणु वासिउ वच्छ ।
 वयह परीसह किम सहिसि मुणि गंगाजलसच्छ ॥ ८ ॥
 घाणइ पीलिय पंचसइं खंदगसरिहि सीस ।
 साहु माइ दुस्सहु सहइं एरिस धम्म जिगीस ॥ ९ ॥
 नवि वउ लिज्जइ तरुणपणि सालिभद्र सुकुमाल ।
 महु कुलमंडण कुलतिलय कुलपईव कुलवाल ॥ १० ॥
 नाउं गन्विहिं कुलतणइं पाविज्जइ भवत्तेउ ।
 माइ मरीचि भव भमिउ वद्धमाणजिणुदेउ ॥ ११ ॥
 चरणु लेसिजइ पुत्त तुहु नंदण नीयपवीण ।
 रोअंती भद्रा भणइं मइं किम मेलिहिसि दीण ॥ १२ ॥
 चारुचक्खिबलदेव तह वासुदेव बलवंत ।
 माइ तडि द्विय परियणह कड्डिउ लेह कयंतु ॥ १३ ॥
 छण मइलंछणसमवयण तुह भज्जा बत्तीस ।
 ते विलवंती पेमभरि किम करिसि कुलईस ॥ १४ ॥
 छारु जेम उड्डइ सयलु अंतेउरु घरसारु ।
 माइ जीवु जउ संचरइ छंडेविणु ढंढारु ॥ १५ ॥
 जणणि भणइ जां बालपणु तां पुत्तह पडिबंधु ।
 तारुन्नइ बुल्लाविअउ बहु उन्नाडइ कंधु ॥ १६ ॥
 जाणिउ देह असारबलु भरहिं मूकउ मोहु ।
 ताव माइ तसु विहिडियउं केवलनाण निरोहु ॥ १७ ॥
 झलकंतउ कंचणघडिउ सत्तभूमिपासाउ ।
 विहवह कोडाकोडि घण कहि कोइ ऊणउ ठाउ ॥ १८ ॥
 झाणानलि जिणि कम्मवणु बालिउ गहिउं नाणु ।
 वीरनाहु महु हिव सरणि रिद्धि रमणि अपमाणु ॥ १९ ॥
 नरवइ सेणिउ तुम्ह पहु सुरगोभहु सुताउ ।
 नित्तु नवलं आभरणु कहि को चित्ति विसाउ ॥ २० ॥

नाइकु सेणुत तुम्ह महु जइ किरि कहिइउ माइ ।
ता धणु कंचणु गेहबलु खण वि न चित्ति सुहाइः ॥ २१ ॥
टलटलेसि धम्मत्थ पुण धम्मगहिल्ला बाल ।
धम्म करेवा महु समउ तुहु धणुरक्खण बाल ॥ २२ ॥
टालिसि चरण म माइ मइं देइ महावयसिक्क ।
वद्धमाणजिणवरकिरिहिं पुत्तिहिं लब्भइ दिक्क ॥ २३ ॥
ठणकइ पुत्त सु चित्ति महु पुत्तविट्ठणिय नारि ।
विहवह मुच्चइ दुहु सहइ दीणी परघरवारि ॥ २४ ॥
ठामि ठामि जिउ हिंडिइउ भव चउरासीलक्क ।
माइ जि सहिया नरयदुहु ताह कु जाणइ संख ॥ २५ ॥
डरपिसि सुणियइ सीहसरि निसुणिसि सिवफिक्कार ।
भुक्खिइउ तिसिइउ वच्छ तुह किम हिंडिसि नरसार ॥ २६ ॥
डालिहि चडियउ डालिसउ माइ म हल्लवेउ ।
पच्छइ कहि हउं चरणु कहि वद्धमाणुजिणदेउ ॥ २७ ॥
ढलइं चमर वर पुत्त तुहु सीसि धरिज्जइ छत्तु ।
मणिसीहासणि वइठणउं किणि कारणि वइचित्तु ॥ २८ ॥
ढाउ विलग्गउ माइ महु सिवपुरि रज्जहरेसि ।
वोलावउ ठिउ वीरजिणु रहिसु न भवह किलेसि ॥ २९ ॥
नवउं अंतेउरु नवउं घरु नवजोवणु नवरंगु ।
सालिभहु नवकणयतणु ढल करि चरणपसंगु ॥ ३० ॥
नाणु रसायणु करिसु हउं कम्मिधणदाहेण ।
तिणि आऊरिसु माइ तणु जरा न दुक्कइ जेण ॥ ३१ ॥
तरुअरतलि आवासु मुणि भिक्कह भोयणु पाणु ।
भूमंडलि आसणु सयणु वच्छ चरणु दुहठाणु ॥ ३२ ॥
तालउ भंजिवि पइसरइ माइ गेहि जमराउ ।
छुट्टइ बालु न बुडु जणु पडइ अचिंतिउ घाउ ॥ ३३ ॥
थल डूंगर पाहण सघण कक्कर कंठ तुसार ।
पाणहवज्जिउ गुरि सहिउ हिंडिसि केम कुमार ॥ ३४ ॥
थाहररहि न मभु मणु माइ कहिउ तउ सम्मु ।
वीरनाहु जिणु ववहरउ लेसु चरणु धणु धम्म ॥ ३५ ॥

दहविह धम्मु करेसि किम किम सोसिसि निय अंगु ।
 वच्छ तहं ता दोहिलउं होसिइ तुह सीलंगु ॥ ३६ ॥
 दाणसीलतवभावणह अणु न सोसिउ जेहिं ।
 माइ मणूभवु दुल्लहउ आलिहि हारिउ तेहिं ॥ ३७ ॥
 धम्मु किइउ जिम रिसहजिणि तिम किज्जइ सुअ इत्थु ।
 पहिलउं साखिहिं पसरिउ अंति पयासिउ तित्थु ॥ ३८ ॥
 धाडउ जमरायहतणउ पडइ अचिंतिउ माइ ।
 कड्डिउ लिज्जइ जीवु तिणि बुंब न वाहर काइं ॥ ३९ ॥
 नवकप्पूरिहि पूरिया नंदण कोमल केस ।
 केतगिवालइं वासिया किम उद्धरिसि असेस ॥ ४० ॥
 नारायणबंधवु निसुणि तहिं दिणि दिक्खिउ बालु ।
 सीसु अग्गि दुस्सहु सहइ माइ सु गयसुकुमालु ॥ ४१ ॥
 पट्ट सुअ तइं पहरियां रसियउं दिव्व अहारु ।
 सुअ उव्वासिहिं सोसिया केम करेसि विहारु ॥ ४२ ॥
 पालिसु पंच महव्वइं बारस अंग पढेसुं ।
 वीरनाहिसुं माइ हउं नवकप्पिहि विहरेसु ॥ ४३ ॥
 फणिरायह सिरि पुत्त मणि मुल्लेण य बहुमुल्लु ।
 सा गिण्हंता पाणहर संजमभरु तस तुल्लु ॥ ४४ ॥
 फाडिज्जइ करवत्तु सिरि पाइज्जइ कत्थीरु ।
 माइ दुक्कु नारय सुणिउ महु उद्धसइ सरीरु ॥ ४५ ॥
 बत्तीसहं पल्लंकि तउं सयणु करइ नितु जाइ ।
 इंगरि कासुगि करिसि किम बलि किज्जउं तह काय ॥ ४६ ॥
 बार मास कासग्गि रहिउ बाहूबलि मुणिराउ ।
 नाणह कारणि तिणि सहिउ सीअ त्ठूअ जलु वाउ ॥ ४७ ॥
 भमिसि विहारिहिं भारिअओ नंदण तुं सुकुमाल ।
 वीर जिणंदह चरणु पुणु मुणि बावन्नउं फालु ॥ ४८ ॥
 भारु माइ भुक्खिय वहइ रासहवसहपमुक्क ।
 आरंक्कुसकसि ताडियइं ताहं कु जाणइ दुक्कु ॥ ४९ ॥
 मयलंछण जिम तारयहं सयलहं किल भत्तारु ।
 तं बत्तीसहं वहुअरहं एक्कु देव आधारु ॥ ५० ॥

अणहंता पयडेसि तुहु दोस पराया मूढ ।
 नियदोसण पन्वयसरिस ते सवि कारिस गूढ ॥ ७ ॥
 आइ किजिय जिणधम्मु करि सुत्थइ संबलु लेवि ।
 अग्गइ किंपि न पामिसए अत्थइ भरिया गेह ॥ ८ ॥
 इण भवि लद्धी रिद्धि पइ परभवि केव लहेसि ।
 अच्छिसि तिणि धणि मोहियउ जइ न सुपत्तह देसि ॥ ९ ॥
 ईसरु देखिउ कोइ नरु नीधिणु मणि दूमेइ ।
 एउ न जाणइ मूढ जिउ जणु वावियउं लुणेइ ॥ १० ॥
 उप्पलदलजलविंदु जिव तिव चंचलु तणु लच्छि ।
 धणु देखंता जाइसए दइ मन मेलत अच्छि ॥ ११ ॥
 ऊयरु जउ भरिवउं कुपुरिसह तो भरियउ भंडारु ।
 इक्कि जीव पुन्निहि पवर लक्कह कोडि आधार ॥ १२ ॥
 रिणि राउलि जलि जलणि घरि तक्करि धणु घणु जाइ ।
 धम्मकज्जि जउ मग्गियए ताव परमुहु थाइ ॥ १३ ॥
 रीस करंता जीव रीह अच्छइ अवगुण तिन्नि ।
 अप्पउं ताविसि परु तवसि परतह हाणि करेसो ॥ १४ ॥
 लिहियउं लब्भइ सिरतणउं जइ चालियइ समुहुं ।
 लच्छिहि केसवु संगहिउ तिणि विसि घारिउ रुहु ॥ १५ ॥
 लीलइ धम्मु जु होइंसए सेवंता जिणनाहु ।
 तं नवि मिच्छत्तिहि सहिउ जइ तपु करिसि अवाहु ॥ १६ ॥
 एकहि ठावि वसंतडा एवहु अंतरु होइ ।
 अहिडंकिउ महियलु मरए मणि जीवइ सहु कोइ ॥ १७ ॥
 ऐ आणाइ समतण जीव न बूझइ हेव ।
 हिंडइ रोसिं पूरिया न करइ उपसमसेव ॥ १८ ॥
 ओदउ तहु लोभहतणउ जीव न फिट्ठइ निच्चु ।
 अहनिसि तेण भमाडियउ न गणइ किच्चु अकिच्चु ॥ १९ ॥
 औसरि नेह अभिग्ग पुणु पिच्छिस हिय भज्जंति ।
 चंदूपल किरणेहि तहि दूरठिया विहसंति ॥ २० ॥
 अंधउ अंधइ ताणियए कवणु कहेसइ मग्गु ।

केवलिपहु निव्वाणि गउ धम्मु मतंतरि भग्गु ॥ २१ ॥
 अकयधम्मि जह माणुसह हुइ नवकारु वि अंति ।
 तिणि पुन्निहि तह देवगइ अहवा मुत्ति न भंति ॥ २२ ॥
 कवडिहि माया मूढ जिउ वंचइ लोउ अप्पाणु ।
 तिणि पाविहि भवि भवि दुहिय नवि पावइ निव्वाणु ॥ २३ ॥
 खज्जइ कालु कयंत जगि को अज्ज वि को कल्लि ।
 संजमि गयवरि आरुहिउ सिद्धिसरणि जिय चल्लि ॥ २४ ॥
 गयवरमत्ता जेम हिव मा हिंडसि नरसीह ।
 हणि कसाय दमि इंदियइ गणिया लब्भइ दीह ॥ २५ ॥
 घडिय न लब्भइ अग्गलिय इंदह अक्कइ वीरु ।
 यउ जाणिउं जिणधम्मु करि जावह वहइ सरीरु ॥ २६ ॥
 डवि जाणिज्जइ सो दिवसु जणु पुणु मरइ निरुत्तु ।
 छडेविणु घरहल्लोहलउ धम्मु करेवा जुत्तु ॥ २७ ॥
 चंचलु चित्तु पवंगु जिम वयबंधण न धरेसि ।
 धम्मारामि विणासियह मूढा हत्थ म लेसि ॥ २८ ॥
 छन्नउ पयडउ जीव तुहुं उज्जमु करि जिणधम्मि ।
 सुहियं दुहियं माणुसह पासु न मेल्लहइ कम्म ॥ २९ ॥
 जरजज्जरि देहडी हुई य पंडरि हूया केस ।
 अरि जिय धम्मु करेजि तउं गहय स बालियवेस ॥ ३० ॥
 झलहलंत जिणवरपडिम जेइ करावइ दन्वि ।
 सग्गपवग्गहतणा सुह ते पामेसइ सन्वि ॥ ३१ ॥
 अ हु चिंतंता विहवसिण कज्जु अनेरउं होइ ।
 राउलि बलियउ दुब्बलउ देव न बलियउ कोइ ॥ ३२ ॥
 टलइ मेरु नियठाणह जइ पच्छिम उग्गह सुरु ।
 पुव्व कियउं तो नवि चलइ कम्ममहाभरपूरु ॥ ३३ ॥
 ठगियउ हिंडिसि जीव तुहु घारिउ विसि मिच्छन्ति ।
 सम्मत्तह रयणह रहिउ न लहसि सिवसंपत्ति ॥ ३४ ॥
 डणउ जेम्ब गलि संकलिउ भवि भवि कुणबउ जीव ।
 नवि छुट्टिज्जइ तो वि तह जइ लंघिजइ दीवु ॥ ३५ ॥
 ढणहणंति इंदिय तुरय पाडेसइ भवखोहि ।

देविणु वरसंजमिकविउ अरि जिय सग्गि निरोहि ॥ ३६ ॥
 णवि हसंतु वि जोइयए निच्चलु झाणु धरेवि ।
 ता दीसइ जिम जगतगुरु सहजाणंडु सु देउ ॥ ३७ ॥
 तउं एकल्लउ सहसि जिय खाएसइ परिवारु ।
 विहवु विहंचिउ लेइ जणु पाव न विहचणहारु ॥ ३८ ॥
 थक्केसइ धणु सयणु जणु कोइ न सरिसउ जाए ।
 पावु पुनु तं अज्जियए तं परि अग्गइ थाइ ॥ ३९ ॥
 देइ देइ मन आलसु करि महुरालाविहि दाणु ।
 चलिय देइ हिव विहवसिण करि सफलउ अप्पाणु ॥ ४० ॥
 धर उप्पज्जइ केवि नर परउवयारसमत्थ ।
 कइ देइ के कम्मवसि जणजण उड्डुइ हत्थ ॥ ४१ ॥
 नइ वहमाणी सघणजल सुक्कइ इयर तलाय ।
 दायर वडुइ रिद्धिडी मग्गण निधण थाइ ॥ ४२ ॥
 पढिउ गुणिउ घणु तवु तविउ संजमु किउ चिरकालु ।
 जइ कसाय नवि वसि करसि ता सहु इंदियजालु ॥ ४३ ॥
 फलु दिक्किउ तरवरतणउं दिद्धि म घल्लिसि बाल ।
 तं नवि पाविसि पुन्नविणु छड्डिसि षारी लाल ॥ ४४ ॥
 बलि किज्जउं तह सुहगुरुह जा जगु मारगि लाइ ।
 उम्मग्गह दंसणि गमणि जणु पुणु पुहवि न माइ ॥ ४५ ॥
 भरहेसरि आयरिसघरे उप्पन्नउं वरणाणु ।
 भावण सन्वहि अग्गलि य तपु संजमु अपमाणु ॥ ४६ ॥
 मयणु न स्वीणउ जाहतणि ते नवि बंभच्चारि ।
 मयणविहूणह संजमि लुंचणि छारि न दोरि ॥ ४७ ॥
 जसि धवलिउ जगु जेहि मुणि नाउं लिहाविउ चंदि ।
 कम्म ह्णवि जे सिद्धि गय ताह चलण नितु वंदि ॥ ४८ ॥
 रे वाहा मग्गेण वहि मा उम्मूलि पलास ।
 कलहे जलहरु थक्किसए कयण पराई आस ॥ ४९ ॥
 लइ वयभरु परिहरवि घरु भंजिवि भवनियलाइं ।
 जाव न पहुच्चइ तुज्झतणि जमरावस्स दलाइं ॥ ५० ॥
 घयणु न जंपउ दीणु कसु जं भावइ तं थाउ ।

अधिरकडेवरकारिणिहि कहि किम खिज्जइ काउ ॥ ५१ ॥
 सुमिणंतारि मेलावडउ अहनिंसि पहर चियारि ।
 पसरिय निय निय दिसि चलए अरि जिय सुमणु विचारि ॥ ५२ ॥
 षरकिसोर मत्तकरि दमइ करि करेविणु कट्टु ।
 निय जीवु कोवि न वसि करए थिउ गलियारु विघट्टु ॥ ५३ ॥
 संजमि नियमिहिं जे गया ते गणि सारा दीह ।
 अवर जि पावारंभि गय ताह फुसिज्जउ लीह ॥ ५४ ॥
 हिंडेविणु भवकोडिसइ लज्जउ माणुसजम्मु ।
 तत्थ वि विसयइ मोहियउ न करइ जिणवरधम्मु ॥ ५५ ॥
 क्षणभंगुरु देहहतणउं अरि जिय कोइ विसासु ।
 भाव न मुच्चइ जिणु मणह जाव फुरक्कइ सासु ॥ ५६ ॥
 मंगलमहासिरिसरिसु सिवफलदायगु रम्मु ।
 दूहामाई अरकियइ पउमिहिं जिणवरधम्मु ॥ ५७ ॥

इति श्रीधर्ममातृका समाप्ता ।

चर्चरिका

जिण चउवीस नमेविणु सरसइपय पणमेवि ।
 आराहउं गुरु अप्पणउ अविचलु भावु धरेवि ॥ १ ॥
 कर जोडिउ सोलणु भणइ जीविउ सफलु करेसु ।
 तुम्हि अवधारह धंमियउ चच्चरि हउं गाएसु ॥ २ ॥
 मणि उंमाहउ अंमि सुहु मोकल्लि करिउ पसाउ ।
 जिम्ब जाइवि उज्जितगिरि वंदउं तिहुयणनाहु ॥ ३ ॥
 नइ विसमी डुंगर घणा पूत दुहेलउ मग्गु ।
 भूयडियह सएसि तुहुं दूबलि होसइ अंगु ॥ ४ ॥
 बालइ जोयणि नं गिया अंमि जि तहिं गिरिनारि ।
 ते जंमंतरि दूत्थिया हिंडहिं परघरबारि ॥ ५ ॥
 इअ असारी देहडी अंमि जि विढपइ सारु ।
 तिणि कारणि उज्जितगिरि वंदउं नेमिक्कुआरु ॥ ६ ॥
 करि करवत्ती कूयडी सिरि पोदली ठवेवी ।

मिलियउ धम्मियसाथडउ उज्जिलमग्गि वहेई ॥ ७ ॥
 इह वढवाणइ चउहटइ दीसइ सीहविमाणु ।
 रंनडुलइ वोलावी अंमुलअग्गेवाणि ॥ ८ ॥
 इय वढवाणइ जि हट्टइ हियडउं रइ न करेइ ।
 दिवि दिवि वंदइ नेमिजिणु चडियउ गिरिसिहरेहिं ॥ ९ ॥
 पाइ चहुट्टइ कक्करीउ उन्हालइ लू वाई ।
 जे कायर ते वलिया जे साहसिय ते जाई ॥ १० ॥
 साहिलडा सरवरतलिहिं उग्गिउ दवणछोडु ।
 उजिलि जंते धंमिए गुंथिउ नेमिहिं मउडू ॥ ११ ॥
 सहजिगपुरि बोलेविणु गंगिलपुरहिं पहुत्तु ।
 माडी कहिजि संदेसडउ अंनु जिणेजे पुत्तु ॥ १२ ॥
 जइ लखमीधरु वोलियं पेखिवि बहु य पलास ।
 तउ हियडउं निंवरु थिउं मुक्क कुटुंबह आस ॥ १३ ॥
 विसमिय दोत्तडि नइ घणिय डुंगर नत्थि च्छेऊ ।
 हियडउं नेमि समप्पियउं जं भावइ तिं व नेऊ ॥ १४ ॥
 करवंदियालं वोलियउं अणंतपुरु जहिं ठाई ।
 दिन्नउ तहि आवासडउ हियउं विअडिं थाई ॥ १५ ॥
 नालियरीडुंगरितडिहिं बहुचोराउलिठाई ।
 धम्मियडा वोलिउ गया अमुलतणइ सहाई ॥ १६ ॥
 भालडागदुसुंनउ अवियडउं वसेइ ।
 धम्मिय कियउ वीसावड सुरधारडीघरेहिं ॥ १७ ॥
 ओ दीसइ उट्टुंधलउ सो डुंगरु गिरनार ।
 जहिं अच्छइ आवासियउ सामिउ नेमिकुमारु ॥ १८ ॥
 मंगूखंभि न मणु रहिउ अंनु वहडेउ दिट्टु ।
 खडहड अंगु पखालियं गोवाडलिहि पहुट्टु ॥ १९ ॥
 भाद्रनई जह वोलिउ नाचइ धंमिउ लोउ ।
 उजिलि दीवउ वोहियउ सुरठडिय हउ जोउ ॥ २० ॥
 खंडइ देउलि जउ गया सांकलि वोलिधि ।
 धंमिय कियउ आवासडउ वंचूसरितलि नेई ॥ २१ ॥
 ऊजिलमग्गि वहंता रजु लागइ जसु अंगि ।

बलि किञ्जुं तसु धमियह इंदु पसंसह सगि ॥ २२ ॥
 जे मलि महला पहियडा ते महला म भणेजे ।
 पावमली जे महलिया ते महला ह सुणेजे ॥ २३ ॥
 एउ वाउह लोडुं कोटुं तलि गिरिनारु ।
 ओ दीसह ववणथली धवलियतुंगपयार ॥ २४ ॥
 घर पुर देउल धवलिया धज धवली दीसंति ।
 धंमी सा ववणथली ऊजिलितलि निवसंती ॥ २५ ॥
 वउणथली मेलेविणु जउ लागउ गढमगि ।
 तउ धंमिउ आणंदियउ हरिसु न माइउ अंगि ॥ २६ ॥
 रिसहजिणेसरु वंदियउ गढि आवासु करेवी ।
 नाचइ धंमिउ हरसियउ हियडइ नेमि धरेवी ॥ २७ ॥
 गढु बोली जउ चालीयउ तउ मणि पूरिय आस ।
 बलि किञ्जुउ हउं जंघडिय जोयण वूढ पंचास ॥ २८ ॥
 टोलह उपरि मागडउ सो लंघणउ न जाइ ।
 पाउ खिसियउ विसमउ पडइ हियं विअडइं थाई ॥ २९ ॥
 अंचणवाणी नह वहइ दिट्टु दमोदरु देउ ।
 अंजणसिलहिं जि अंजिया धन्न ति नयणा वेउ ॥ ३० ॥
 तरवरुतणइ पलांवडे रुडउ मागु जंघेवि ।
 कालमेघु जोहारियउ वस्त्रापदि जाएवी ॥ ३१ ॥
 अंबाजंबूराइणिहिं बहु वणराइ विचित्त ।
 अंबिलिए करवंदिएहिं वंसजालि सुपवित्त ॥ ३२ ॥
 नीझरपाणिउ खलहलइ वानर करहिं चुकार ।
 कोइलसहु सुहावणउ तहिं डुंगरि गिरिनारि ॥ ३३ ॥
 जउ महं दिट्टी पाजडी उंच दिट्टु चडाऊ ।
 तउ धंमिउ आणंदियउ लड्ड सिवपुरि ठाउ ॥ ३४ ॥
 हियडा जंघउ जे वहइं ता ऊजिति चडेजे ।
 पाणिउ पीउ गइंदवइ दुख जलंजलि देजे ॥ ३५ ॥
 गिरिवाइं झंझोडियउ पाय थाहर न लहंति ।
 कडि ओडइं कडि थक्की हियडउं सोसह जंति ॥ ३६ ॥
 जाव न धंधलि घल्लिया लखुपत्तीपाण ।

तांव कि लब्धहिं चितिया हियडा ज्जणसाण ॥ ३७ ॥

डुंगरडा अधो फरिं लग्गउ सीयलि वाउ ।

ह्य पुणं नवदेहडी अंमुलि कियउ पसाऊ ॥ ३८ ॥

चर्चरिका समाप्ता

मातृकाचउप५

त्रिभुवनसरणु सुमरि जगनाहु जिम फिट्टइ भवदवं दुहदाहु ।

जिणि अरि आठ करम निर्दलीय नमो जिन जिम भवि नावऊ वलिय ॥

आंचली-सवि अरिहंत नमिवि सिद्ध सूरि उज्झावय साहु गुणभूरि ।

माईयवावनअक्षरसार चउपईबंधि पढिउं सुविचारु ॥ १ ॥

भले भणेविणु भणीअइ भलउं तिह्यणमाहि सारु एतलउं ।

जिनु जिनवचनु जगह आधारु इतीउ मूकिउ अवरु अस्सारु ॥

मीडउं पडिउं भवनागमा जउ समिकत्ति लीणु आतमा ।

जिनह वयणि करिजे निहु ठाउ हृदय रहवि तिह्यणनाहु ॥ ३ ॥

लीह म लंघिसि जिणवरिभणी जो रिधि वंछह सिवसुहतणी ।

चहुंगति फीट्टइ फेरउ वडउ पाच्छइ जाइउ सिवगढि चडउ ॥ ४ ॥

लीहं बीजी बे उपरि करे देवु गुरु हीयडइ संभरे ।

क्षणु ण्कू मन करिसि प्रमादु जिम तुम्हि पामउ मुक्तिसवादु ॥

अकारि सुमरि अरिहंतु जो अठकमहं कालु कियंतु ।

अनु सिब्सुरक्तणउ दातारु मनह म मेल्लिहसि तिह्यणसारु ॥

नव निहाणते पामइं तिम जीह जिणवयणु हियइ परिणमइ ।

सिवसंपत्ति तेहहकडी जीह जिणआण हियइंसउं जडी ॥ ७ ॥

मनु चंचलु जे अविचलु करइं जिणह आण सिरऊपरि धरइं ।

हणइं कसाय इंदीय संवरइं ते सिवनयरि सुखिं संचरइं ॥ ८ ॥

सिद्धउं काजु सहु तीहत्तणउं जेहि जीवि कीधउं जिणवरभणिः

छेदिउ आठकरमनी वेत्ति ण्गा मुक्ति दुई पेलावेलि ॥ ९ ॥

बंधइं पडिया दीह मन ममउ भप्पारामि जिणवरिसउं रमउ ।

भवह तापु नवि लागई अंगि उः बहुफलु पामउ सिवसंगि ॥

अनुव्रतु जिनह आण मनि धरे उपसमु विषेकु संवरु करे ।
 अरिवर्णु अंतरंगु निग्रहे इणि परि जीव सुकृतु संग्रहे ॥ ११ ॥
 आलिहि अलीउ म झंषिसि किमइ जे जिनुवयणु हियइं तू गमइ ।
 करमुबंधु पडतउ चीतवे भाषासमि वि सहजि अनुभवे ॥ १२ ॥
 इणि संसारि दूषभंडारि लइन जीव काय धम ऊगारि ।
 वीतरागि जं आगमि कहीउ करे तइ जि यणु भावनसहीउ ॥ १३ ॥
 ईमइ म कारसि कूडउ सोसु सोचइ जिनह वयणि करि तोसु ।
 जोइउ आगमतणउ विचारु पाच्छइ भरिन परतभंडारु ॥ १४ ॥
 उप्पलदलउप्परि जिम नीरु ते सउं चंचलु जीव सरीरु ।
 धणु कणु रइणु सइणु तिम सहू दीसइ धम्मु एकु धर रहू ॥ १५ ॥
 उपरि देखि दैव न हु हाथु तेरहि तिहुयणि कोइ न सनाथु ।
 नासीउ पइसिजान जिनसरणि जिम न पामीअह जंमणमरणि ॥ १६ ॥
 रिद्धिहितणउ लाभु इम लेजि सातिहि घेति वीतु वावेजि ।
 उपर सिंचे भावनानीरि वगसरु नोही जिम ताहरइ सीरि ॥ १७ ॥
 रीणु दीणु ते चहुगति भमइ जे जिन वीतरागु नवि नमइ ।
 नोही काइ धरमवासना ते नही जाइं मुक्तिआसना ॥ १८ ॥
 लिषावीइ सुतु सीढंतु तेह लाभ नवि लाभइ अंतु ।
 ज्ञानतणउ गुण एवडु कोइ वीतराग तु ज्ञानलगु होइ ॥ १९ ॥
 लीलअमत संसारु तरेसि जइ जीव जिनधमु परहुणु लेसि ।
 सुगुरनी जाम विलगीउ करी जान जीव भवसाइरु तरी ॥ २० ॥
 एकह परि पामिसि भवपारु जइ समिकत कर अंगीकारु ।
 वीरनाथु कहइ आगमि तोइ विणु समिकत सिद्धि नवि होइ ॥ २१ ॥
 ए अ वचनु जोइ जिणवरतणुं तहि ऊपमा किसी हउं भणउं ।
 जिणहं वइण न ऊपम काइ त्रिभुवनतणी सुद्धि जेह माहि ॥ २२ ॥
 ओघहं पडीउ पापु जे करिसि तउ संसारु अनंतउ फिरिसि ।
 जोईउ पणु सिद्धंत विचारु करिसि धम्मु तउ पामिसि पारु ॥ २३ ॥
 ओषधु करे जीव जिनि भणिउं अछइ दुषु अठकरमइतणउं ।
 बाहिजि ओषदि काई तु थाइ धरमोषधविणु दुषु न जाइ ॥ २४ ॥
 अंतु न लाभई इह संसारु काइ तु जीव हीइ न विषयर ।
 एक जु धमु करे सषाइ लेउ मेल्लइ सिवनअरीमाहि ॥ २५ ॥

अनुदिनु भक्ति करे जिनराय पूजि त्रिकाल तासु पहुपाय ।
 मानषतु दोहिलइं पामेसि पाच्छइ जिनपति काहा नमेसि ॥ २६ ॥
 कपटिहि मायां वंचइं लोक्कु ते नवि लहइं सिद्धिसंजोगु ।
 भमडइं जीव चहुंगतिहि मज्झारि इणपरि भव पूरइं संसारि ॥ २७ ॥
 खज्जइ जगु एउ कालकु अंति एह एतला नही काइ भ्रंति ।
 जिणह वहणु विडिजा इकमणउ भउ फीटिसइ क्कितांतहतणउ ॥ २८ ॥
 गम्भवासि जो दिलउं जाण तउ तउं माने जिनवरआण ।
 फेडइ दुषु सहू जिनराउ तउ सिवनइरि अ पावइ ठाउ ॥ २९ ॥
 घरिं घरु हिंडिसि जीव अणाहु जइ न नमिसि जिनु तिहूअणनाहु ।
 जिनुधमविणु सुषु नहीं संसारि अवर टमालि दीस मन हारि ॥ ३० ॥
 डञ्चइं सरिसु धम्मु जइ करिसि तउ भंडोरु परत नउ भरिसि ।
 जे यणु लागिंसि लोकप्रवाहि रडभड हुइसइ चुहुंगतिमाहि ॥ ३१ ॥
 चक्रवति षट्ठंडह धणी हंती रिद्धि तीहंनइ घणी ।
 जो रिद्धिहिं परिताणु होउ त बंशु संशुमु निरगि नवि जंत ॥ ३२ ॥
 छविह जीव करेजे रष जइ तुम्हि जिणसासणि छउ दष ।
 आतमवत्तु जीव सवि गणे धम्मह तउं सारु इउ सुषे ॥ ३३ ॥
 जगगुरु जगरषणु जगनाहु जगबंधु जगसथवाहु ।
 जगतारणु जिउ जगआधारु जिणविणु अवरि नही भवपारु ॥ ३४ ॥
 जडइ पापु जिम तरुअरि पनु जइ मनमाझि वसइ इकु जिहू ।
 जाषुलसेषुलि कांइ करेसि जिनि एकलइं मुकति पामेसि ॥ ३५ ॥
 असिदिहू पंचप्रमिष्ठि सुमरेजि इणपरि असुसुं करमु षपेजि ।
 सुभउं करमु वाधजे घणउं जिम सुषु लह सिवनगरीतणउं ॥ ३६ ॥
 टलइ मेरु जो परवतराजु जो रवि पच्छिम उगई आजु ।
 जो सायरु मिल्हइ मज्जाइ तोइ जिनभासिउं अलीउ न थाइ ॥ ३७ ॥
 ठगीसि राषे कुगुरि कुबोधि जिनकसवटी लेजे सोधि ।
 पूजइवानी आसतणी रिधि संगहे सुकितनी घणी ॥ ३८ ॥
 डसीइ कालभूअंगमि लोक्कु तेह नवि लागई औषधजोगु ।
 धीतराग मंत्रवादी य विणउं विसु पसरइ अठकरमहतणउं ॥ ३९ ॥
 ढलिइ पासइ देजे दाउ धणकणजौवन करिसि म गाउ ।
 जगसरुपु देषे इंदीआलु करे धमु परहरीउ टमालु ॥ ४० ॥

णवणवपरि भग्गऊ भवचारु सांमीअ करिउ अम्हारी य सार ।
 असरणसरणु तुहुं जि जगनाह भवि पडंत अम्ह देजे बाहु ॥ ४१ ॥
 तनु धनु जीवीउ जौवनु जोइ रिद्धि समिद्धि सहअणु सहू कोइ ।
 दिवस पांच मेलावउ होइ पाछइ वलीउ न दीसइ कोइ ॥ ४२ ॥
 थरथर कंपइं काइरचित्त देषीउ मुनिवर माहासत्त ।
 धीरा सत्तवंत जे जाण पालइं दीषसहीउ जिणआण ॥ ४३ ॥
 दमि इंदिअ दुग्गइदूआर लूसीउ लिअइं सुक्कित्तु सविवार ।
 जे न जिणिसि जिणवयणविचारि देसिइं दृषु बहूसंसारि ॥ ४४ ॥
 धरमध्यानि करि निमलु चित्तु जिम हुइ जीव जनमु सुपवित्तु ।
 धमिहि सिवह सौषसंपत्ति धमिहि वलीउ न भवि उत्तपत्ति ॥ ४५ ॥
 नर नीतु नमो नीमि जिणनाहु आठकरम जिणि दिन्हौ दाउ ।
 मोहराउ रिणि भंजीउ करी लीलहं लईं सामि सिवपुरी ॥ ४६ ॥
 पढइ गुणइ वरकाणइं सुतु पुणु बुझइं नही तोइ ततु ।
 राणु द्वेषु मनभीतरि धरइं ईमइ वेखविडंबउ करइं ॥ ४७ ॥
 फलइ करमु परभवहतणउं जइ रिद्धिरहि जीउ हीडइ घणउं ।
 दुषु सुषु सहू पइ लागम आवइ स्त्रिजिउं सरिसु आतमा ॥ ४८ ॥
 बलि कीउ जीवीउ तीहं संसारि जे दिन गमइ पापव्यापारि ।
 सफलु जनमु तीहं नरनारि जे जिनधमि द्विठ चित्तमझारि ॥ ४९ ॥
 भविं भवु बोलइं जीव अनंत जाणइं नही वइणु अरिहंत ।
 न मुणइं अंतरु पावह पुत्तु तीहं सोकल कांइं सिरिज्या कांन ॥ ५० ॥
 मइणु जि मारइं ते जगि सूर जे मारीयइं मइणि ते भूर ।
 धीरा सुभट सतु ऊटवइ मारीउ मयणु नाउं नीठवइं ॥ ५१ ॥
 य करइं तप्पु नीमु संज्जमु तीहं दुर्गतिनउ नही कोइ गंसु ।
 जीहं स रोईउ हुइं जिनधंसु विलसइं मुक्कित्तिसोषु निरुपंसु ॥ ५२ ॥
 रहिसिइं पूत कलत घरबारु रहिसिइ सहइणु सह परिवारु ।
 रहिसिइ धणुकणुरइणुभंडारु जीउ एकलउ जाइ निधारु ॥ ५३ ॥
 लइ जिनदीष मूकि संसारु आठकरम दहीउ करि च्छारु ।
 निरुपमु सुषु सिवनइरीतणउं लहिसि जीव आगमि जिनभणिउ ॥ ५४ ॥
 वचनव्यापु जोइ जिणवरतणउ अरथ गंभीरु अच्छइ तहिं घणउ ।
 जो साइरि जलबिंदहं पारु तउ लभइ सिद्धंतविचारु ॥ ५५ ॥

शरउपरि मूढा मन षेलि जिनधमु लाधउ पाइ म ठेली ।
 तिहूअणचिंतामणि जिनधम्मु करीन जीव भाजइ भवभ्रंसु ॥ ५६ ॥
 षणि षणि आउ गलंतउ देषि भवि पडंतु अपुं म ऊवेषि ।
 करि न धम्मु जं केवलिकहीउ जा सिवपुरि लेषउं विखहीउ ॥ ५७ ॥
 सहजि जीउ भवगूतलि करइ कर्म बुहुरादाणी घणु धरइ ।
 जे कर्मतणउ नही य ऊघारु भवगोतिहिं दुखु सहिसि अपारु ॥ ५८ ॥
 हरिषु विषाडु करिसि मन कोइ जइ जीव आपद संपदं होइ ।
 अवशु फलीसइ पुवभवकिउं नं भोगवै कोइ अणकिउं ॥ ५९ ॥
 जंघइ दीव पुहवि समुइ गिरिकंदरा भमइ बहुरुइ ।
 रिद्धिकाजि इत्तीउ रझभडइ न करै धम्मु जिणि रिधि संपडइ ॥ ६० ॥
 क्षुणुभंगुरु एउ सहइ जाणि म करिसि जीव धरमनी काणि ।
 विणसइ सहु कहइ आगम्मु अविनसुरु एकु जिणधम्मु ॥ ६१ ॥
 मंगल करउं सवि अरिहंत जे अच्छइं सिवलच्छीकंत ।
 मंगल सिद्धि सूरि उवज्झाय मंगलं करउं साहुणा पाय ॥ ६२ ॥
 मंगलमूलु सर्वाहिं आगम्मु जो जगमाहि अच्छइ निरुपम्मु ।
 जसु अतिसइ न लाब्भइ अंतु मंगलु करउ सोइ जि सिद्धंतु ॥ ६३ ॥
 जा ससिसूरु भूयणु व्याप्यंति जा ग्रह नक्षत्र तारा ह्नुंति ।
 जा वरतइ वसुहव्यापारु तां सिवलच्छि करउ मंगलाचारु ॥ ६४ ॥
 मातृकाचउपइ समाप्ता

सम्यकत्वमाईचउपइ

भले भणउं माईधुरि जोइ धम्मह मूलु जु समिकतु होइ ।
 समकतुविणु जो क्रिया करेइ तातइ लोहि नीरु घालेइ ॥ १ ॥
 ऊंकारि जिणु पणमेसु सतगुरुतणउं वयणुं पालेसु ।
 आगम नवतत बूज्झिसि तिमई समिकतु रयणु होइ तसु तिमइ ॥ २ ॥
 नर नवकारु सुमरि जगसारु चउदह पुव्वह जो समुद्धारु ।
 समिकत जइ लाभइ संसारिं जाणे छुरी पडी भंडारि ॥ ३ ॥
 मनु चंचलु अटझाणि पडेइ घडियमाहि सातमिय ह नेइ ।
 मनु मयगलु शुभ ध्यानु करंति प्रसंनचंद जिम सिद्धिहिं जंति ॥ ४ ॥

सिद्धिसुखु जगि सहु को लहइ दृढसमिकतु जइ हियडइ रहइ ।
दृढ समिकतु श्रेणिकराय होइ प्रथम तिथंकरु होसइ सोइ ॥ ५ ॥
धन जि गुरपारषउ करंति गुरु विणु समिकतु किमइ न हुंति ।
मुहुतु एकु समिकतु फरसेइ पुदगल अरधमाहि सिद्धि विनेइ ॥ ६ ॥
अच्छइ मोहचरहु इणि समइ समिकतु रयणु न लाभइ किमइ ।
कुगुरु सुगुरु अंतरु न हु करइ इणि कारणि चउगति जिउ फिरइ ॥ ७ ॥
आगमवयणु पंचमइ अरइ केवलनाणु प्रभव हुइ परइ ।
इसइ कालि समिकतदृढचित्त ते नर जाणे जगह पवित्त ॥ ८ ॥
इणि भवि परभवि सुखु लहेउ सतगुरुतणउं वयणु पालेहु ।
वीतराग जउ बंदिसि पाय ऊडइ पापु होइ निम्मल काय ॥ ९ ॥
इंदियालु जगि दीसइ लोइ बालवृहु न हु छूटइ कोइ ।
धरमसंबलु जइ सरिसउ लेइ पार गया तउ सुखु माणेइ ॥ १० ॥
ऊगमतइ जे नर दीसंति चउंजणकंधि चडिया ते जंति ।
सुकिय दुकिय बे सरिसा चलइं सजनमीत बोलावी बलइं ॥ ११ ॥
ओसरि वावियइ लाभु न हुंति सजलु होइ बीजह चूकंति ।
सूधउं दानु मुनिहि जो देइ संगमतणउ लाभु सो लेइ ॥ १२ ॥
रिद्धिहितणउ लाभु जगि लेहु दस खेत्रे तुम्हि धनु वावेहु ।
दीन्हादानह नासु म जोइ सुपात्रि दीन्हइ बहुफलु होइ ॥ १३ ॥
रीतिहि दानह नथी निवार उचितु दानु दीजइ सविवार ।
कूसनभयसिउ जउ खहु वारंति पात्रविसेषिहि धीरु स दिंति ॥ १४ ॥
लिहियं जगि लोडइ सउ कोइ कुपात्रु विसहरसादसु होइ ।
खीरु आणि जउ मुखि घातियइ पात्रविसेषिहि तसु विसु थियइ ॥ १५ ॥
लीह न लंघउं सतगुरतणी क्रिया करउं जा आगमि भणी ।
विधिमारगु मानउं सविवार जाणउं जइ छूटउं संसार ॥ १६ ॥
एहु करेवउं नर संसारि त्रिनि वार जउ चडिउ विहारि ।
वीतराग जउ भणिउ करेसु दस आसातन नितु राखेसु ॥ १७ ॥
ऐ वार मेलिहउ जिणु पूजेसु रयणिहिं रमणिगमणु बारेसु ।
न्हवणु तं दिजहि निसिभरि रहई तं विहिमंदिरु सतगुरु कहइ ॥ १८ ॥
ओ दीसइ मंदिरु जगि सारु धम्मरयणकरेउ भंडारु ।
चउरासी आसातन नितु राखेसु मंदिरि दिवसह बलि ढोएसु ॥ १९ ॥

ओया दीसहं बहुत गमार धंमहतणी न पूछहं सार ।
 जिण गुरि दीठह दूरिहि जंति दुलहु माणुसुजंमु आलि गमंति ॥ २० ॥
 अंतरु विधि अविधिहि जाणंति मंदिर पइठ निसिहि न करंति ।
 तालारासु रयणि न हु देह लउडारसु मूलह वारेइ ॥ २१ ॥
 अइसउ मंदिरु जगि प्रबहणु होइ धंमिउ लोउ चडइ सुह कोइ ।
 पंचप्रमिट्ठिनी जापउ करउ संसारसमुदु जिम लीलहं तरउ ॥ २२ ॥
 कहियह थूलिभहु मुणिराउ मयण चरड भंजह भडिवाउ ।
 छ विगइ सो जनु चित्रसाली रहइ जगहमाहि थूलिभहु लीह लहइ ॥ २३ ॥
 खडभड राषि न इणि संसारि जुगप्रधान जोइ धंमु विचारि ।
 सुद्धउ धरमु करिसि जइ किमइ जंमणमरणह छुटिसि तिमइ ॥ २४ ॥
 गलइ आउ जिम अंजलिनीरु सीलु जु पालइ सो नर धीरु ।
 कपिलनारि पेलइ विन्नाणि सीलु सुदरसणतणउं वखाणि ॥ २५ ॥
 घडतउ फोडतउ वार न लाइ कर्मतणी विसमी गति काइ ।
 जं जं करमु करइ तं होइ लषमणि दससिरु जीतउ जोइ ॥ २६ ॥
 निच्छइ साहसिउ वज्जकुमारु इंदु पसंसइ जो दयसारु ।
 सुर बे आविया जउ सत पडइ कुमरु पारेवासउं धडि चडइ ॥ २७ ॥
 चल्लइ सबलवाहणु नरनाहु वीरवंदन हुउ अतिघणुं भाउ ।
 दसाणभहु अतिगरवु करेइ इंदिहि जीतउ रिधि दाखेइ ॥ २८ ॥
 छंडइ राजु रिद्धि षणमाहि इंदि जीतउ तं न सुहाइ ।
 वीरपासि संजमुभरु लेइ इंदिहिं हारिउ चलण नमेइ ॥ २९ ॥
 जनमु वयरसामिउ त्तिमसमइ छ मास रोयतउ रहइ न किमइ ।
 धणगिरि विहरतु पहुतउ घरेइ साति पूतु हिव झोली घरेइ ॥ ३० ॥
 झटकह तउ झोली घातियउ भारि गुरुह लेउ समपिउ ।
 गुरु पभणइ पउ तिणि आपेहु कुमरह आवी सार करेहु ॥ ३१ ॥
 निच्छइ जुगप्रधान जिउ होइ इह गुणवन्नणु सकइ न कोइ ।
 पालणइ सूतउ श्रवणि सुणेइ इगारअंम तउ आणावेइ ॥ ३२ ॥
 टलइ न पावज कुमरह किमइ मायडी झगडउ मांडियउ तिमइ ।
 राज विदीतु पूतु हउं लेसु मंदिर नेतउ परिणावेसु ॥ ३३ ॥
 ठक्कर मिलिया उगडउ करइं कुमरु अणावी तउ विचि धरइं ।
 वणफल रमणा सा ढोएइ धणगिरि रजोहरणु दाषेइ ॥ ३४ ॥

ढगडगतउ मनु रहइ न किमइ मायडी भवि भवि लाभइ तिमइ ।
 सुगुरुमेलावउ दुलहउ हुंति पंचमहाव्रत सीहगिरि दिंति ॥ ३५ ॥
 ढाढसु कीयउं बालकुमारि सीहगिरि तउ हालियउ विहारि ।
 सीस भणइं अम्ह वयण कु देइ वयरड मुनि तुम्ह काजु करेइ ॥ ३६ ॥
 न गणउं अवरसीस जयसीह सीहगिरितणा सीस हुइ लीह ।
 अभिनवदीषितु वयण कु देइ सीहगिरितणउं वयणु मानेइ ॥ ३७ ॥
 तपु संजमु किउ वरिससहसु जीवदया पालिय गुणह निवासु ।
 अंतकालि अटझाणि पडंति कंडरीकु सातमियहं जंति ॥ ३८ ॥
 पुंडरीकु वरिससहसु कीउ रज्जु बिउ घडियहं तउ सारिउ कज्जु ।
 पावज ले गुरु संमुहउ थाइ पंचविमाणे पुंडरीकु जाइ ॥ ३९ ॥
 दस दिसि पसरिउ जगि जसवाउ नवअंगवित्तिकरणु गुरुराउ ।
 थंभणि थप्पिउ पासजिणंदु पणमहु सुहगुरु अभयमुणिंदु ॥ ४० ॥
 धनु सु जिणवल्लहु वक्काणि नाणरयणकेरी छइ खाणि ।
 बइतालीससुहु पिंडु विहरेइ त्रिविधुमंदिरु जगि प्रगटु करेइ ॥ ४१ ॥
 नर निसुणहु सतगुर वक्काणु अंतस बूझउ थिउ सु जाणु ।
 कुगुरवाणि तउ विसु उतरेइ सुगुरवाणि जउ अभिउ झरेइ ॥ ४२ ॥
 परिणइ अट्ट नारि करि लेइ बूझवणइ बइठउ कथा कहेइ ।
 प्रभवु चोरु मंदिरि पइसेइ असुयणनिंद सयलजण देइ ॥ ४३ ॥
 फट्टउ जंबुकुमरु इम भणइ विवाहुमहोच्छवु प्रभवु न गणइ ।
 जंबुकुमरु जउ इसउ भणंति सवि थंभिया टगमग जोयंति ॥ ४४ ॥
 बंधव अम्हसउं साटि करेज बिहुं विद्यावडइ इक थंभणी देज ।
 कुमरु भणइ विद्या किसउं करेसु रिद्धि परिहरी प्रहहं व्रतु लेसु ॥ ४५ ॥
 भणइ प्रभवु नवजोवण नारि परणिय पुन्नवसिण संसारि ।
 कामभोग भोगवि इणि समइ जोवण गइ व्रतु लेजे तिमइ ॥ ४६ ॥
 मयणु चरहु सो मइं वसि किउ मोहराउ पाडिउ नाथियउ ।
 मधुबिंदसाहस इहु संसारु निसुणि प्रभवु तुहु जोइ विचारु ॥ ४७ ॥
 जगु पिंडाणु सयलु वरतेइ तुह विणु पितरह पिंडु कु देइ ।
 महेसरदत्तकथा जउ कहइ प्रभवुउ सांभलिउ मनमाहि रहइ ॥ ४८ ॥
 रतिपति जाणउं तइं वसि कियउ नात्रातणउं संबंधु किम थियउ ।
 अढारह नात्राकथा कहंति प्रभवु सांभली तउ बूझंति ॥ ४९ ॥

लहणउ लाभइ इह जगमाहि जंबुसामिघरि रिद्धि न माइ ।
 हुंती रिद्धि कुमरु परिहरइ प्रभवु पराई लेवा फिरइ ॥ ५० ॥
 वयणु कहउ पुणु नीजइ बाइ जंबुकुमर तुहु परिणुं काइं ।
 बालकुमारउ तउं व्रतु लियत नियनियमंदिरि अट्टय रहत ॥ ५१ ॥
 सांभलि प्रभव ज काइउं हुंत जइ घरि रह त संसारि पडंत ।
 कथा कहिउ प्रतिबोधेसु नारि वलिउ न आवइं इणि संसारि ॥ ५२ ॥
 षडभड केही रिद्धिहितणी नवाणवइ कोडि सोना छइं घणी ।
 जीमणइ हाथिहि तउ हउं देसु मणवंछिय मागण पुरेसु ॥ ५३ ॥
 सा सिवकाजउ प्रगुणी करइ दानु दियंतउ तउं नीसरइ ।
 माय बापु अट्टनारि चडंति पंचसयसहितु प्रभवु बइसंति ॥ ५४ ॥
 हल्लिय सिबिका गाजे रली वज्जिय ढक्क बुक्क काहली ।
 सिबिका उत्तरिउ चलण नमंति सुहमसामि सइं हथि व्रतु दिंति ॥ ५५ ॥
 लंघिउ सायरु जउ व्रतु लिउ पंचमगतिप्रस्थानउ कियउ ।
 जंबुसामिउच्छवु देखेइ बहुतु लोक्कु जाइउ व्रतु लेइ ॥ ५६ ॥
 खयउं पापु जउ पावज लई घरसंसारचित तउ गई ।
 मनि जीतइ इंद्रिय वसि थाइं करम जिणिय नर सिद्धिहि जाइं ॥ ५७ ॥
 मंगलु पहिलउ सोहमसामि बीजउ मंगलु जंबूसामि ।
 अगणुउ मंगलु प्रभव भणंति चउत्थउ मंगलु नारिहि हुंति ॥ ५८ ॥
 गणियइ जुगवरु सोहमसामि बीजडउ जुगवरु जंबूसामि ।
 त्रीजउ जुगवरु प्रभवु भणंति सिज्झंभवु चउत्थउ जाणंति ॥ ५९ ॥
 लंछणि सीह गोयसु पुच्छंति जुगप्रधान जगि केता हुंति ।
 बिसहस चउं आगला कहेइ छेहिलउ दुपसहु तउ जाणेइ ॥ ६० ॥
 मंनउं जुगवरु जिणेसरसूरि पावु पणासइ दरिसण दूरि ।
 संदेहु म करहु जिम समिकतु रहइ भवि भवि बोधिबीजु जिउ लहइ ॥ ६१ ॥
 हासामिसि चउपईबंधु कियउ माईतणउ छेहु मइ नियउ ।
 ऊणउ आगलउ किंपि भणेउ जगडु भणइ संघु सयलु खमेउ ॥ ६२ ॥
 श्रीनंदउ समुदाघरि रहइ नंदउ विहिमंदिरु कवि कहइ ।
 नंदउ जिणेसरसूरि मुणिदु जा रवि ऊगइ ऊगइ चंदु ॥ ६३ ॥
 माईतणउ अखसरु धुरि कियउ चडसठिचउपइयाबंधु थियउ ।
 सुइइ मनि जे नर निमुणंति अणंतसुकु सिद्धिहि पावंति ॥ ६४ ॥
 सम्यक्त्वमाईचउपइ सम्पूर्णा.

श्रीनेमिनाथफागु

सिद्धि जेहिं सह वर वरिय ते तित्थयर नमेवी ।
 फागुबंधि पट्टुनेमिजिणुगुण गाएसउं केवी ॥ १ ॥
 अह नवजुव्वण नेमिकुमरु जादवकुलधवल्लो
 काजलसामल ललवलउ सुललियमुहकमलो ।
 समुदविजयसिवदेविपूतु सोहगसिंगारो
 जरासिंधुभडभंगभीमु बलि रूवि अप्पारो ॥ २ ॥
 गहिरसहि हरिसंखु जेण पूरिय उइंडो
 हरि हरि जिम हिंडोलियउ भुयदंडपयंडो ।
 तेयपरिक्कमि आगलउ पुणि नारिविरत्तउ
 सामि सुलक्कणसामलउ सिवसिरिअणुरत्तउ ॥ ३ ॥
 हरिहलहरसउं नेमिपट्टु खेलइ मास वसंतो ।
 हावि भावि भिज्जइ नही य भामिणिमाहि भमंतो ॥ ४ ॥
 अह खेलइ खडोखलिय नीरि पुणु मयणि नमावइ
 हरिअंतेउरमाहि रमइ पुणि नाहु न राचइ ।
 नयणसत्तूणउ लडसडंतु जउ तीरिहिं आविउ
 माइ बापि बंधविहिं मांड वीवाह मनाविउ ॥ ५ ॥
 घरि घरि उत्सव वारवए राउल गहगहए
 तोरण वंदुरवाल कलस धयवड लहलहए ।
 कन्हडि मागिय उगसेणधूय राजल लाधा
 नेमिऊमाहीय बाल अट्टभवनेहनिबद्धा ॥ ६ ॥
 राइमएसम तिहु भुवणि अवर न अत्थइ नारे ।
 मोहणविल्लि नवल्लडीय उप्पनीय संसारे ॥ ७ ॥
 अह सामलकोमल केशपास किरि मोरकलाउ ।
 अद्धचंदसमु भालु मयणु पोसइ भडवाउ ।
 वंकुडियालीय भुंहडियहं भरि भुवणु भमाडइ
 लाडी लोयणलहकुडलइ सुर सगगह पाडइ ॥ ८ ॥
 किरि सिसिबिंब कपोल कल्लहिंडोल फुरंता
 नासा वंसा गरुडचंचु दाडिमफल दंता ।

अहर पवाल तिरह कंटुराजलसर रुडउ
 जाणु वीणु रणरणइं जाणु कोइलटहकडलउ ॥ ९ ॥
 सरलतरल भुयवल्लरिय सिहण पीणघणतुंग ।
 उदरदेसि लंकाउली य सोहइ तिवलतुरंगु ॥ १० ॥
 अह कोमल विमल नियंबविब किरि गंगापुलिणा
 करिकर ऊरि हरिण जंघ पल्लव करचरणा ।
 मलपति चालति वेलहीय हंसला हरावइ
 संझारागु अकालि बालु नहकिरणि करावइ ॥ ११ ॥
 सहजिहिं लडहीय रायमए सुलखण सुकमाला
 घणउं घणेरउं गहगहए नवजुव्वण बाला ।
 भंभरभोली नेमिजिणवीवाह सुणेई
 नेहगहिल्ली गोरडी हियडइ विहसेई ॥ १२ ॥
 सावणसुकिलछट्टि दिणि बावीसमउ जिणंदो
 चल्लइ राजलपरिणयण कामिणिनयणाणंदो ॥ १३ ॥
 अह सेयतुंगतरलतुरइ रहरहि चडइ कुमारो
 कन्निहि कुंडल सीसि मउड गलि नवसरहारो ।
 चंदणि ऊगटि चंदधवलकापडि सिणगारो
 केवडियालउ खुंपु भरवि वंकुडउ अतिफारो ॥ १४ ॥
 धरहि छत्तु वित्तु चमर चालहिं मृगनयणी
 लूणु उत्तारिहिं वरबहिणी हरिसुज्जलवयणी ।
 चहुपरि बइसइ दसारकोडि जादवभूपाला
 हयगयरहपायक्कचक्कसीकिरिहिं झमाला ॥ १५ ॥
 मंगल गायहिं गोरडीय भट्टह जयजयकारो
 उगगसेणघरनारि वरो पहुतउ नेमिकुमारो ॥ १६ ॥
 अह सहिय पर्यपय हल सहि ए तुह वल्लहउ आवइ
 मालिअटालिहिं चडिउ लोउ मण नयणु सुहावइ ।
 गउखि बइठी रायमए नेमिनाहु निरखइ
 पसइपमाणिहिं चंचलिहिं लोअणिहिं कडखइ ॥ १७ ॥
 किम किम राजलदेवितणउ सिणगारु भणेवउ ।
 चंपइगोरी अइधोइ अंगि चंदनुलेवउ ।

खंपु भराविउ जाइकुसमि कसतूरी सारी
 सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारि ॥ १८ ॥
 नवरंगि कुंकुमि तिलय किय रयणतिलउ तसु भाले ।
 मोतीकुंडल कन्नि थिय बिंबालिय करजाले ॥ १९ ॥
 अह निरतीय कज्जलरेह नयणि मुहकमलि तंबोलो
 नगोदरकंठलउ कंठि अनु हार विरोलो ।
 मरगदजादर कंचुयउ फुडफुल्लहं माला
 करि कंकण मणिवलयचूड खलकावइ बाला ॥ २० ॥
 रुणुञ्जुणु ए रुणुञ्जुणु ए रुणुञ्जुणु ए कडि घघरियाली
 रिमिझिमि रिमिझिमि रिमिझिमि ए पयनेउरजुयली ।
 नहि आलत्तउ वलवलउ सेअंसुयकिमिसि
 अंखडियाली रायमए प्रिउ जोअइ मनरसि ॥ २१ ॥
 वाडउ भरिउ जीवडहं टलवलंत कुरलंत ।
 अहूठकोडिरूं उद्धसिय देषइ राजलकंतो ॥ २२ ॥
 अह पूछइ राजलकंतु कांइ पसुबंधणु दीसइ
 सारहि बोलइ सामिसाल तुह गोरवु हुस्यइ ।
 जीव मेलहावइ नेमिकुमरु सरणागइ पालइ
 धिगु संसारु असारु इश्यउं इम भणि रहु वालइ ॥ २३ ॥
 समुदविजय सिवदेवि रामु केसवु मन्नावइ
 नइपवाह जिम गयउ नेमि भवभमणु न भावइ ।
 धरणि धसक्कइ पडइ देवि राजल विहलंघल
 रोअइ रिज्जइ वेसु रूवु बहु मन्नइ निप्फलु ॥ २४ ॥
 उग्गसेणधूय इम भणइ दूषहिं दाइइ देहो
 कां विरतउ कंत तुहं नयणिहि लाइवि नेहो ॥ २५ ॥
 आसा पूरइ त्रिहुभुवण मू म करि हयासी
 दय करि दय करि देव तुम्ह हउं अछउं दासी ।
 सामि न पालइ पडिवन्नउं तउ कासु कहीजइ
 मयगलु उवट संचरए किणि कानि गहीजइ ॥ २६ ॥
 नेमि न मन्नइ नेहु देइ संबच्छरदाणूं
 ऊजलगिरि संजम लियउ हुय केवलनाणूं ।

राजलदेविसउं सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजइ
मलहारिहिं रायसिहरसूरि किउ फागु रमीजइ ॥ २७ ॥
इति श्रीनेमिनाथफागु.

प्राचीनगद्यसङ्ग्रहः

आराधना

(संवत् १३३० मां लखेला ताडपत्रमांथी)

ज्ञानाचारि पुस्तकपुस्तिकासंपुटसंपुटिकाटीपणांकवलीऊतरीठवणीपाठा-
दोरीप्रभृतिज्ञानोपकरणअवज्ञा, अकालिपठन अतिचार विपरीतकथनु उत्सू-
त्रप्ररूपणु अश्रद्धानप्रभृतिकु आलोयहु । दर्शनाचारि देवद्रव्यु भक्षितु
उपेक्षितु प्रज्ञाहीनत्वु जिनभुवनआशातना अधोयति देवपूजा गुरुद्रव्य-
ग्रहणु गुरुनिंदा द्रव्यलिंगिएसउं संसर्गु विंवआशातना स्थापनाचार्यआशा-
तना शंका आकांक्षा विचिकित्सा मिथ्यादृष्टिप्रसंसा मिथ्यादृष्टिपरिचउ ए
पांच अतिचार आलोयउं । चारि आचारि प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान
मैथुनपरिग्रह ए पांच अणुव्रत दिगुविरति भोगपरिभोगविरति अनर्थदंड-
विरति ए तिननि गुणव्रत । सामायिकु देसावकासिकु पौषधु अतिथिसंविभागु
ए च्यारि सिक्षयाव्रत; ईहतणइ विषइ जु कोइ अतिचारु आसेवियउ सु हुं
आलोयहं । तपाचारि अनशन ऊनोदरिता वृत्तिसंक्षेपु रसत्यागु कायक्लेशु
संलीनता षड्विधबाह्यतपतणइ विषइ प्रायश्चित्तु विनउ वैयावृत्यु स्वाध्यानु
कायोत्सर्ग षड्विधआभ्यंतरतपतणइ विषइ जु अतीचारु सु हुं आलोयहं ।
वीर्याचारि संतइ बलि संतइ वीर्जि जु धर्मानुष्ठानि उद्यमु नहीं कियउं सु
हुं आलोयहं । सम्यक्त्वप्रतिपत्ति करहु, अरिहंतु देवता सुसाधु गुरु जिनप्र-
णीत धर्मु सम्यक्त्वदंडकु ऊचरहु, सागारप्रत्याखानु ऊचरहु चऊहु सरणि
पइसरहु । परमेश्वरअरहंतसरणि सकलकर्मनिर्मुक्तसिद्धसरणि संसारपरी-
वारसमुतरणयानपात्रमहासत्त्वसाधुसरणि सकलपापपटलकवलनकलाकलितु-
केवलिप्रणीतुधर्मुसरणि सिद्ध संघगण केवलि श्रुत आचार्य उपाध्याय
सर्वसाधु व्रतिणी श्रावक श्राविका इह ज काइ आशातना की हुंती ताह
मिच्छा मि दुक्कंडं । पुढविकाइ जीव आउकाइ जीव तेउकाइ जीव वाउकाइ
जीव वणस्पइकाइ जीव बेइंदिय त्रेंदिय चउसिंद्रिय जलचर स्थलचर खेचर

जि जंतु ताह मिच्छा मि दुक्कडं । पनर कर्मभूमि जि मनुष्य त्रीस अकर्मभूमि
जि मनुष्य तीहिं मिच्छा मि दुक्कडं । छप्पनअंतरद्विपतणा मनुष्य तीहं मि-
च्छा मि दुक्कडं । सातनरकतणा नारकि दशविध भवनपति अष्टविध व्यंतर
पंचविध जोइसी द्वैविध वैमानिकदेवा किं बहुना । दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात
श्रुत अश्रुत स्वजन परजन मित्रु शत्रु प्रत्यक्षि परोक्षि जे केइ जीव चतु-
रासी लक्षयोनि ऊपना चतुर्गतिकि संसारि भ्रमंता मइं हुमिया वंचिया
सेहिया सीरीविया हसिया निंदिया किलामिया दामिया पाछिया चूकिया
भवि भवांतरि भवसति भवसहस्रि भवलक्षि भवकोटि मनि वचनि काइं
तीह सर्वहइं मिच्छा मि दुक्कडं । अठार पापस्थान वोसिरावइ इहुसर्व्वू प्राणा-
तिपातू सर्व्वू मृषावाद् सर्व्वू अदत्तादानू सर्व्वू मैथुनू सर्व्वू परिग्रहू सर्व्वू
क्रोधू सर्व्वू मानू सर्व्वइ माया सर्व्वू लोभू प्रेसु द्वेषु कलहु अभ्याख्यानु रति
अरति पैशून्यु मिथ्यादर्शनशल्यु परपरिवाद् अठार पापस्थान त्रिविधिहि
मनि वचनि काइ करणि करावणि अनुमति परिहरउ । अतीतु निंदउ वर्तमानु
संवरहु अनागतु पावरकउ । पंचपरमेष्ठिनमस्कारु जिनशासनिसारु चतुईश-
पूर्वसमुच्चारु संपादितसकलकल्याणसंभारु विहितदुरितापहारु क्षुद्रोपद्रव-
पर्वतवज्रप्रहारु लीलादलितसंसारु सु तुम्हि अनुसरहु, जिणि कारणि चतु-
र्दशपूर्वधर चतुर्दशपूर्वबंधिउ ध्यानु परित्यजिउ । पंचपरमेष्ठिनमस्कारु
स्मरहि, तउ तुम्हि विशेषि स्मरेवउ, अनइ परमेश्वरि तीर्थकरदेवि इसउ
अर्थु भणियउ अच्छइ, अनइं संसारतणउ प्रतिभउ म करिसउ, अनइ
रुद्धिनमस्कारु इहलोकि परलोकि संपादियइ ॥ आराधना समासेति ॥

यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् ।

क्षन्तव्यं तद्दुषैः सर्वं कस्य न स्वल्पे मनः ॥

संवत् १३३० वर्षे आश्विनसुदि ५ गुरावद्येह आशापहयाम् ॥

अतिचार

(संवत् १३४० ना अरसामां लखायला जणाता ताडपत्रमांथी)

कालवेला पढ्यं, विनयहीणु बहुमानहीणु उपधानहीणु गुरुनिणहव अने-
राकणहइं पढ्यं, अनेरइं कहइं व्यंजनकूडु अर्थकूडु तदुभयकूडु कूडउ अकरु
कानइ मात्रि आगलउ ओछउ देवदणवांदणइ पडिक्कमणइ सझाउ करतां

पढतां गुणतां हुउ हुयइ, अर्थकूडु कहइं हुइ, सूनु अर्थु बेउ कूडां कथां हुइ, ज्ञानोपकरण पाटी पोथी कमली सांपुडं सांपुडी आशातन पगु लागउ थुंकु-लागउं पढतां प्रखेप मच्छरु अंतराइउ हउं कीधउ हुइं, तथा ज्ञानद्रव्यु भक्षितु उपेक्षितु प्रज्ञापराधि विणास्य विणासितउं जवेख्यं हुंती सक्ति सारसंभाल न कीधियइ, अनेरइ ज्ञानाचारिउ कोइ अतीचारु हुउ सुक्ष्मवादरु मनि वचनि काइ पक्षदिवसमांहि तेह सवहि मिच्छा मि दुक्कुं ॥

सातमइ भोगोपभोगव्रति सचित्तद्रव्यविगइ खासहाइ पाणही पानि फोफलि बइसणि आसणि सयणि न्हाणुअइ अंगोहलि फलि फूलि भोजनि आच्छादनि जु कोइ अतिचारु हुयउ पक्षदिवसमांहि

बारि भेदि तपु छहि भेदि बाह्य अणसण इत्यादि उपवास आंबिल नीविय एकासणु पुरिमहु व्यासणं यथाशक्ति तपु, तथा ऊनोदरितपु वृत्ति-संखेवु । रसत्यागु कायकिलेसु, संलेखना कीधी नहि, तथा प्रत्याख्यान एका-सणां विपुरिमहु साढपोरिसि पोरिसिभंगु अतीचारु नीविय आंबिलि उपवासि कीधइ विरासइं सचित्त पाणीउ पीधउं हुयइ पक्षदिवसमांहि

प्रतिषिद्ध जीवहिंसादिकतणइ करणि कृत्य देवपूजा धर्मानुष्ठानतणइ अकरणि जि जिनवचनतणइ अश्रद्धधानि विपरीतपरुपणा एवं बहुप्रकारि जु कोइ अतीचारु हुयउ पक्षदिवसमांहि ॥

सर्वतीर्थनमस्कारस्तवन

(संवत् १३५८ मां लखायेला कागळना पुस्तकमांथी)

पहिलउं त्रिकालु अतीत अनागत वर्त्तमान बहत्तरि तीर्थकर सर्वपाप-क्षयंकर हउं नमस्करउं ।

तदनंतरु पांचे भरते पांचे ऐरवते पांच महाविदेहे सत्तरिसउ उत्कृष्ट-कालि विहरमाण हउं नमस्करउं ।

तउ पहिलइ सौधर्मि देवलोकि बत्रीस लाख, बीजइ ईसानि देवलोकि अट्ठावीस लाख, त्रीजइ सनतकुमारि देवलोकि बारलाख, चउत्थइ माहेंद्र-देवलोकि आठ लाख, पांचमइ ब्रह्मदेवलोकि च्यारि लाख, छट्टइ लांतकि

देवलोकि पंचास सहस्र, सातमइ शुक्रदेवलोकि च्यालीस सहस्र, आठमइ सहस्रारि देवलोकि छ सहस्र, नवमइ आणति देवलोकि बिसइ, दसमइ प्राणति देवलोकि बिसइ, इग्यारमइ आरणि देवलोकि बारमइ अच्युतदेवलोकि बिहू दउदु दउदु सउ, अनइ हेठिले त्रिहू ग्रैवेयके इग्यारोत्तर सउ, माहिले त्रिहू ग्रैवेयके सत्तोत्तर सउ, उपइले त्रिहू ग्रैवेयकि एकु सउ, पंच पंचोत्तरविमाने, एवंकारइ स्वर्गलोकि चउरासी लाख सत्ताणवइ सहस्र त्रेवींस आगला जिनभुवन वांदउं । अनंतरु भुवनपतिमज्जे असुरकुमारमज्जे चउसट्ठि लाख, नागकुमारमज्जे चउरासी लाख, सुवन्नकुमारमज्जे बहत्तरि लाख, वायकुमारमज्जे छन्नवइ लाख, दीवकुमार दिसाकुमार अहिट्टकुमार विज्जुकुमार थुणियकुमार अग्गिकुमार छहं मध्यभागे छहत्तरि छहत्तरि लाख, एवंकारइ पाताललोकि सातकोडि बहत्तरिलाख जिनमंदिर स्तवउं । अथ मनुष्यलोकि नंदीसर वरि दीपि बावन्न, च्यारि कुंडलवल्गि, च्यारि रुचकि वल्गि, च्यारि मानुषोत्तरि पर्वति, च्यारि इक्षार पर्वति, पंच्यासी पांचे मेरे, वीस गजदंत पर्वति, दस कुरपर्वति, त्रीस सेलसिहरे, असीव क्षारसेलसिहरे, सरिसउ वैताढ्यपर्वति, एवं च्यारि सइ त्रिसट्ठि जिणालइपडिमं, एवं आठ कोडि छप्पन्न लाख सत्ताणवइ सहस्र च्यारि सइ छियासिया तियलुके शास्वतानि महामंदिर त्रिकाल तीह नमस्कार करउं ॥

सर्वतीर्थनमस्कारस्तवनम् ।

नवकारव्याख्यानम्

नमो अरिहंताणं ॥ १ ॥ माहरउ नमस्कार अरिहंत हउ । किसानि जि अरिहंत; रागद्वेषरूपिआ अरि वयरी जेहि हणिया, अथवा चतुषष्टि इंद्रसंबंधिनी पूजा महिमा अरिहइ; जि उत्पन्नदिव्यविमलकेवलज्ञान, चउत्रीस अतिशयि समन्वित, अष्टमहाप्रातिहार्यशोभायमान महाविदेहि खेत्रि विहरमान तीह अरिहंत भगवंत माहरउ नमस्कार हउ ॥ १ ॥

नमो सिद्धाणं ॥ २ ॥ महारउ नमस्कार सिद्ध हउ । किसानि जि सिद्ध; दुष्टाष्टकर्मक्षउ करिउ, जि मोक्षि गया । आठ कर्म किसानि भणियइ । ज्ञानावरणीउ १ दरिसणावरणीउ २ वेदनीउ ३ मोहनीउ ४ आयु ५ नामु ६ गोत्तु ७ अंतराउ ८ ईह आठकर्मक्षउ करिउ जि सिद्धि गया । किसी ज सिद्धि; लोकतणइ अग्रविभाणि पंचत्तालीस लक्षयोजनप्रमाणि जिसउं उत्ताणु छत्तु

तिसइ आकारि ज सिद्धिसिला, अमलनिर्मल जलसंकास जु अजरामर-
स्थानु, तेह ऊपरि योजनसंबंधियइ चउवीसमह य विभागि जि सिद्ध अनंत
सुखलीण ति सिद्ध भणियइ । तीह सिद्ध माहरउ नमस्कारु हउ ॥ २ ॥

नमो आयरियाणं ॥ ३ ॥ माहरउ नमस्कारु आचार्य हुउ । किंसा जि
आचार्य; पंचविधु आचारु जि परिपालइ ति आचार्य भणियइ । किंसउ पंच-
विधु आचारु । ज्ञानाचारु, दर्शनाचारु, चारित्राचारु, तपाचारु, वीर्या-
चारु, यउ पंचविधु आचारु जि परिपालइ ति आचार्य भणिइ । तीह
आचार्य माहरउ नमस्कारु हउ ॥ ३ ॥

नमो उवज्झायाणं ॥ ४ ॥ माहरउ नमस्कारु उपाध्याय हुउ । किंसा
जि उपाध्याय; द्वादशांगी जि पढइ पढावइ । किंसी ज द्वादशांगी; आचा-
रांगु १ सुयगडु २ ठाणांगु ३ समवाउ ४ विवाहपन्नत्ति ५ ज्ञाताधर्मकथा ६
उवासगदसा ७ अंतगडदसा ८ अणुत्तरोववाइयदसा ९ पणहवागरणु १०
विपाकश्रुतु ११ दृष्टिवाहु १२ ए वार आंग जि पढइ पढावइ ति उपाध्याय
भणियइ । तीह उपाध्याय माहरउ नमस्कारु हुउ ॥ ४ ॥

नमो लोए सव्वसाहूणं ॥ ५ ॥ ईणि लोकि जि केई अछइ साधु । यउ लोकु
च किंसउ भणियइ । अठाई द्वीपसमुद्र पनर कर्मभूमि । जि किंसी; पांच भरत
पांच ऐरवत पांच महाविदेह खेत्र, ईह पनर कर्मभूमिमाहि जि केई अच्छइ
साधु । किंसा जि साधु; रत्नत्रउ जि साधइ । किंसउ रत्नत्रउ; ज्ञानु दर्शन
चारित्रु यउ रत्नत्रउ जि साधइ ति साधु भणियइ । तीह साधु पंचमहा-
व्रतपरिपालक । पंचमहाव्रत किंसा भणियइ । प्राणातिपात्तु १ मृषावाहु २
अदत्तादानु ३ मैथुनु ४ परिग्रहु ५ रात्रीभोजनु । जि विवर्ज्जइ ति साधु
भणियइ । तीह साधु सर्वहीं माहरउ नमस्कारु हुउ ॥ ५ ॥

एसो पंच नमोकारो ॥ ६ ॥ एउ पंच परमेष्ठिनमस्कारु । पंचपरमेष्टि
किंसा । जि पूर्वोक्तभणिया अरिहंत १ सिद्ध २ आचार्य ३ उपाध्याय ४
साधु ५ इह पंचपरमेष्ठिनमस्कारु भावि क्रियमाणु हुंतउं किंसउं करइ ॥ ६ ॥

सव्वपावपणासणो ॥ ७ ॥ सर्वपापप्रणासकारियउ हुइ । ईणि जीवि
चतुर्गतिकि संसारि भवभ्रमणु करतइ हुंतइ जि असुभलेइया उपायी पापु
सु ईणि पंचपरमेष्ठिनमस्कारि महामंत्रि सुमरीतइ हुंतइ क्षउ हुयइ ॥ ७ ॥

मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं होइ मंगलं ॥ ८ ॥ ईणि संसारि दधिचंदन-
दूर्वादिक मंगलीक भणियइ । तीह मंगलीक सर्वहींमाहि प्रथमु मंगलु एहु ।

ईणि कारणि सुभकार्यआदि पहिलउं सुमरेवउं, जिव ति कार्य एहतणइ प्रभावइ वृद्धिमंता हुयइ । यउ नमस्कारु अतीतअनागतवर्त्तमानचउवीसी-
आदिजिनोक्तसारु, सुतुम्हे विसेषहइ हिवडातणइ प्रस्तावि अर्थयुक्तु ध्येयु
ध्यातव्यु गुणेवउ पढेवउ । जु किसउ ।

जिणसासणस्स सारो चउदसपुब्बाण जो समुद्धारो ।

जस्स मणे नवकारो संसारो तस्स किं कुणइ ॥

अनइ एहु नमस्कारु स्मरता इहलोकतणा भय नासइ ।
यदुक्तं—अडविगिरिरत्नमज्जे भयं पणासेइ चिंतिओ संतो ।

ररुइ भवियसयाइं माया जह पुत्तभंडाइ ॥

वाहिजलजलणतक्करहरिकरिसंगामविसहरभएहिं ।

नासंति तरुणेणं जिणनवकारप्पभावेणं ॥

हियइगुहाए नवकारकेसरी जाण संठिओ निच्चं ।

कम्मट्टगंठिदोघट्टघट्टयं ताण परिनट्टं ॥

नमस्कारस्य स्वरूपं भण्यते । ईणि नवकारि नव पद पांच अधिकार सत्त-
सट्टि अक्षर, तीहमाहि छ भारी इकसठि लघु । इसउं नमस्कारतणउं माहातम्यु ।

एसो मंगलनिलओ भयविलओ सयलसंतिमुहजणओ ।

नवकारपरममंतो संतियमित्तो सुहं देउ ॥

अप्पुब्बो कप्पतरू एसो चिंतामणी य अप्पुब्बो ।

जो झाइ सयलकालं सो पावइ सिवसुहं विउलं ॥

नवकारव्याख्यानं समाप्तम् ॥

अतिचार.

संवत् १३६९ मां लखेला ताडपत्रमांथी.

तउ तुम्हि ज्ञानाचार दरिसणाचार चारित्राचार तपाचार वीर्याचार
पंचविधआचारविषइया अतीचार आलोउ । ज्ञानाचारि कालवेला पढिउ
गुणिउ विनयहीनु बहुमानहीनु उपधानहीनु गुरुनिन्दवु अनेरीकन्हइ पढिउं
अनेरउ कहिउ । व्यंजनकूट अक्षरकूट कानइ मात्र आगलउ ओछउ देववं-
दणइ पडिक्कमणइ सज्ज्ञाओ करतां पढतां गुणतां हुओ हुइ, अर्थकूट तदु-
भयकूट, ज्ञानोपकरणि पाटी पोथी ठवणी कमली सांपडा सांपडी पतिआसा-
तना पगु लागउ थुकु लागउ पढतां गुणतां प्रदेषु मच्छरु अंतराइ हुउ कीधउं

हुइ भवसगलाहइमाहि तेह मिच्छा मि दुक्कडं । मृषावादि सहसातकारि आलु अभ्याख्यानु दीधउं, रहसमंत्रभेदु कीधइ, मृषोपदेसु दीधउ, कुडउ लेखु लिखिउ, कुडी साखि थापणि भोसउ, कुणहइसउ राडि भेडि कलहु विढाविढि, जु कोइ अतिचारु मृषावादि व्रति भवसगलाहइमाहि हुउ त्रिविधि त्रिविधि मिच्छा मि दुक्कडं । अदत्तादानि विराइउं छानउं फीटुउं लीधउं दीधउं वावरिउं घरि बाहिरि खेत्रि खलइ पाडइ पाडोसि अणमोकलाविउ चोरीच्छाइं चोर-प्रति प्रयोगु कीधउ, नवउं पुराणउ रसु विरसु सजीवु निजीवु मेलिउं, कूडी तूल कूडइ थापि कूडउ कहिउ हुइ, अतीचारु अदत्तादानि व्रति भवसगलाह-माहि हुउ तेह सवहइ मिच्छा मि दुक्कडु । मैथुनव्रति लहुडपणि आपणा विराया सील खंडया सिउणइ सिउणांतरि, दृष्टिविपर्यासु, आठमि चउदसितणा नी-मभंगु, अनंगक्रीडा परविवाहकरण तिव्रभिलाषु धरिउ हुइ, अनेरा जु कोइ अतिचारु मैथुनव्रति भवसगलाहइमाहि हुअउ तेह सवहइ त्रिविधि त्रिविधि मिच्छा मि दुक्कडं । ह्व हियामाहिं सम्यक्त्व धरउ । अरिहंत देवता, सुसाधु गुरु, जिणप्रणीतु धर्म, सम्यक्त्वदंडकु ऊचरउ । ह्वि अठार पापस्थानक वो-सिरावउ । सर्व प्राणातिपात, सर्व मृषावाद, सर्व अदत्तादान, सर्व मैथुन, सर्व परिग्रहु, सर्व क्रोधु, सर्व मानु, सर्व माया, सर्व लोभु, रागु, ब्रेषु, कलहु, अभ्या-ख्यानु, पैशुन्यु, रति, अरति, परपरिवादु, मायामृषावादु, मिथ्यात्वदरिसण-सल्यु ए अदारपापस्थान मोक्षमार्गसंसर्गविधनसमान त्रिविधि त्रिविधि वोसिरा-वउ, अतीतु निंदउ, अनागतु पचकउ, वर्तमानु संवरु । सागारुप्रत्याख्यानुउ ।

खमिउं खमाविउं मइं खमिउ छव्विह जीवनिकाय ।

सिद्धह दिन्ना लोयणा नइ मह वइरु न पावु ।

ह्वि दुकृतगरिहा करउं । जु अणादि संसारमाहि हींडतइ हूतइ ईणि जीवि मिथ्यात्वु प्रवर्ताविउ । कुतीर्थु संस्थापिउ, कुमार्ग प्ररुपिउ, सन्मार्गु अवलपिउ । ह्वि उपाजिं मेलिह सरीरु कुटुंबु जु पापि प्रवर्तिउ, जि अधि-गरण हलऊ खल घरट घरटी खांडां कटारी अरहट पावटा कूपतलाव कीधां कराव्यां अनुमोद्या, ते सवे त्रिविधि त्रिविधि वोसिरावउ । देवस्थानि द्रवि वेवि पूजा महिमा प्रभावना कीधी, तीर्थजात्रा रथजात्रा कीधी, पुस्तक लिखाव्यां, साधर्मिकवाछल्य कीधां, तप नीयम देववंदन वांदणाइ सज्याइ अनेराइधर्मानुष्ठानतणइ विषइ जु ऊजमु कीधउ सु अम्हारउ सफलु हुओ । इति भावनापूर्वकु अनुमोदउ

पृथ्वीचन्द्रचरित्र

(वाग्विलास)

या विश्वकल्पवल्लीवल्लीलया कल्पितप्रदा ।

प्रदत्तां वाग्विलासं मे सा नित्यं जैनभारती ॥ १ ॥

धर्मश्चिन्तामणिः श्रेष्ठो धर्मः कल्पद्रुमः परः ।

धर्मः कामदुघा धेनुर्द्धर्मः सर्वफलप्रदः ॥ २ ॥

पुण्यलगइ पृथ्वीपीठि प्रसिद्धि, पुण्यलगइ मनवांछितसिद्धि; पुण्यलगइ निर्मलबुद्धि, पुण्यलगइ घरि ऋद्धिवृद्धि; पुण्यलगइ शरीर नीरोग, पुण्यलगइ अभंगुरभोग; पुण्यलगइ कुटुंबपरिवारतणा संयोग, पुण्यलगइ पलाणीयइं तुरंग, पुण्यलगइ नवनवा रंग; पुण्यलगइ घरि गजघटा, चालतां दीजइं चंदनछटा; पुण्यलगइ निरुपम रूप, अलक्ष्य स्वरूप; पुण्यलगइ वसिवा प्रधान आवास, तुरंगमतणी लास, पूजइं मन चीतवी आस; पुण्यलगइ आनंददायिनी मूर्त्ति, अद्भुत स्फूर्त्ति; पुण्यलगइ भला आहार, अद्भुत शृंगार; पुण्यलगइ सर्वत्र बहुमान, घणुं किस्युं कहीयइ पामीयइ केवलज्ञान ।

एह पुण्यऊपरि राजाधिराज पृथ्वीचंद्रतणउ कथासंबंध भणीयइ । ता ईणई राजुप्रमाणि रत्नप्रभापृथ्वीपीठि असंख्याता द्वीप समुद्र वर्त्तइं । तीह माहि पहिलउ जंबूद्वीप लक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । तेह पाषलि लवणसमुद्र द्विलक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । तेहपरइं धानकीखंडद्वीप च्यारिलक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । तेह पाषलि कालोदधि समुद्र आठलक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । तेह परइं पुष्करवरद्वीप सोललक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । तेह पाषलि पुष्करवरसमुद्र बत्रीसलक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । आगलि वारुणद्वीप ६४ लक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । तेह पाषलि वारुणीसमुद्र एककोडि २८ लक्षयोजनप्रमाण जाणिवउ । ईणिपरि ठाण बिमणा द्वीप समुद्र जाणिवउ । कवण कवण । क्षीरद्वीप क्षीरसमुद्र घृतद्वीप घृतसमुद्र इक्षुद्वीप इक्षुसमुद्र नंदीसररद्वीप नंदीसरसमुद्र अरुणद्वीप अरुणसमुद्र अरुणवरद्वीप अरुणवरसमुद्र अरुणवरावभासद्वीप अरुणवरावभाससमुद्र इत्यादिक द्वीपसमुद्र असंख्यात । तेहमाहि पहिलु जे जंबूद्वीप, तेहनी नाभिइं मेरुपर्वत जिसिउ प्रदीप, तेहनुं दक्षिण उत्तरइं सातक्षेत्र चऊद महानदी छ वर्षधर पर्वत वर्त्तइं ।

किसा ते क्षेत्र । भरतक्षेत्र १ हैमवतक्षेत्र २ हरिवर्षक्षेत्र ३ महाविदेहक्षेत्र ४ रम्यकक्षेत्र ५ ऐरण्यवतक्षेत्र ६ ऐरवतक्षेत्र ७ । किसी महानदी । गंगा १ सिंधु २ रोहिताशा नदी ३ रोहिता ४ हरिकांता नदी ५ हरिसलिला नदी ६ सीतोदा ७ सीतानदी ८ नारीकांता ९ नरकांता १० रूप्यकूला नदी ११ सुवर्णकूला नदी १२ रक्तवती १३ रक्तानदी १४ । किस्या किस्या वर्षधर । हिमवंतपर्वत १ महा-हिमवंत २ निषध ३ नीलवंत ४ रुक्मीपर्वत ५ शिखरीपर्वत ६ । हिव जे कहिउं भरतक्षेत्र तेहमाहि २५ योजनप्रमाण वैताढ्यपर्वत ३२ सहस्र देश । ईहमाहि साढा पंचवीसदेश आर्य, थाकता अनार्य जाणिवा । ऋषभदेवतणां पुत्रतणें नामिइं सयलदेश जाणिवा । ते कुण कुण काश्मीरदेश १ कीर २ कावेर ३ कांबोज ४ कमल ५ उत्कल ६ करहाट ७ कुरु ८ काण ९ क्रथ १० कौशक ११ कोसल १२ केशी १३ कारूत १४ कारूष १५ कछ १६ कर्णाट १७ कीकट १८ केकि १९ कौलगिरि २० कामरूप २१ कूंकण २२ कुंतल २३ कालिंग २४ करकूट २५ करकंठ २६ केरल २७ षस २८ षर्पर २९ षेट ३० गौड ३१ अंग ३२ गौप्य ३३ गांगक ३४ चौड ३५ चिल्लिर ३६ चैल्य ३७ जालंधर ३८ टंकण ३९ कोडि-याण ४० डाहल ४१ तुंग ४२ ताजिक ४३ तोसल ४४ दशार्ण ४५ दंडक ४६ देवसभ ४७ नेपाल ४८ नर्त्तक ४९ पंचाल ५० पल्लव ५१ पुण्ड्र ५२ पांडु ५३ प्रत्यग्रथ ५४ अर्बुद ५५ बभ्रु ५६ बंभीर ५७ भट्टीय ५८ माहिष्मक ५९ महो-दय ६० मुरुंड ६१ मुरल ६२ मेद ६३ मरु ६४ मुद्गर ६५ मंकन ६६ मल्लवर्त्त ६७ महाराष्ट्र ६८ यवन ६९ रोम ७० राटक ७१ लाट ७२ ब्रह्मोत्तर ७३ ब्रह्मावर्त्त ७४ ब्राह्मणवाहक ७५ विदेह ७६ वंग ७७ वैराट ७८ वनवास ७९ वनायुज ८० बाल्हीक ८१ बल्लव ८२ अवन्ति ८३ बह्नि ८४ शक ८५ सिंहल ८६ सुम्ह ८७ सूर्पर ८८ सौवीर ८९ सुराष्ट्र ९० सुहड ९१ अस्मक ९२ हूण ९३ हर्माक ९४ हर्माज ९५ हंस ९६ हुहुक ९७ हेरक ९८ एवं देश अट्टाणू अनइ आदन हावस मुगदिसुं धनगिरि सीकोत्तर चोलनाट पांड्य तालीउ त्रिहूति भोट महाभोट चीण महाचीण बंगाल पुरसाण मग्ध वच्छ गाजणाप्रमुष अनेक देश वर्त्तइं ।

तीहमाहि वषाणीयइ मरहट्टदेस । जीणइ देसि ग्राम, अत्यंत अभिराम; भलां नगर, जिहां न मागीयइं कर । दुर्ग, जिस्यां हुइ स्वर्ग; धान्य, न नीप-जइ सामान्य; आगर, सोनारूपातणा सागर । जेह देसमाहि नदी बहइं, लोक सुषइं निर्वहइं । इसिउ देश, पुण्यतणउ निवेश, गरुअउ प्रदेश । तीणि देसि पट्टाणपुर पाटण वर्त्तइं; जिहां अन्याय न वर्त्तइं । जीणइं नगरि कउसीसे करी सदाकार पाषलि पोडउ प्राकार; उदार, प्रतोली द्वार; पातालभणी धाई, महा-

काय बाई, समुद्र जेहतु भाई; जे लिइ कैलासपर्वतसिउं वाद, इस्या सर्वज्ञदेव-
तणा प्रासाद; करइ उल्लास, लक्षेश्वरीकोटीध्वजतणा आवास; आनंदइ मन,
गरुडं राजभवन; उपरि अषंड, सुवर्णमय दंड, ध्वजपटल लहलहइ प्रचंड ।
जेह पाटणमाहि अनेक आश्चर्य वापरइं, चउरासी चउहटां कलकलाट करइं ।
किस्यां ते चउहटां । सोनीहटी १ नाणावटहटी २ जवहरीहटी ३ सौगंधीयाहटी
४ फोफलिया ५ सूत्रिया ६ पडसूत्रिया ७ घीया ८ तेलहरा ९ दंतारा १०
वलीयार ११ मणीयारहटी १२ दोसी १३ नेस्ती १४ गांधी १५ कपासी १६
फडीया १७ फडीहटी १८ एरंडिया १९ रसणीया २० प्रवालीया २१ त्रांबहटा
२२ सांषहडा २३ पीतलगरा २४ सोनार २५ सीसाहडा २६ मोतीप्रोयां २७
सालवी २८ मीणारा २९ कुंआरा ३० चूनारा ३१ तूनारा ३२ कूटारा ३३
गुलीयारा ३४ परीयटा ३५ घांची ३६ मोची ३७ सुई ३८ लोहटिया ३९
लोढारा ४० चीन्नाहरा ४१ सतूआरा ४२ कागलीया ४३ मद्यपहटी ४४ वेइया
४५ पणगोला ४६ गांछा ४७ भाडभुंजा ४८ बीबाहडा ४९ त्रांबडीया ५०
भइंसायत ५१ मलिन नापित ५२ चोषा नापित ५३ पाटीवणा ५४ त्रांगडीया
५५ वाहीत्रा ५६ काठवीठीया ५७ चोषावीठीया ५८ सूषडीया ५९ साथरीया
६० तेरमा ६१ वेगडीया ६२ बसाह ६३ सांथूआ ६४ पेरूआ ६५ आटीआ ६६
दालीया ६७ दउढीआ ६८ मुंजकूटा ६९ सरगरा ७० भरथारा ७१ पीतलहडा
७२ कंसारा ७३ पत्रसागीआ ७४ षासरीआ ७५ मंजीठीया ७६ साकरीया ७७
साबूगर ७८ लोहार ७९ सूत्रहार ८० वणकर ८१ तंबोली ८२ कंदोई ८३ बुद्धि-
हटी ८४ कुत्रिकापणहटी एवं चउरासी चउहटां जाणिवा ।

जीणइं नगरि अनेक पामीयइं रत्न, जीहतणां कीजइं यत्न । किस्यां ते
रत्न । अश्वरत्न गजरत्न पुरुषरत्न स्त्रीरत्न अनइ पद्मराग पुष्पराग माणिक
सींघलिया गुरुडोद्गारमणि मरकत कर्केतन वज्र वैडूर्य चन्द्रकांत सूर्यकांत
जलकांत शिवकांत चंद्रप्रभ साकरप्रभ प्रभानाथ अशोक वीतशोक अपराजित
गंगोदक मसारगल्ल हंसगर्भ पुलिक सौगंधिक सुभग सौभाग्यकर विषहर
धृतिकर पुष्टिकर शत्रुहर अंजन ज्योती रस शुभरुचि शूलमणि अंशुकालि देवा-
नंद रिष्टरत्न कीटपंखि कसाउला धूमराइ गोमूत्र गोमेद लसणीया नीला तृण-
चर खड्गइ वज्रधार षट्कोण कणी चापडी पिरोजा प्रवाला मौक्तिकप्रसुख
रत्नेकरी दीसइं भरियां हाट, अनेकसुवर्णमय घाट; पिहुली वाट, चालइ घोडां-
तणां घाट, लोकनइं नहीं किसिउ ऊचाट । जिहां पुण्य विशाल, तीसी पोसाल;

जिहां छात्र पढइं चउसाल, तिसी नेसाल; जिहां अध्यात्मतणी वात दृढ, तिसां अनेक मढ; जिहां लोक जिमई अपार, तिसा सत्रूकार; जिहां पाणी पियइ सर्व, तिसी पर्व; जिहां रमलि कीजइं स्वभावि, तिसी वावि; जिहां आनंद हूआ, तिसा कूआ; पद्मवनखंडमंडित प्रवर, महाकाय सरोवर; जिहां रंगि कीजइं रयवाडी, तिसी वाडी; जिहां सीतल फुरकइ पवन, तिसां पाषलियां वन; इसुं अन्यायरहइं दाटण, पृथ्वीपीठि प्रसिद्ध पुहिठाणपुर पाटण ।

तीणि पाटणि राजाधिराज पृथ्वीचंद्र इसिइं नामिइं राज्य प्रतिपालइ, भुजबलिकरी वहरी वर्ग टालइं । जीणि राजा गौडदेशनउ राउ गांजिउ, भोटनउ भांजिउ; पंचालनउ राउ पालउ पुलइं, कानडादेसनउ कोठारि रूलइं, ढोरसमुद्रतउ ढोयणां ढोयइ, बाबरउ बारि बइठउ टगमग जोयइ; चौडनउ दंडि चांपिउ, कास्मीरनउ कांपिउ; सोरठीयउ सेवइ, तुडि न करइं देवइं; अंगदेसनउ अंगि ओलगइ, जालंधरनउ जीवितव्यकारणि रिगइ; घणुं किस्युं कही-यइ, रिपुकुलकालकेतु शरणागतवज्रपंजर पंचम लोकपाल । जीणं रिपु सर्वे निर्धात्र्यां दुर्ग सर्वे आपणा कीधा, वयरीनइं देसवटा दीधा । इसिउं निःकंटक साम्राज्य प्रतिपालइ । तेह नरेश्वरनइं बुद्धिनिधान, परमहंसनामि प्रधान; जेउ सहि-जिइं रूपिइं रूडउ, पाटरहिं नहीं कूडउ; राउलउ अर्थ सारइं, लोक उगारइ, वयरविग्रह वारइ; पालइ दीन दुस्थित निराधार, करइ साधुजन उपगार; शस्त्रि शास्त्रि कुशल अपार, गुहिर गंभीर, अतिहिं धीर; मुहि मीठउं भाषइं, काज कीधां जि द.प्रइ; चिहुं बुद्धितणउं निधान, सविहुं अमात्यमाहि मूलिगु प्रधान; रायतणउं प्रतिशरीर, इसिउं ते मंत्रीश्वर; नरेश्वररहइं, शिवमय सुषमय कल्याणमय दिवस अतिक्रमइं ।

अन्यदा प्रस्तावि राजा रातितणइं प्रस्तावि स्वप्न एक दीठउ, जेहनउं फल छइ अत्यंत मीठउं । किसउं ते स्वप्न । इसिउं जाणइ नरेश्वर सुवर्णवर्ण-कांति, देवरहइं मन भ्रांति; षलकते नेउरि झलकते कुंडलि हाथि वरमाल, अर्द्धचंद्रसमभाल; रूपि विशाल, इसी बालदेवी देषइ भूपाल । जेतलइ तेहतणी वरमाला कंठिकंदलि लागी, तेतलइं रायनइं निद्रा भागी; जागिउ नरेश्वर, चींतवइ अलवेभ्रर । किसिउ स्वप्नतणउ घटइ विचार, तेतलइ प्रभातावसरि हूउ मांगलिकशंख तणउ ओंकार हूआ तिवलितणा दोंकार, मृदंगतणा धोंकार; भट्टतणा मांगलिक्यध्वनि, राजा आनंदिउ मनि; शुभहेतु स्वप्नतणउ मनि विचार धरी, पालंकर परिहरी; क्षणु एक राजा मल्लाषाडइ आव्या । मल्ल-

सिउ विनोद् नीपजाव्या पछइ स्नानमज्जनादिक प्रभातकरणीय कीधुं, याचकर-
हइ दान दीधउं । ति वारें गणनायक दण्डनायक पायक वृत्तिनायक वहीवाहक
तलवर माडम्बिक कौडुंबिक इन्द्रजाली फूलमाली धातुर्वादी मन्त्रवादी तन्त्र-
वादी यन्त्रवादी कपटाइत चपटाइत अङ्गरक्षक अङ्गमर्दक मीठाबोला सुहाबो-
ला कथाबोला साचाबोला जूठाबोला अनइ अनेक राजराजेश्वर मण्डलेश्वर सा-
मन्त तंत्रपाल तलवर्ग चउरासीया महामात्य मन्त्रीश्वर श्रीगरणा वयगरणा
धर्माधिगरणा सेनाधिपति आगरीया व्यवहारीया राजद्वारिक भण्डारी
कोठारी कापडभण्डारी पूगभण्डारी रसोईया पाणहरी श्रेष्ठि सार्धवाह पीठमर्द
वारवधू वीणकार वंशकार उतिकार आउजी पस्वाउजी पटाउजी आलवणकार
लाक्षणिक तार्किक छान्दसिक मुखमाङ्गलिक वैद्य ज्यौतिषी पाहरी षड्गधर
कुन्तधर धनुर्धर छत्रधर बालकहार सेजपाल धईयात पण्डित कवि लेखक
योध महायोध माल मसाहणी पाण्डव पउंतारप्रमुखसकललोकि करी सश्रीक
राजा राजसभां बईठा ।

राजसभा किसी छइ । जीणि राजसभां कुंकुमजलि छटा दीधी छइ,
विविधमुक्ताफल चतुष्क पूरिया छइं, कर्पूरतणा शंख आलिष्या छइं, कृष्णा-
गरजवाधितणा परिमल महमहइं छइं, मोतीतणी सिरि लहलहइं छइं, फूलपगर
भरिया छइं, कटीप्रमाणपायपीठसंयुक्त पुरुषप्रमाण सुवर्णमय सिंहासन
मांडिउं छई । तीणि सिंहासणि राजा बइठा । किसउ राजा दीसइ छइ,
मस्तकि श्वेतातपत्र छइ; पासइं ढलइं चामर पवित्र, वाजइं विचित्र वादित्र;
मस्तकि मुगट, कानि कुण्डल, हृदयि हाराईहार, महाउदार, धनदतणउ
अवतार, रूपतणु भण्डार । घणउं किसिउं कहीयइ । जिसउ पृथ्वीलोकतणउ
इन्द्र, जिसउ सोलकलासम्पूर्ण चन्द्र, इसउ दीसइ छइ पृथ्वीचन्द्र नरेन्द्र ।
तिसिइ अवसरि प्रतीहार आविउ प्रणाम नीपजाविउ । राजांसाक्षी दृष्टि
दीधी, ऊणि वीनती कीधी; जी अयोध्यानगरीहूंतउ दूत तम्हारइ द्वारांतरि
आविउ मनिनणइं उत्साहि, जइ हुइ आदेस तु मेलहउं माहि । हूउ राजा-
तणउ आदेस, दूति कीधउ सभामाहि प्रवेस । रायरहइ कीधउ जुहार, अलं-
करिउं योग्य आसण उदार । राजा दूतरहइ बहुमान दीधउं, कुशल प्रश्न
कीधउं । आनन्द ऊपनउ अत्यन्त, हिव दूत वीनवइ कार्य विशेष चन्त ।
जिहां लोकरहइं नही किसिउ क्लेश, जिहा नही वइरीतणउ प्रवेश, पुण्यतणउ
निवेश; अनेक ग्रामनगर, सोनारूपातणा आगर; मनोहर छइ कोसलादेस ।

५९ लोकव्यवहार ६० वशीकरण ६१ वारितरण ६२ प्रश्नप्रहेलिकाज्ञान ६३
धर्मध्यान ६४ ए कहीयइं सर्वकलाविज्ञान, जाणइ सकल शास्त्र वषाणइ
चउसट्टि विज्ञान ।

इति श्रीअश्वलाच्छे श्रीमाणिक्यसुन्दरसूरिविरचिते श्रीपृथ्वीचन्द्रचरित्रे
वाग्विलासे प्रथमोऽङ्काः ।

द्वितीयोऽङ्काः

हिव ते कुमारि, चडी यौवनिभरि; परिवरी परिकरि, क्रीडा करइ
नवनवी परि । इसिइं अवसरि आविउ आषाढ, इतरगुणि संबाढ; काटइयइ
लोह, घामतणउ निरोह; छसि षाटी, पाणी वीयाइ माटी; विस्तरिउ
वर्षाकाल, जे पंथीतणउ काल, नाठउ दुकाल । जीणिइ वर्षाकालि मधुरध्वनि
मेह गाजइ, दुर्भिक्षतणा भय भाजइ, जाणे सुभिक्षभूपति आवतां जयढक्का
वाजइ; चिहुं दिसि बीज झलहलइ, पंथी घरभणी पुलइ; विपरीत आकाश,
चंद्रसूर्य पारियास; राति अंधारी, लवइं तिमिरी; उत्तरनउ ऊनयण, छायउ
गयण; दिसि घोर, नाचइं मोर; सधर, वरसइ धाराधर; पाणीतणा प्रवाह
षलहलइं, वाडिऊपरि वेला बलइं, चीषलि चालतां शकट स्वलइं, लोकतणां
मन धर्मऊपरि बलइं; नदी महापूरि आवइं, पृथ्वीपीठ प्लावइं; नवां किसलय
गहगहइं, वल्लीवितान लहलहइं; कुडुंबीलोक माचइ, महात्मा बइठां पुस्तक
वाचइं; पर्वततउ नीझरण विछूटइं, भरियां सरोवर फूटइ । इसिइ वर्षाकालि
राजा सोमदेवतणउं कराविउं सरोवर भराणुं, समुद्रसमाणउं; वधावणीउ
धायउ, राजाकन्हइ आयउ; राजा मनि गहगहतउ, सरोवर जोइवा पुहुतउ;
दीठउं भरिउं सरोवर, ऊपनउ आनंदभर; जोसी तेडी महोत्सवतणुं मुहूर्त्त
लीधउं, अभीष्ट जनरहइं तेडउं कीधउं; इसिउं करतां आविउ आसो मास,दिसि
सप्रकास; कमलवन उल्लास, हंसतणु विलास; कादव सूकइं, नइ निरर्गलपणउं
सूकइं; विकसइं कुसमकली, परमेश्वर सर्वज्ञ पूजतां पूजइ मनतणी रली;
तिसिइ आसोसुदि पंचमीतणइ दिवसि मोटइ आडंबरि नरेश्वर सरोवरतणी
पालि पुहुता, धजपट दीसइ लहलहता ।

तिसिइ समइं अनेक ब्राह्मण मिलिया । कवण कवण । दुवे त्रिवाडी
व्यास पाठक देवाईत मोषाईत सूर्राईत चंद्राईत देवशर्म मोषशर्म यज्ञशर्म

सोमशर्म श्रीधर देवधर गंगाधर गदाधर लक्ष्मीधर श्रीवच्छ पद्मनाभ पुरुषो-
त्तमप्रमुख ब्राह्मण मिलिया, शांति करिवानहं कारणि कलिकलिया; गले घ्राणा,
वेदध्वनि उच्चरिवा लागा। जे ब्राह्मण १८ पुराण १८ स्मृति जाणइ। ते किंस्या
पुराण। भागवतपुराण १ भविष्योत्तरपुराण २ मत्स्यपुराण ३ मार्कंडेयपुराण ४
विष्णुपुराण ५ वाराहपुराण ६ शिवपुराण ७ वामनपुराण ८ ब्रह्मपुराण ९
ब्रह्मांडपुराण १० ब्रह्मवैवर्त्तपुराण ११ आग्नेयपुराण १२ पद्मपुराण १३ लिंग-
पुराण १४-नारदपुराण १५ स्कंदपुराण १६ कूर्मपुराण १७ गरुडपुराण १८।

ते किसी स्मृति। मानवीस्मृति १ आत्रेयीस्मृति २ वैष्णवीस्मृति ३
हारीतकीस्मृति ४ याज्ञवल्कीस्मृति ५ शनैश्वरीस्मृति ६ अंगिरास्मृति ७
आपस्तंबीस्मृति ८ सांवर्त्तकीस्मृति ९ कात्यायनीस्मृति १० बृहस्पतीस्मृति
११ पारासरीस्मृति १२ शंखीस्मृति १३ लिखितास्मृति १४ दाक्षीस्मृति १५
गौतमीस्मृति १६ शातातपीस्मृति १७ वाशिष्ठीस्मृति १८।

तिसिइ रत्नमंजरी कुंअरि राजारहइं वीनती करावी, तिहां कुतिग जोइवा
आवी। जेहतणइ परिवारि, सषी अनेकप्रकारि; कस्तूरिका कर्पूरिका लालावती
पद्मावती चंद्रावती चंद्रउली चंपू हंसी सारसी वगुलीप्रमुख अनेक सषी वर्त्तइ।
तीहं सहित तिहां आवी। पितारहइं प्रणाम नीपजावी उत्संगि बइठी, दिव्य
रूप देषी रायतणइ मनि चिंता पइठी। एहयोग्य कवण वर, किं नर, किं विद्या-
धर, इसीउं चींतवतइं नरेश्वर, सरोवरभणी दृष्टि दीधी। तु निर्मल जलि, बइठा
कमलि; हंस करइं रमलि, च्यारइं दिसि वासीइं परिमलि; कारंड कुरंज कल-
हंस कलगलइं, ताप टलइं; मोर वासइं, सर्प नासइं; आडि पंषींआ तरइं, ब्राह्मण
स्नान करइं; माहि शतपत्र सहस्रपत्र कमलवन, दीसतां प्रीति पमाडइं मन; देहुरी
दंडकलस झलहलइं, लहरि ऊळलइं। इम जोतां राजहंस एक सरोवरहंतउ ऊडी
बइठउ राजातणइं हाथि, निहालिउ नरनाथि। तु रूडउ रूपवंत, रुलीयामणउ,
सोहामणउ; श्वेत, लावण्योपेत; जिसिउं लक्ष्मीदेवतातणउ चमर, जीणइं मोही-
यइं अमर, कुंदकुसुमस्तबकसमान प्रधान पक्षिकुलावतंस। इसिउं हंस कुति-
गकरी कुमारी लीघउ, राजा दीघउ। जेतलइं जोअइ कुमरी, तेतलइं हंसि
जिमणी पांष विस्तारी; कुमरि पांषमाहि घाती, भलीपरि साती। ऊपडिउ हंसु,
तत्काल पडिउ ध्वंसु। धसमसतउ ऊठिउ राउ, कहइं धाउ धाउ, वलिउ नी-
साणि घाउ। राउतपायक पलभलिया, वीर सवि मिलिया। धाइं राणा, ब्राह्मण

घरभणी ऊजाणा; दुवे नाठा, सवे त्रिवाडी त्राठा । बुंव पडी राउ धायउ हंस-
पूठिहं जेतलहं, हंस धाई पइठउ कमलमाहि तेतलहं । जे वारू, ते पइठा सरो-
वर माहि तारू; समग्र सरोवर गाहिउ, पणि हंस न साहिउ । निश्वास मेलही
राउ पाछउ वलिउ, परिघउ परिवार मिलिउ । राणी ते वात जाणी, मूर्छा
पामी सप्राणी, सचेत कीधी छांटी छांटी पाणी; राजा आवासी आव्या,
कन्यातणुं दुःख धरता छ मास अतिक्रमाया ।

तिसिइ आविउ वसंत, हूउ शीततणउ अंत, दक्षिणादिसितणउ शीतल
वाउ वाहं, विहसइ वणराहं ।

सव्वे भल्ला मासडा पण वइसाह न तुल्ल ।

जे दवि दाधा रूषडां तीह माथइ फुल्ल ॥

मउरिया सहकार, चंपक उदार; वेउल बकुल, भ्रमरकुल संकुल, कल-
रव करहं कोकिलतणां कुल । प्रवर प्रियंगु पाडल, निर्मल जल, विकसित क-
मल; राता पलास, सेवत्री वास; कुंद मुचकुंद महमहइ, नाग पुन्नाग गहगहइ ।
सारसतणी श्रेणि, दिसि वासीइ कुसुमरेणि; लोकतणे हाथि वीणा, वल्लाडंबर
झीणा; धवल शृंगार सार, मुक्ताफलतणा हार; सर्वांगसुंदर, वनमाहि रमइ
भोग पुरंदर । एकि गीत गवारइ, दान दिवारइ; विचित्र वादित्र वाजइ, रमलि-
तणां रंग छाजइ । एकि वादिइ फूल चूटइ, वृक्षतणा पल्लव घूंटइ; हीडोलइ हींचइ,
झीलतां वादिइ जलिइ सींचइ; केलिहरां कउतिग जोअइ, प्रीतमंत होयइ । वनपा-
लकि अवसर लही वसंत अवतरियातणी वार्त्ता कही । राजा सोमदेव आव्या
वनमाहि, तेह जि सरोवर देशी कुंअरि सांभली मनमाहि । तेतलइ पुरुषि
एकइ तेह सरोवरहुंतुं एक कमल लेइ रायरहइ दीधउं, राजा हाथि लीधउं ।
तेतलइ तेह जि कमलमध्यहंती नीसरी रत्नमंजरी कुमरि, दीठी नरेश्वरि ।
दुःखतणां व्याप चूरियां, लोक आश्चर्य पूरिया । नगरमध्य वार्ता जणावी, राज्ञी
कमललोचना आवी । दीठी बेटी, हुइ परमानंदतणी पेटी, परिवरी चेटी । तिहां
मांडिया बधामणां, महोत्सवि करी सुहामणां; विचित्र वादित्र वाजिवा लागा ।
ते कवण कवण । वीणा विपंची वल्लकी नकुलोष्टी जया विचित्रिका हस्तिका
करवादिनी कुब्जिका घोषवती सारंगी उदंबरी त्रिसरी झंषरी आलविणि
छकना रावणहत्था ताल कंसाल घंट जयघंट झालरि उंगरि कुरकचि कमरउ
घाघरी द्राक डाक ढाक धूस नीसाण तांबकी कडुआलि सेल्लक कांसी पाठी

पाऊ सांघ सींगी मदन काहल भेरी धुंकार तरवरा । ईणिपरि मृदंगपट्टपडहप्रमुख
वादित्र वाज्यां, दुःख दूरि ताज्यां । इकवीस मूर्छना इगुणपंचास तान, इस्यां
हुइं गीत गान; याचक योग्य प्रधान वस्त्रदान । कस्यां ते वस्त्र । सूथिला संग्रा-
मां दाडिमां मेघवनां पांडुरां जादरा कालां पीयलां पालेवीयां ताकसीनीयां
कपूरीयां कस्तूरीयां फूदडीयां चउकडीयां सलवलीयां ललवलीयां हंसवडि
गजवडि उडसाला नर्म पीठ अटाण कताण झूना झामरतली भइरव सुद्धभइरव
नलीबद्धप्रमुख वस्त्र जाणिवां । ईणिपरि महोत्सवभरि, साथि कुमरि, नरेश्वर
पहुता नगरि । मनतणइ उल्लासि, आठ्या आवासि । रायरहइ कुमरीतणउं
स्वरूप विमासतां ऊपनी आकाशवाणी, ए वार्त्ता कहिस्यइं केवलनाणी । राजा
तां आश्चर्य धरतई हुंतइ प्रधान तेडाविउ, तिहां आविउ । ते प्रणाम करी बइ-
ठउ तउ राजां बोलाविउ । हे मंत्रीश्वर विचारि, पाणिग्रहणयोग्य हुई रत्नमंजरी
कुमारि । तु मंडावीयइ स्वयंवर, मेलीयइं सवे नरेश्वर, कन्या आपणी इच्छा
वरइ वर । इसिउ आलोच कीधउ, तु राजा सविहुं दूतरहइं आदेश दीधउ; जु
को पृथ्वीपीठि राय नइ राणउ, तम्हे जाणउ, ते समग्र ईणि स्थानकि आणउ ।
तिवारपूठिइं स्वयंवरमंडप सूत्रधारपाहिं कराविवा मंडाविउ, हुं तुम्हकन्हइ
आविउ । हिव तुम्हे तिहां पाउ धारउ, ए वीनती अवधारउ, राजासोमदेवतणइ
मनि आनंद वधारउ ।

इसी वार्त्ता सांभली दूतहुइं बहुमान देतु कटक लेइ राजा पृथ्वीचंद्र
स्वयंवरभणी चालिउ, कटकभारि पातालि शेष नाग हालिउ । हाथीया घोडा,
नहीं थोडा । कस्या ते हाथीया छइ । सिंहलद्वीपतणा, जाजनगरतणा, भद्रजातीक,
उल्ललितसुंडादंड, प्रचंड, पर्वतसमान, जलधरवान, चपलकान, मदजल झरता,
आलि करता, अतुलबल, उच्छृंखल, गलगर्जित करता गजेंद्र सांचरियां, तर-
लतेजी तरवरिया । कस्या ते । हयाणा भयाणा कूकणा कास्मीरा ह्यठाणा पइ-
ठाणा सरसईया सींधउरा केकाइला जाइला उत्तरपंथा पाणीपंथा ताजा तेजी
तोरका काच्छला कांबोजा भाडेजा आरट्ट वाल्हीकज गांधार चांपेय तैतिल
त्रैगर्त्त आर्जनेय कांदरेय दरद सौवीर क्षेत्रशुद्ध प्रमाणशुद्ध चपल सरल तरल
उंचासणा परीछणा । जोयउं सहइं, बपूकारिया रहइं; वांकी द्रेठी, सभर पूठि;
छोटे काने, सूधइ वानि; सहरनी ललवलाई, नीछटनी कलाई, पूंछतणी आय-
ताई; पलाणतणी सामंत्राई; वांकी तुंडवालि, बहुली पेटवालि, मुहि रूधा,

आसणि सूधा; हसमंत ह्यहेषारवि अंबर बधिर करता । सूरवीर साहसिक कालूआ किरडिया किहाडा नीलडा सेराहा कविला धूसरा मांकडा दोरीया बोरीया द्वादशावर्त्तव्यजनगुणि शोभित शालिहोत्रशास्त्रप्रणीतलक्षणलक्षित । ससइं धसइं, साटि पइसइं, जुडइं, दउडइं । जिस्या सूर्यतणा रथ हूटा हुइं तिस्या अनेक तुरंगम सांचरिया । तउ पायक पहटिया । किस्या ते पायक । सूरवीर विक्रांत दुर्दांत षड् षेडे लीधे श्रमइं, वयरीरहइं आक्रमइं; पवनवेगि पुलिइं, योधस्युं जुडइं, सेल्ल कुंत तोमर ताकइं, वयरीरहइं हाकइं; वेला लामी, न मेलहइं स्वामी; नवनवां आयुध लिइं, एक वार आकाश पडतां घाढ दिइ । किहाईं न दीसइ थाका, जीह लगइ हुइ जयपताका; जे धाईं पुलइं ऊच्छलइं । इस्या पायकनी मिली कोडि, जीह माहि नहीं षोडि । हिव रथ विस्तरिया । किस्या ते रथ । चपलतुरंगमजूता, सुखिइं सुभट चालइं माहि बइठा सूता; छत्रीसे दंडायुधे भरिया, वायुवेगि सांचरिया; धडहडाटि धरामंडल धंधोलइं, रजमाहि रविबिंब रोलइं; ऊपरि धज लहलहइं, जाणे देवसंबंधीयां विमान गहगहइं; घांट वाजइं, वयरी भाजइं; मूर्त्तिवंता जिस्या मनोरथ, इस्या अनेक सांचरिया रथ । ईणिपरि चतुरंग दल चालतां हूतां नरेश्वररहइं वाटइं अनेक ग्राम नगर आवइं, लोक नवनवां भेटणां नीपजावइ । मार्गि जातां आवी एक अटवी ।

हिव ते किसीपरि वर्णविवी । जेह अटवीमाहि तमाल ताल हंताल मालूर खर्जूर अर्जुन चंदन चंपक बकुल विचिकिल सहकार कांचनार जांबू जंबीर वानीर कणवीर कीर केलि कदंब निंब नारिंग नालीयरि द्राष दाडिमी देवदारु अंकुल्ल कंकिल्लि नाग पुन्नागवल्ली यूथिका मालती माधवी जपा मरुबक दमनक पारधि केतकी मुचकुंद कुंद मंदार तगर सेवत्री राजगिरि सिरीषां सींबलि सिरघू सीसमि साग टींडूसार आक आकमंदार कपित्थ वील बहिडां करण वरण धव षदिर पलाश वड वेडस पींपल पींपरि ऊंवर कठंबड धाहुडी धामण षीप षेजड षीरणीं कइर करंज बाउल बीजुरी आमली आंबिली बोरि इंगोरि गोरडीयाप्रमुख वृक्षावली दीसइं, बीहंतां सूर्यतणां किरण माहि न पइसइं । अनइं किहाइं सिवातणा फेत्कार, घूकतणा घूत्कार; व्याघ्र-तणा घुरहराट, न लाभइं वाट नइ घाट; माहि वानरपरंपरा उच्छलइं, मदोन्मत्त गजेंद्र गुलगलइं; सिंहनादभयभीत मयगल षलभलइं । जिस्या दविं दाधा षील, तिस्या भील । सूर अर घुरकइं, चीत्रा बुरकइं; वेताल किलकिलइं, दावानल प्रज्वलइं; रींछ सांचरइं, विरुतणा यूथ विचरइं । इसी महारौद्र अटवी ।

तेहमाहि नरेश्वरतणां कटक न लहइं माग, न लहइ नदीतणा ताग; न सकइ चाली घोडा हाथी, न को जाणइ साथी। विषम पर्वतमाला, डावी जिमणी दवतणी ज्वाला, जई न सकइं चडिया नइ पाला, तेतलइं दीसिवा लागा भील अत्यंत काला। तिवारइं राजापृथ्वीचंद्र चींतविउं आवी विषम वेला, जई थाई भील भेला; तु किम झूझीयइं, जइ परदल न झूझीयइं। जेतलइं राजा इसिउं चींतविउं तेतलइं ते कटक अटवीऊपरि हुई पारि पहुतुं, मनि गहगहतुं। आगलि नगर एक देषइ, ते हर्ष कुणतणइ लेषइ। सवे कटकीया लोक आश्चर्य धरइं, परस्परइं इसी वात करइं। कुणहिं काई जाणिउं, ए कटक इहां कुणि आणिउं; दैव रूठउ, पुणि देव दाणव कोइ तूठउ; जीणइं एवहुं सानिध्य कीधउं, हेलांमात्र कटक इहां लीधउं। अथवा राजा पृथ्वीचंद्र धन्य, जेहनुं गरूउं पुण्य। जेह कारणि इस्युं कहइ। जे गया विदेसि, पडिया क्लेशि; ताणीया पाणीनइ पूरि, आक्रम्या क्रूरि; चांप्या सधरि, डसिया विषधरि; धरियां राइ, भेल्या घणे घाइ; मुरडिया मोगे, दूहविया रोगे; ऊपाडिया बंदि, पडिया विछंदि; तीहं सविहुं-नइं धर्मनउ आधार, ए साचउ विचार। लोकरहइं इसी वात करतां राजाइं तिहां आंबावृक्षहेठलि आव्या, ऊतारा नीपजाव्या। तेतलइ धातु, पुलतु; पाछउ जोतउ, कायरपणइ रोटउ; पुरुष एक नरेश्वरतणइ शरणि पइठउ। तेतलइ तरूआरि ताकता, हणिहणि भणी हाकता; केई पुरुष आव्या। तेहइ राजा बोलाव्या। आपु ए चोर, महाकठोर, जे एहनइं राषइ ते ढोर। तिवारइं राजातणे सेवके कहिउं अरे ए कहीइं राजा पृथ्वीचंद्र, एहस्युं पहुची न सकइं इंद्र। तिवारइं ते पुरुष कहिवा लागा। नरेश्वर पहिलउं वात अवधारउ, तउ चोर ऊगारउं। अम्हे तलार, करउं नगरतणी सार। पुणि ए चौर, दुर्दान्त अपार; ए विविधवेसि हेरइ, बोलाविउ बोल फेरइ; चडइ मालि अटालि, पइसइ परनालि षालि; कमाड ऊघाडइ, पुणि सूतु कोइ न जगाडइ, अघोर निद्रा दिइ; कानकोटना आभरण लिइ; कटारी पायबंधन वाढइ, पर्वतप्राय केकाण काढइ; चडिउं चोर पवाडई, राउला भंडार फाडइ; दीसइ दिसि शांत, पुणि रात्रिइं साक्षात् कृतान्त; विणासीतउ न मानइं चोरी, बांधइं वाढी जाइ दोरी; लोह सांकल त्रोडइ, घडी न रहइं षोडइ; हाकिउ ऊजाइ, रंधिउ धसी घाइ, करि कीधइ करवालि, जाइ लोकलक्षविचालि; गढमंदिर फाडइं, धीजि अडइ। इस्यु ए चोर गढनइ परनालि पइसतउ लाधउ, पाडी बांधउ, दांते दोर त्रोडि

नाठउ, तुम्हणइ शरणइ पइठउ । पुणि ए पापी, जीणि प्रजा संतापी; ए तुम्ह म
थापउ, अम्हरहइ आपउ । नहींतु घायप्रहार देसिउं, प्राणिहिं लेसिउं । अम्हा-
रउ ठाकुर सपराणउ, तेह आगलि कोई राय नइ राणउ । सांभलउ ए वात,
ए आगलि दीसइ पद्मपुरनगर महाबिल्यात । तिहां छइ राजा समरकेतु, अति-
सचेतु, वयरी प्रति साक्षात् केतु । जेतलइ तेउ ए वात जाणिसिइ, तेतलइं
ताहरा अहंकारतणउ अंत आणिसिइ । एह कारणि चोर आपी निर्दोष थाउ,
पछइ तुम्हे भावइ तिहां जाउ । इसी वार्त्ता सांभली आपणां सुभटसाम्हउं जोई
राजा पृथ्वीचंद्र हस्या, तउ ते सुभट उलहस्या । ऊठिया ते वीर, ताकवा लागा
तोमर तीर । नाठा तलार, नासता पूठिइं वाजइ प्रहार; नीठ ते जई नगरमा-
हि पइठा, तु नाभिइं सास बइठा । जइ वीनविउ समरकेतु राउ, देषाडइं आ-
पणउ घाउ । समरकेतु राजा कीधउ कोप, हूउ दलवई निरोप; तत्काल साम-
हिउं दल, मिलइं सुभट सबल; वाजइं प्रयाणभेरी, वीहइं वयरी; पाटहस्ति गु-
डिउ, तेहऊपरि राजा चडिउ । रथ हथियारे भरिया, तुरंगम पाषरिया, पायक
सांचरिया; चतुरंग दल नीकलिउं, बाहिरि एकठउं मिलिउं; दीसइं छत्रध्वज,
ऊछलइं रज । तउ तेह दूत मोकलिउ तिहां रही, तीणें पृथ्वीचंद्रप्रतिइं इसी वात
कही । तुं पियारइ देसि पइस, अन्याय करी इहां वयस; तउ तुं अजाण, अजी मानि
स्वामीसमरकेतुतणी आण, नहींतु प्रकटि प्राण; चोरदंड तुझनइं होसिइं, लोक
कउतिग जोइसिइ । ईणइं वातइं दूत अपमानी बाहिरि काढी राजा पृथ्वीचंद्रि
दल सामहाविउं, ए आपणइ पर्व आविउं । चाल्यां बेउ दल, ऊपडइं धूलिप-
डल; कोइ आप पर विभाग बूझवइ नहीं, पितापुत्र सूझइ नहीं । न जाणीइं आपणां
दल, न जाणीइ पिरायुं दल, न जाणीयइ भूतल, न जाणीइ नभोमंडल; न जाणीइ
पूर्व न जाणीइ पश्चिम एकाकार हूउं । बिहुं दल मिलते मादल वाजी, जयदक
वाजी, रणचडण काहली वाजी; रणतूर वाजियां । त्र्यंबकतणे त्रहत्रहाटि जाणे
त्रिन्हइ त्रिभुवन टलटलिवा लागा, भेरीतणे भूंभूयाटि भुहि भिलिहि फाटी,
काहलतणे कोलाहले कायर कमकम्या, नीसाणतणे निनादि उच्चैः श्रवा ऊकनिउ,
ऐरावण ऊमंडिउ, दिग्गज डहडहिया, ढाकबूक वाजी, बुंवारव फाटी, बिहुं दलि
चालते सेषनाग सलबलिउ, कुलाचलचक्र चलिउ, कूर्म करोडि भाजइ, अंबर
गाजइ; अकालि अपस्तावि प्रलयकालनी शंका हुई । बाध्या क्रोध, झूझइं योध; घाय
जालवइं, छग्रीस दंडायुध चालवइं । कियों ते । वज्र १ चक्र २ धनुष ३ अंकुश

४ षड् ५ छुरिका ६ तोमर ७ कुंत ८ त्रिशूल ९ भाला १० भिंडमाल ११ मु-
संडि १२ मक्षिक १३ मुद्गर १४ अरल १५ हल १६ परशु १७ पट्टि १८ शवि-
ष्ट १९ कणय २० कंपन २१ कर्त्तरी २२ तरवारि २३ कुद्दाल २४ दुस्फोट २५
गदा २६ प्रलय २७ काल २८ नाराच २९ पाश ३० फल ३१ यंत्र ३२ द्रस
३३ दंड ३४ लगड ३५ कटारी ३६ वह्नि । इस्यां हथीआर झलहलइं, कायर
पुलइं । रथ जुडंता दूरापाती लघुसंधानी शब्दवेधी धनुर्धर धाया, बाण मेलहते
आकाश छाया । एकि घोडे चडइं, एकि उतावला पडइं; कायर रडइं, सुभट
भिडइं, योध जुडइं । घोडा मुह मूकी धाइं, चूटे पगि ऊजाइं; हस्तीतणा सुंडादंड
चूटइं, एकिना शिर फूटइं । इसिइ युद्धि प्रवर्त्ततइ हुंतइ राजा पृथ्वीचंद्रतणुं
दल वयरीए एकवार भागूं, नासिवा लागूं । समरकेत हूउ सानंद, पृथ्वीचंद्र
हूउ निरानंद; चींतवइ ए किसी वात, माहरा दलरहइं काइं हूउ उपघात ।
राजा चींतवतइ हूंतइ वीर एक आकाशमार्गि आविउ, तीणहं कउतिग नींपजा-
विउ । तीणं दीठइ वयरीना हाथतु हथियार पडियां, पृथ्वीचंद्रना कटकरहइं
चडियां । राजासमरकेतु बांधी पृथ्वीचंद्रतणे पगतली आणिउ, पुण ते वीर
तिवारपूठिइं कुणहीं न जाणिउ । तत्काल जयजयारव ऊछलिउ, राजापृथ्वी-
चंद्रतणउ वीरवर्ग मिलिउ ।

इति श्रीअंचलगच्छे श्रीमाणिक्यसुंदरसूरिविरचिते श्रीपृथ्वीचंद्रचरित्रे

द्वितीयोऽऽसः ।

तृतीयोऽऽसः

जइ मान मोडिउ, तउ समरकेतु बंधहंतउ छोडिउ; पिहरावी बोलावीउ ।
तुं मनि गर्व आणे, माहरी वात न जाणे । किवारइं सूर्य पूर्व छांडी पश्चिम उदय
मांडइ, समुद्र मर्यादा छांडइ; मेरु ढलइ, आकाशतउ नक्षत्रराशि गलइं; पापीया-
घरि धर्म पलइ, पाणीमाहि अग्नि प्रज्वलइं; धूमंडल पलभलइं, कुलाचलचक्र
चलइ; अमृतहंतउ विष थाइ, पृथ्वी रसातलि जाइ; कृपणि दान दीजइ, पुणि
सुझकन्हइ प्राणि शरणागत चोरइ किम लीजइ । तिवारइं जे आविउ छइ
शरणि, ते लागु राजातणे चरणि; स्वामी तुं धन्य जीणि तइ हुं ऊगारिउ,
नहींतु तलारे हूंतु मारिउ; पडतउ संसारि; होयत मनुष्यजन्मतणी हारि ।
राजा कहिउं तु किसिउ, जेहनुं मन इसिउं । विचारि ते कहिवा लागु । अंग-

देशि श्रीपुरिनगर, तिहां श्रेष्ठि लक्ष्मीधर, श्रीलक्ष्मीइं सधर । तेहतणु पुत्र
हुं श्रीपति, पणि विषम दैवगति; दसकोडि द्रव्य हूंती, पणि बापुजीसाथि
पहुती । पिता परोक्ष हूआ पूठिइं जं वाहणमाहि घातिउं, तं समुद्र सातिउं; कई
वाणउत्रे ग्रसिउं, हाट चोरे मुसिउं; थलवटनउ थलवटइ रहिउं, कईं ठाकुरे ग्रहिउं;
घर बलिउं, समग्र मंडाण टलिउं; समग्र द्रव्य निस्तरिउं, एकलक्ष द्रव्य ऊगरिउ ।
पछइ अवर काजकाम छांडिउं, प्रवहण पूरिवा मांडिउं । भलइ दिवसि
प्रवहण पूरिउ, त्रिन्नि सइं साठि क्रियाणां चडाव्या, ससविध पकवान चडा-
व्यां; ससविध करंवा लिया, पोतां सपाणी भरिया, देवसमुद्र वायस पूजाव्या ।
षाभिल मादल वाजिवा लागां, बाबरि कोलणि नाचेवा लागी, गलेला हेलाहेल
करवा लागा; कूउषंभउ ऊभउ कीधउ, नागरउ पाडिउ, सिद्ध ताडिउ; घामतीउ
घामतउ लीचइवा लागु, वाऊरीऊ तलि पइठउ, नीजामउ नालि बइठउ । आउलां
पडइं, सूकाणी सूकाण चालवइं, मालिम वाहण जालवइं; सुरवर लहलह्या,
वादित्रनादि समुद्र गाजी रह्या । हिव आगलि जातां हूंता चिली वाय वायां,
आकाशि हूईं मेघछाया; ऊडिउ पवन प्रबल, समुद्र हूउ उच्छृंगल; कल्लोल
आकाशि ऊपडइं, बीहतां लोकरहइं डींवा चडइ; वेला लामी, वस्तु वामी; एक
हा दैव करइ, एक देवध्यान धरइं । वाहणि पर्वत आफली भागउं, श्रीपतिइ
हाथि पाटीउ लागउं । तेहनइ आधारितरतउ तरतउ त्रिहु दिवसि पारि आविउ,
वनमाहि सरोवरि जल पीउ, फलभक्षण नीपजाविउ । आगलि जाता दीठउ
योगी एक, मइ साचविउ नमस्कारतणउ विवेक । जोगी कहिउं तूरहिइ एक
देसु, बीजउ लेइसु । मइं कहिउं दिइ, पछइ मुज निर्द्धनकन्हइं जं देषइ तं लहिइं ।
जोगी बंधछोडणी विद्या देइ मस्तकि मागिउं । मइं चींतवइउं, वली पूर्व-
भवपातक जागिउं । जोगी धायु पूठि, मइ नासिवा बांधी मूठि । नासतु ईणि
नगरि आवी रात्रिइं गढतणइ षालि पयसी रहिउ, तलारके ग्रहिउ; तइ राषिउ,
मोटउ उपगार दाषिउ ।

छासिइंकेरउ आफरु दासिइंकेरु नेह ।

कंबलकेरु मोलीउं षिसत न लागइ षेव ॥

माहरी लक्ष्मी इहसरीषी हुई, तउ कहीइ । आभातणी छांह, कुपरिसतणी
बाह; आढनउ तूर, नदीनूं पूर; ठाकुरनउ प्रसाद, माकडनउ विषाद; वहीनउ
पडीगणउं, सूपडानउ उठीगणउं; दीवानु तेज, मान्नेईनु हेज; दासीनु स्नेह, शर-

दकालनु मेह; थोडा मेहनउ ब्रेह, बहिलु आवइ छेह । लक्ष्मीतणउं त न्याय नीपनउ, हिव वैराग्य ऊपनउ; तापसदीक्षा लेसु हिव, जिम हुइ सदासिव ।

हिव समरकेतु राजा ते वार्त्ता सांभली मनि वैराग्य पामिउं, राजापृथ्वीचन्द्रप्रतिहं शिरु नामिउ । अनइ इसी बात कही, ताहरु पुण्य अद्भुत सही । तूरहिइ कोइ अदृष्ट देवता सानिध्य करइ, सर्व विघ्न हरइ । ताहरुं अद्भुत भाग्य, मुझनइ ऊपनु वैराग्य । विमासी जोयुं तउ असार, संसार । जिशिउं पीपलनुं पान, जिशिउं गजेद्रनु कान; जिशिउ संध्यानु राग, जिशिउ भमरीनु पाग, जिशिउ मांकडनु वैराग; जिसिउ वीजनु झबकु, जिसिउ पोइणिनइ पाति पाणीनउ टबकउ; जिशिउ समुद्रनु कल्लोल, जिशिउ धजनु अंचल, तिसिउ संसार चंचल । तुं एक कहिउं करि, माहरुं राज्य अंगीकरी । हउं तापसी दीक्षा लेउसु, तप करिसु, संसार तरिसु । पृथ्वीचंद्रि तीहं विहुप्रति कहिउं तुम्हे करुवउ धर्म, पणि नथी जाणता मर्म । सांभलउ वन ते वर्णवीइ जे वृक्षवंत, नदी ते जे नीरवंत, कटक ते जे वीरवंत, सरोवर ते जे कमलवंत, मेघ ते जे समावंत, महात्मा ते जे क्षमावंत, प्रासाद ते जे ध्वजावंत, वाट ते जे यूथवंत, हाट ते जे वस्तुवंत, घाट ते जे सुवर्णवंत, भाट ते जे वचनवंत, मठ ते जे मुनिवंत, गढ ते जे अभंगवंत, देव ते जे अरागवंत, गुरु ते जे क्रियावंत, वचन ते जे सत्यवंत, शिष्य ते जे विनयवंत, मनुष्य ते जे धर्मवंत, तुरंगम ते जे तेजवंत, हस्ती ते जे भद्रजातिवंत, प्रधान ते जे बुद्धिवंत, कर ते जे चायवंत, राय ते जे न्यायवंत, व्यवहारीया ते जे मयावंत, धर्मी ते जे दयावंत । अहो महाभागउ, हीयाने लोचने जागउ । जेतलूं अंतर राणी अनइ दासि, जेतलूं अंतर दही नइ छासि, जेतलूं अंतर मधुरध्वनि नइ धासि; जेतलूं अंतर समुद्र नइ कूया, जेतलूं अंतर सोनईया नइ रूया, जेतलूं अंतर बाप नइ फूया; जेतलूं अंतर नरेश्वर नइ आहीर, जेतलूं अंतर रूपा नइ कधीर; जेतलूं अंतर सुवर्ण नइ माटी; जेतलूं अंतर वारु भीति नइ घ्राटी; जेतलूं अंतर पटउला नइ छाटी; जेतलूं अंतर पडसूत्र नइ सूतली, जेतलूं अंतर जीवता माणस नइ पूतली; जेतलूं अंतर खड्ग नइ छुरी, जेतलूं अंतर तंदुल नइ बुरी; जेतलूं अंतर सूर्य नइ तारा, जेतलूं अंतर साकर नइ षारा; जेतलूं अंतर सीह नइ सीआल, जेतलूं अंतर प्रभात नइ वीआल; जेतलूं अंतर रूंगा नइ राग, जेतलूं अंतर सींबलि नइ साग; जेतलूं अंतर अलसला नइ नाग,

श्री ४७ ही ४८ सुतारा ४९ चित्रकनका ५० चित्रा ५१ सौत्रामणी ५२ रूप
 ५३ रूपांसिका ५४ सुरूपा ५५ रूपवती ५६ एवंअधोलोकनिवासिनी ८ ऊर्ध्व-
 लोकनिवासिनी ८ रुचकपर्वतचतुर्दिशिनिवासिनी प्रत्येक ८, ८, विदिसिनिवा-
 सिनी ४ मध्यरुचकनिवासिनी ४ ईणिपरि छप्पन्नदिकुमारिका आवी । तेहे
 सूतिकर्मतणी समग्ररीति नीपजावी । तदनंतर सौधर्मादिकदेवलोकइंद्ररहइं
 आसनप्रकंप नीपनउ । पहिलउं इंद्रहुइं कोप ऊपनउ । वज्र ऊलालिउं, ज्ञानदृष्टि
 निहालिउं । जाणिउं परमेश्वरतणउ अवतार, ऊलटिउ भक्तिभार । इंद्र मनि
 गहगहिउ, आसण छांडी उत्तरासंग करी गूडे थइ मस्तकि हाथ जोडी शक्र-
 स्तव कहिउ । इंद्रि आसणि बइसी हरिणगमेसी देव बोलाविउ, तत्काल
 आविउ । इंद्रतणइ आदेसि सुघोषा घंटा आस्फालीनइ देवलोकि जणाविउं ।
 इंद्र लक्ष्ययोजनप्रमाणि पालंकि विमाने चडी पंचरूपि परमेश्वर लेउं मेरुपर्व-
 ति आविउ । चउसठि इंद्र मिलिया, देवसमूह हर्षि कलकलिया । आठ सहस्र
 चउसठि आगला कलसि करी निर्मलजलि भरी स्नान कीधउं । तदनंतर अंग-
 रूक्षण करी विलेपन २ वस्त्रयुगल ३ वासपूजा ४ पुष्पारोहण ५ माल्यारोहण
 ६ वर्णारोहण ७ चूर्णारोहण ८ ध्वजारोहण ९ आभरणारोहण १० पुष्पग्रह
 ११ पुष्पप्रकर १२ अष्टमंगलकरण १३ धूपोत्क्षेप १४ गीत १५ नृत्य १६
 वादित्र १७ सत्तरभेदपूजातणउं करणीय सीधुं ।

तीणि अवसरि गगन गाजियां, इगुणपंचासभेदि वाजिन्न वाजियां । क-
 वणकवणपरिइं । उद्धमंताणं शंखाणं संगीयाणं स्वरमुद्दीयाणं परिपरियाणं
 अहम्मंताणं पणवाणं पडहाणं अप्फालिज्जंताणं भंभाणं हारंभाणं तालिज्जं-
 ताणं भेरीणं झल्लरीणं दुंदुभीणं आलिप्पंताणं मुख्वाणं मुत्तिगाणं नदीमुत्तिगाणं
 घंदिज्जंताणं कच्छभीणं चित्तवीणाणं आमोडिज्जंताणं झुंकाणं नउलाणं छिप्पं-
 ताणं दुंदुक्कीणं चिषाणं वाइज्जंताणं करडाणं डिडिंमकाणं उत्तालिज्जंताणं त-
 लाणं तोलाणं कंसतालाणं घट्टिज्जंताणं रिक्किसिक्काणं सुंसरिकाणं दुंदुक्कीणं फू-
 मिज्जंताणं वंसाणं वेणूणं एवमाईणं एगूणवन्नाए पवाइज्जंताणं । ईणि युक्तिइं,
 भावभक्तिइं, आत्मशक्तिइं, परमेश्वरहुइं स्नानमहोत्सव करी पुनरपि पंचरूपिइं
 इंद्र होई देव मातातणइं समीपि मुंकिउं । बत्रीस वत्रीस स्थाल सिंहासनादिक
 बत्रीसकोडि सुवर्णरत्नतणी वृष्टि करी, स्वामीतणइ दक्षिणहस्तांगुष्टि करी
 अमृत संचारी, वस्त्रयुगल कुंडल श्रीदाम मेल्ली इंद्र स्वस्थानकि पहुतु ।

हिव प्रभाति दासीमहिलीए राउ वधाविउ, स्वामी तम्हारे पुत्र आविउ । राजा वधामणी दीधी, नगरमाहि सर्व महोत्सवतणी पद्वति कीधी । अलंकरिउ प्राकार, शृंगारियां प्रतोलीद्वार । मंच अतिमंचतणी रचना हुई, स्वर्गपुरीतणी शोभा लई । ध्वजपताका लहकइं, पुष्पपरिमल बहकइं । नाचइं पात्र, राजाभवनि आवइं अक्षतपात्र । सोमाई भणतां आवइं छात्र, लोक अलंकरइं आभरणि गात्र, उत्सव करिवा एहइ ज वात । तीणि वेलां न ऊऊइं कोरण, बांधीयइं तोरण; बांधीयइं बंदरवाल, उत्सव विशाल; गुलघोउ लाहीयइं, मन उमाहीयइ । ईणि युक्ति जन्ममहोत्सव हूआ । नामगरणतणइ अवसरि माताहुइं डोहलइ धर्म बुद्धि हुई । एहभणी धर्म इसिउं नाम दीधउं, परमेश्वरि रमलि करतां बालपणुं लीधउं, यौवनवयि राजकन्यातणउ पाणिग्रहण कीधउं । अढई लाष वरस कुमारपणउं पाली पंचासवरस राजप्रलक्ष्मी पामी, पछइ विरक्तियुक्त हूउ स्वामी । नवविधलोकांतिकदेवतणी वीनतीलगइ सांवत्सरिकदान दीधउं, पछइ महोत्सवि सहित चारित्र लीधउं । बि वरस छद्मस्थ काल अति कमी, केवललक्ष्मी पामी; विहारक्रम करइं, भव्यलोक तारइं ।

हिव राजा पृथ्वीचंद्र अनइ सोमदेव उद्यानपालकरइं साढावारलाख सुवर्णदान देई समस्तपरिवारसाथिइं लेई परमेश्वर नमस्करिवा सांचरिया, सकललोक ऊलटि धरिया । पृथ्वीरहइं अलंकरण, दीठउं स्वामीतणउं समोसरण । किसिउं ते । समग्र देव आवइं, समोसरण नींपजावइं । तां पहिलुं वायुकुमारदेवतानिर्मित संवर्त्तक वायु विस्तरइं, ते तृण काष्ठ कचवर हरइं, आकासि मेघपटल पसरइं, गंधोदकि वृष्टि करइं, फूलपगर भरइं । गरूअउं रत्नमय पीठ बाधीं ऊपरि जानुप्रमाण पंचवर्ण कुसुम वरसइं, चिहुं दिसि दिव्य परिमल विलसइं । रत्नमय सुवर्णमय रूप्यमय त्रिनि प्रकार रूपि करी उदार, अनेक प्रकार; मणिरत्नसुवर्णमय कउसीसां सदाकार, च्यारि प्रतोलीद्वार । तिहां बिहु पासे उच्चैस्तर सुवर्णमय स्तंभ, ऊपरि मणिमय कुंभ; इंद्रधनुषमानमूरण, रत्नमय तोरण; प्रत्यक्ष जिसी मांगलिक्यनी पालि, इसी बंदरवालि । अनेकि विचित्र, विशाल छत्र; उदारस्वरूप, कनकमय पूतलीतणां रूप; जेहे लिषित सिंह शार्दूल गज, इस्यां निर्मल नीरज, पंचवर्ण ध्वज । इस्या समोसरणविचालि, मणिबद्धपीठि विशालि; सकलमांगलिक्यमुख्य, गरूउ अशोकवृक्ष; जिसिउ प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष, इसिउ वारगुण चैत्यवृक्ष । नेहनणी छायां रत्नमय

सिंहासण, जगन्नाथहुइं बइसण । तेजिइं जोई सकीयइ नीठ, इसिउं रत्नमय पादपीठ; जिस्यां विकसित सहस्रपत्र, तिस्यां पनर छत्रातिछत्र; अमर, देवहुइं ढालइं चमर; अधरीकृतआदित्यमंडल, तीर्थकरलक्ष्मीकर्णकुंडल; पूठइं झलकइं भामंडल । जेहतणइ दर्शनि मिथ्यात्वपटल टलइं, इसिउ आगलि धर्मचक्र झलहलइं; दिव्य दुंदुभि वाजइ, तीणि निर्घोष गगनांगणि गाजइं, परतीर्थिक-तणउ भडवाउ भाजइ । सहस्रप्रमाणयोजन इंद्रधज लहलहइं, धूपतणा परिमल महमहइं, वादित्रतणी कोडि दुहदुहइं । मनुष्यतणी कोडि आवइं, मनि रहरहइ । ईणि इसिइ समोसरणि परमेश्वर जगदीश्वर नवसुवर्णकमलि पाय स्थाप-तउ, पूछिया ऊतर आपतु; प्रभाइं दसइ दिसि व्यापतउ, भविकलोकहइं पाप मूकावतउ, पूर्वदिसितणइ द्वारि पइसइ, पूर्वाभिमुख सिंहासनि बइसइ चतुर्मुख होइ, भविकसंमुख जोई । संपूरी, बारपरिषदपूरी; मिथ्यात्वमानमूरी, पापपटलचूरी, सर्वसत्त्वसाधारिणी, अमृतानुकारिणी, मधुरवाणी; लाभ जाणी; वखाण करइ, धर्म मार्ग विस्तरइ ।

हिव बेउ नरेश्वर मनि गहगहता, समोसरणिमाहि पहुता । श्रीधर्मनाथ-हुइं प्रदक्षिणा देउ, आगलि बइठा नरेश्वर बेउ । तिवारे राजापृथ्वीचंद्रि आप-णइं विशेषवंतइं रूपि लावण्ये करी देवदानवइंद्रहुइं आश्चर्य कीधुं, श्रीधर्मनाथि तीर्थकरि उपदेश दीधउ । किस्यु ते ।

सद्वंशजन्म गृहिणी स्पृहणीयशीला लीलायितं वपुषि पौरुषभूषणा श्रीः ।

पुत्राः पवित्रचरिताः सुहृदोऽपदोषाः स्युर्धर्मतः खलु फलानि पचेलिमानि ॥१॥

अहो भव्य जीव ए इस्यां धर्मनां फल जाणिवां । कवण कवण । पहिलुं तां उत्तिमकुलि अवतार, ए धर्मतणां फल सार । जइ जीव नीचकुलि अवत-रइ, तु किसिउ पुण्य करइ । एह विश्वमाहि एक माछीतणां कुल, भीलतणां कुल, कोलीतणां कुल । ईणिपरि थोहरी आहेडी वागुरी षाटकी मयप घांची चोर वेइया बाबरी मेय डुंब पाणपेरणीयांतणां पापतणां कुल जाणिवां । जीव एहे कुले अवतरी पाप करी नरकि जाइ, लाधु मनुष्यजन्म निरर्थक थाइ । पुणि जीवहुइं उत्तिम कुल दुर्लभ । कुण तेउ उत्तम कुल ।

वंसाणं जिणवंसो सब्बकुलाणं च सावयकुलाइं ।

सिद्धिगई य गईणं मुत्तिसुहं सब्बसुक्खाणं ॥ २ ॥

वंश ते प्रशंसि जेहे जिणतणउ अवतार, वंशतणउ कवण विचार ।
 इक्ष्वाकुवंश सूर्यवंश चंदिल्ल चाहूआण सोलंकीवंश वालावंश वावेला वाघरो-
 लावंश गुलवंश गुलबरवंश सोभटा भाटीया सीदा वांदा दाह्णिणमा कच्छवाह
 कणवाहा हूणवंश हरीयड शकट सिलार धान्यपालवंश अनंगपाल राजपाल
 दधिपाल कलाप परमार मोरीवंश यादव सैधव निकुंभ गुहिलउत्त डोडीवंश
 डोडीयाणवंश मंकूआणा खडरवंश सीलणवंश बोडाणवंश दहीयावंश प्रमुव
 वहीयावंश प्रमुखवंश जाणिवा । अनइ ब्राह्मणादिक कुलविशेष ज्ञातिविशेष
 जाणिवा । जिम कलिकाल प्रवर्त्तमानि चउरासी ज्ञाति बोलीयहं । किसी ते
 ज्ञाति । श्रीश्रीमाली उसवाल वाघेरवाल डींइ पुष्करवाल डीसावाल मेडत-
 वाल भाभू सराणा छत्रवाल दोहिल सोनी षडवड पंडेरवाल पोरूआड गूजर
 मोढ नागर जालहरा षडाइता कपोल जांबू वायडा वाव दसउरा करहीया
 नागद्रहा मेवाडा भटेउरा कथरा नरसिहउरा हारल पंचमवंश सिरषंडला
 कमोह रोकती अगरेवाल जिणाणी वांभ घांघ पालहाउत उचित बगडू अहिछ-
 त्रवाल श्रीगउड वाल्मीकि टाकी तेलटा तिसउरा अठवग्री लाडीसाम्वा बधन-
 उरा सुहडवाल वीघू पद्मावती नीमा जेहराणा माथुर धाकड पल्लीवाल हरभउरा
 चित्रउडा गोला गह्विरिया लोहाणा भाटीया नागउरा आणंदउरा सतला कड-
 कोलापुरी रायकवाल पेसीया पेरूया गोमित्री नारायणा टींठू गजउडा गोपरूआ
 अजयमेरा कंडोलीया कायत्थ सगउडा सीहउरा जेसवाल नादेवा जाइलवाल-
 चावेल । एणि सविहुं ज्ञातिकुलवंशमाहि वषाणीइ सुश्रावककुल । जीणि
 सुश्रावकतणइ कुलि जीववधु टालीयइ, जीवदया पालीयइ; मिथ्यात्व परिहरी,
 यइ, सम्यक्त्व अंगीकरीयइ; पाणीं भलीपरि गालीयइ, इंधण सोधी ज्वालीयइ;
 अथाणूं न राषीइ, अणंतकाई न चाषीई; चोरी न कीजइ, सुपात्रि दान दीजइ-
 सुतीर्थि वित्त वावी लाभ लीजइ; आलोअण लेई पाप घोईइ, परिग्रहप्रमाणि
 पुण्यवंत होईइ; उभयकाल सामायक त्रिकाल देवपूजा समाचरीइ, पुण्यभंडार
 भरीइ; बावीस अभक्ष बत्रीस अणंत काय टालीयइ, आठमि चऊदसि पूनिम
 अमावास चउमासी पजूसण पर्व पालीयहं, पुण्यमार्ग उजूआलीयइ । इसु श्रा-
 वकतणउ कुल, तउ पामीयइ जइ पोतइ पुण्य हुइ विपुल । उत्तिमकुलि लाधइ
 हुंतइ गृहस्थरहइं जय हुइ । कुकलत्रतणउ संयोग, तु हुइ पुण्यतणउ वियोग ।

किसी ते कुकलत्र । जे चालती कउयछि, साची अलछि; आत्मकुडुंबभं-
 जकि, परचित्तरंजकि; कपटविषइ पटिष्ट, अतिहिं अनिष्ट; बोलति छउड उतार
 इ, रीसइं छोरू मारइ; जीभइं जव छोलइ, अलविइं असंबद्ध बोलइं, बगाईं करती

नदीतण्डू पूरि न वाहलइं, रायतण्डू मनि रंगि रहावीयइं मधुस्वरि न षाहलइं; समुद्रि सेतुबंध बांधीइं पर्वते न काकरइं; दृढगढतणी पोलि भांजियइं गजेंद्रि न बाकरइं, याचकजननां दरिद्र टालीयइं दातारि लक्ष्मीवंति न आजन्मदुस्थि; सकलसंदेह भांजीइं केवलीए न छद्मस्थि । तेह कारणि तउं हे स्वामिन् अम्हारा संदेह टालि, एक संदेह ऊपनउ सरोवरतणि पालि; एक ऊपनउ अटवीठामि, एक संग्रामि; एक स्वयंवरि, ए सवे संदेह अपहरि । इसी वीनती सांभली जगन्नाथ कहइ छइ अहो नरेश्वर सांभलउ । हिव कहीइ छइ पूर्वभव, जिसिउ हूउं अनुभव । ईणइ क्षेत्रि भृगुकच्छनामिहं नगर, जिहां नर्मदा नदी प्रवर; प्रौढ धवलगृह, लोक पुण्यविषइ सस्पृह; जीणि नगरि महाधर मंडलीक सेल-हत्थ वरवीर राउत डबइत भाथाइत ऊडणाइत फलहकार छुरीकार नलीकार कुंभकार सींगडीया साबलीया जेठी यंत्रवाहा भंडारी कोठारीप्रभृति राज-लोक वसइं, सर्वज्ञभवन देशी मन उल्लसइ । जिहां पद्मश्रीनामि सरोवर, महाभनोहर, जिहां राज्य पालइं द्रोणनामा नरेश्वर । तेहतणइ सागर अनइ पूरण इसिइ नामि पवित्रचरित्र, वि पुत्र । ते वेउ नर्मदानदीमाहि बेडी चडी मत्स्य विणासि वाप्रवर्त्तिग्या । तिसिइ अवसरि मत्स्य एक साम्हउ जोई तीहप्र तिइं बोलिउ । रे दुराचारउ म करउ पाप, नरकि इस्यां हुसिइ संताप, नहीं छूटउ करताइ विलाप; जइ न मानउ तउ पूछउ आपणउ बाप । ए वात सांभली वेउ कुमर भयभ्रांत हूआ । तिसिइ नदीनइ कंठि एक दीठउ मुनीश्वर । तेहे बेडीतउ उतरी नमस्करिउ । वच्छउ तुम्हे म्हारा पौत्र, हूं पालउं चारित्र; तुम्हे करउ अक्षत्र । तीणइं सोनइं किसिउं कीजइं जीणइं चूटइं कान, तीणइं उपाध्यायि किसिउं कीजइं जीणइं चूकइं ज्ञान, तीणइं ठाकुरि किसिउं कीजइं जीणइं पामीइं पगि पगि अपमान; तीणइं धर्मि किसिउं कीजइं जीणइं वाघइं मिथ्यात्ववाद, तीणइं वयरइं किसिउं कीजइं जीणि पाछइ ऊपजइ विषवाद, तीणि मित्रि किसिउं कीजइं जीणइं थाइं प्रमाद; तीणइं घरि किसिउं कीजइं जेहमाहि फूफूइ साप, तीणइं स्त्रीइं किसिउं कीजइं जेहतु नितु संताप, तीणइं रामतिइं किसिउं कीजइं जीणि कराइ पाप । बत्स मुझ भक्त व्यंतरि, मत्स्यमुखि अवतरी; तुम्हे जगाडिया, पुण्यमार्गि लगाडिया । हिव पाप परिहरउ, पुण्य करउ । तीणइं ऋषीश्वरि पुण्यतणी परठ कही, तेहे बिहुं प्रही । आख्या आपणइ घरि, करइं पुण्य नवनवीपरि; दिइं दान, धरइं अरिहंततणउं ध्यान; करइ सुगुरुभक्ति, जाणइं विवेकयुक्ति; करावइं प्रासाद,

पडावइं सन्नूकारि साद; पालइ सम्यक्त्व, जाणइ नवतत्त्व; करइं सामायक सार, स्मरइ पंचपरमोष्ठि नमस्कार, वे कुमार इसीपरि भरइं पुण्यभंडार । अन्यदा प्रस्तावि द्रोणि राजां तीह बिहुंहुइं राज्य दीधउं, आपणपइं राज्ञी-सहित चारित्र लीधउं । निर्मल चारित्र पाली भावविशेषि पातालि बलीन्द्र अवतरिउ, राणीइं इंद्राणि थईनइ तेहू जि अणसरिउ । हिव पूरणतणइ पद्मश्री इसिइ नामि हुई कलत्र, जे महासच्चरित्र । ते सागर पूरण पद्मश्री पुण्य करी पहुता देवलोकि, सौख्य भोगवी अवतरिया मनुष्यलोकि । सगरतणउ जीव हूउ तु सोमदेव नरेन्द्र, पूरणनउ जीव हूउ पृथ्वीचंद्र । पद्मश्री ईहां रत्नमंजरी अवतरी । पूर्वतणउं धर्म फलिउ, सर्वसंयोग मिलिउ ।

बिहुं नरेश्वरि ईणिपरि उपदेश सांभलिउ, श्रीधर्मनाथतीर्थकरि बली कहिउं । हिव सांभलउ जे पूछिया संदेह, तेहनु कीजइ छेह । जिसिइ समइ रत्न-मंजरी सरोवरतणी पालिइं पितातणइ उत्संगि बइठी, कुणरहइं देवातणी चिंता पइठी; तिसिइ अवसरि, बलींद्रदानवेश्वरि; ज्ञानिप्रमाणि, पूर्व जाणी, पुत्रपृथ्वीचंद्रनिमित्त राषिवा रत्नमंजरी हंसरूपिइं अपहरी आपणइ कन्हइ आणी । छमास पातालि स्थापी, पछइ अवसरि पाछी आपी । राजा पृथ्वीचंद्र-हुइं स्वप्न दीधउं, अटवी अनइ संग्रामांगणि महासान्निध्य कीधउं । अनइ स्वयं-वरि जेतलइ धूमकेतु राजां वेतालांधकार विस्तारीनइ रत्नमंजरी रथि घाती, तेतलइं बलींद्रतणी इंद्राणी ते मेलिहउ निपाती । छ प्रहर पातालि राषी, प्रभाति प्रकट करी दाषी; उहे दिषाडिउ पूर्वभवस्नेह, एतलइं टलियां सवे संदेह । अहो पृथ्वीचंद्र ताहरुं विशेषवंत छइ भाग्य, अद्भुत सौभाग्य । जेह कारणि गृहस्थवेषि हाथियइं चडतां ईणइ जि भवि ऊपजिसिइ केवलज्ञान, एह भणी ए भाग्य प्रधान । सोमदेवहुइं त्रीजइ भवि मुक्ति, इसी छइ युक्ति । ए बार्त्ता मनि धरी, श्रावकयोग्य धर्म आदरी, परमेश्वर नमस्कारी; वे नरेश्वर सपरिवारि स्वस्थानकि आव्या, परमेश्वरि विहारक्रम नीपजाव्या ।

हिव राजा पृथ्वीचंद्र सुसरउराउ मोकलावी रत्नमंजरीसहित आपणइ पुहिठाणपुरि पाटणि आव्या, प्रधानि प्रवेश महोत्सव कराव्या । सकल लोक हाट पाटण काज काम परिहरी आभरण चूटते, वेणीदंड छूटते; पटउले फाटते, घाटडे विणसते; धसमसाटि जोइवा धाइउ राजा महोत्सवसहित आपणइ आवासि आइउ । रत्नमंजरी पट्टराणी स्थापी, कीर्त्तिइं जगन्नयी व्यापी । राज्यसौभाग्य भोगवतां अवसरि रत्नमंजरी महीधर इसिइं नामिइं

पुत्र जन्मिउ । ते सर्वांगसुंदर, रूपिइं पुरंदर विवेकबंधुर राज्यधुरंधर सत्पुरुष-
सिंधुर नामि महीधर प्रवर्द्धमान हूउ । राजापृथ्वीचंद्ररहइं राज्य करतां नव-
लाष नवाणवइ सहस्र नवसइं नवोत्तर वरस अतिक्रम्यां । तिसिइ अवसारि
कानडदेसनउ राउ सिंहकेतु इसिइं नामिइं अकस्मात् पुहठाणपुरि पाटणि-
ऊपरि चडी आविउ, लोकरहइं आतंक ऊपजाविउ । तत्काल चरपुरुषि पृथ्वी-
चंद्ररहइं जणाविउ । ते सांभली राजापृथ्वीचंद्र कोपि करी करवाल ऊलालतु
सामहिउ, सुभटवर्ग गहगहिउ; भंभा वाजी, गगनांगण रहिउ गाजी ।
राजा आप जेतलइं हाथि चडिउ, तेतलइं मनि विमासण पडिउ । रे आत्मन
हुं बाह्यवइरी पूठिइं धाउं, अंतरंगवइरी पूठि न धाउं । कुण ए बुद्धि, किसी
शुद्धि, जीतउ जोईयइ क्रोध, जेहतउ चालइ विरोध; जीतु जोईयइ मान, जेह—
हुइं पर्वतनउं उपमान; जीती जोईयइ माया, जेहतु पामीयइ स्त्रीतणी काया;
जीतु जोईयइ लोभ, जेहतु संसारि समयक्षोभ; जीतु जोईयइ काम, जेहतु
फेडइं पुण्यतणउं ठाम । ईणिपरि नरेश्वरहुइं चींतवतां ऊपनउं शुक्लध्यान,
तत्काल ऊपनउं केवलज्ञान । आव्या देव, करइं सेव; वइरी समिउ, आवी
नमिउ; वाजइं वादित्र, महोत्सव विचित्र । देवे वेष दीधउ, राजऋषि लीधउ;
हंसजमलि, बइठउ सुवर्णकमलि; दिइ उपदेश, हूउ पुण्यतणउ निवेश । एके
आदरिउं सम्यक्त्व, एके श्रावकत्व; एके संयम, एके नियम । ईणिपरि लोक-
हुइं लाभ देई पृथ्वीमंडलि विहारक्रम करी पृथ्वीचंद्रि राजा सिद्धिसाम्राज्य
लीधउं, तेहतणइ पुत्रि महीधरि पहुठाणपुरि अखंडप्रतापि राज्य कीधउं ।
पृथ्वीचंद्रनरेश्वरतणउं चरित्र सांभली, मनतणी रली, वली; वली, विवेकवंति
पुण्यवंत लाभ लेवउ । जिसिइं पुण्यतणा प्रभावतउ सकल श्रीसंघहुइं श्रेय-
कल्याण ऋद्धिवृद्धिपरंपरा संपजइं ।

श्रीमदञ्चलगच्छे श्रीगुरुमाणिक्यसूरिणा ।

पृथ्वीचन्द्रनरेन्द्रस्य चरित्रं चारु निर्मितम् ॥

संवत् १४७८ वर्षे श्रावणसुदि ५ रवौ पृथ्वीचन्द्रचरित्रं पवित्रं पुरुषपत्तने निर्मितं समर्थितम् ।

यावन्मेरुर्मही यावत् यावच्चन्द्रदिवाकरौ ।

वाच्यमानो जनैस्तावदग्रन्थोऽयं भुवि नन्दतात् ॥

इति श्रीअञ्चलगच्छे श्रीमाणिक्यसुन्दरसूरिकृते श्रीपृथ्वीचन्द्रचरित्रे वाग्विलासे पञ्चम उल्लासः ।

खरतरपट्टावलीषट्पदानि

जिण दिट्ठइ आनंदु चडइ अइरहसु चउग्गुण ।
जिण दिट्ठइ फडहडइ पाउ तणु निम्मलु हुइ पुणु ।
जिण दिट्ठइ सुहु होइ कहु पुव्वुक्खिउ नासइ ।
जिण दिट्ठइ हुइ रिद्धि दूरि दालिहु पणासइ ।
जिण दिट्ठइ सुइ धम्ममइ अबुहहु कांइ उइक्खहहु ।
पहु नवफणमंडिउ पासजिणु अजयमेरि कि न पिक्खहहु ॥ १ ॥
मयण म करि धरि धणुहु बाण पुणि पंचम पयडहि ।
रूविण पिम्मपयावि बंभहरिहरु मन विणडहि ।
रूउ पिम्म ता बाग मयण तायरिसहि धणहरु ।
नवफणमंडिउसीस जाव न हु पिक्खिउ जिणवरु ।
जइ पडिहसि पासजिणिंदवसि नाणवंत णिम्मलरयण ।
तसु धणुहरु बाण न रूप नहि न भुयप्पिम्मु हुइ हइमयण ॥ २ ॥
नवफणिपासजिणिंदु गढिउ अन्नल्लि जु दिट्ठउ ।
अजयमेरि संभरिनरिंदु ता नियमनि तुट्ठउ ।
कंचणमउ अह कलसु सिहरि साणउ रज्जवियउ ।
जणु सुतरणि तउ तवइ तिब्बु आयासिसउन्नउ ।
जा बुज्जुमिसिण ढक्कारविण कर उज्झिक्खि फरहरइ धर ।
जिणदत्तसूरि धर धवलि जसि ता पसिद्धि सुरभवणि कय ॥ ३ ॥
देवसूरिपहु नेमिचंदु बहुगुणिहि पसिद्धउ ।
उज्जोयणु तह वद्धमाणु खरतरवर लद्धउ ।
सुगुरु जिणेसरसूरि नियमि जिणचंदु सुसंजमि ।
अभयदेव सब्वंगु नाणि जिणवल्लह आगमि ।
जिणदत्तसूरि ठिउ पट्टि तहि जिण उजोइउ जिणचलणु ।
सावइहि परिक्खिक्खि परिवरिउ मुल्लि महग्घउ जिम रयणु ॥ ४ ॥
धणुहर धयवड धरिय सार सिंगार सुसज्जिय ।
सोहग्गिण गुडगुडिय पंच वर पडिम निमज्जिय ।
तियड अ तेअ अग्गलिय पिम्मपडिकारनिरुत्तिय ।
रइरणरहसुच्चलिय गरुयमाणिण मइ अन्निय ।
करि कडयड मुणिमहिवइहि रहिअ रूअ संपुन्नभय ।
जिणदत्तसूरिसीहह भयण मयणकरडिघड विहडि गय ॥ ५ ॥
तवतलप्फभीसणह धम्मधीरिमसुविसालह ।

संजमसिरभासुरह दुसहवयदाढकरालह ।
 नाणनयणदारुणह नियमनिसनहरसमिद्धह ।
 कम्मकोवणिट्टुरह विमलपुच्छपसिद्धह ।
 उपसमणउपरधरदुन्विसह गुणगुंजारवजीहह ।
 जिणदत्तसूरि अणुसरह पय पापकरडिघडसीहह ॥ ६ ॥
 जरजलबहलरउइ लोहलहरिहिं गज्जंतउ ।
 मोहमच्छउच्छल्लिउ कोवकल्लोल वहंतउ ।
 मयमयरिहि परिवरिउ वंचबहुवेलदुसंचरु ।
 गंधगरुयगंभीरु असुहआवत्तभयंकरु ।
 संसारसमुहु जु एरिसउ जसु पुणु पिक्खिवि सुदरियइ ।
 जिणदत्तसूरिउवएसु सुणि त परतरंडइ सुतरियइ ॥ ७ ॥
 सावय किवि कोयलिय केवि खरहरिय पसिद्धिय ।
 ठाइ ठाइ लक्खियहि मूढ नियवित्तिविरुद्धिय ।
 दरहि न किंपि परत्त बेवि सुपरुप्पर जुज्झहि ।
 सुगुरु कुगुरु मणि सुणिवि न किवि पटंतरु बुज्झहि ।
 जिणदत्तसूरि जिन नमहि पयपउम सच्चु नियमणि वहहि ।
 संसारउयहि दुत्तरि पडिय जि न हु तरंडइ चडि तरहि ॥ ८ ॥
 तवसंजमसयनियमि धम्मकम्मिण वावरियउ ।
 लोहकोहमयमोह तह व सप्पिहि परिहरियउ ।
 विसमच्छंदलक्खणिण सत्थअत्थत्थविसालह ।
 जिणवल्लहगुरुभत्तिवंतु पयडउ कलिकालह ।
 अन्निहिवि गुणिहि संपुन्नतणु दीणदुहियउद्धरणु धर ।
 जिणदत्तसूरि पर पल्ह भणु तत्तवंत सलहियइ धर ॥ ९ ॥
 वक्खाणियइ परमतत्तु जिण पाउ पणासइ ।
 आराहियइ त वीरनाह कइपल्हु पयासइ ।
 धम्मु त दयसंजुत्तु जेण वरगइ पाविज्जइ ।
 चाउ त अणखंडियउ जु बंदिण सलहिज्जइ ।
 जइ ठाइ त उत्तिममुणिवरह पवरवसहिहो चउर नर ।
 तिम सुगुरुसिरोभणि सूरिवर खरतरसिरिजिणदत्त वर ॥ १० ॥

इति श्रीपट्टावलीषट्पदानि । संवत् ११७० वर्षे अश्वयुगाद्यपक्षे ११ तिथौ श्रीमद्धारानगर्या
 श्रीखरतरगच्छे विधिमार्गप्रकाशिवसतिवासिश्रीजिणदत्तसूरीणां
 शिष्येण जिनरक्षितसाधुना लिखितानि ।

APPENDIX I

श्रीवस्तुपालतीर्थयात्रावर्णनम्

अयं क्षुब्धक्षीरार्णवनवसुधासन्निभचिता-

नुपाकर्ण्यार्कर्णानुपदमुपदेशानिति गुरोः ।

समस्तध्वस्तैना जनितजिनयात्रापरिकरो

ऽकरोत्सुस्थं प्रास्थानिकविधिमधीशो मतिमताम् ॥ १ ॥

श्लाघ्योऽतिसङ्घसहितः स हितः प्रजानां श्रीमानथ प्रथमतीर्थकृदेकचित्तः ।

सम्भाषणाद्भुतसुधाभवचाश्चचार वाचालवारिदपथो रथचक्रनादैः ॥ २ ॥

सान्द्रैरुपर्युपरिवाहपदाग्रजाग्रदूलीपटैर्ज्ञेदिति कुट्टिमतामटङ्गिः ।

मार्गे निरुद्धखरदीधितिधामसङ्घे सङ्घस्तदा भवनगर्भ इवावभासे ॥ ३ ॥

नाभेयप्रभुभक्तिभासुरमनाः कीर्त्तिप्रभाशुभ्रिमा-

काशः काशहृदाभिधेऽथ विदधे तीर्थं निवासानसौ ।

चक्रे चारुमना जिनार्चनविधिं तद्रह्यचर्यव्रता-

रम्भस्तम्भितविष्टपत्रयजयश्रीधामकामस्मयः ॥ ४ ॥

पुष्टिभक्तिभरतुष्टया रयादम्बया हततमःकदम्बया ।

एत्य दृक्पथमथ प्रतिश्रुतं सन्निधिं समधिगम्य सोऽचलत् ॥ ५ ॥

ग्रामे ग्रामे पुरि पुरि पुवरोत्तिभिर्मर्त्यमुख्यैः

कलृसप्रावेशिकविधितता व्योम्नि पश्यन्पताकाः ।

सूर्त्ताः कीर्त्तिरियममनुत प्रौढनृत्तप्रपञ्च-

व्यापल्लीलाद्भुतभुजलतावर्णनीयाः स्वकीयाः ॥ ६ ॥

अध्यावास्य नमस्यकीर्त्तिविभवः श्रीसङ्घमंहस्तमः-

स्तोमादित्यमुपत्यकापरिसरे श्रीमल्लदेवानुजः ।

श्रीनाभेयजिनेशदर्शनसमुत्कण्ठोल्लसन्मानस-

ह्रस्यन्मोहमथारुरोह विमलक्षोणीधरं धीरधीः ॥ ७ ॥

तत्र स्नानमहोत्सवव्यसनिनं मार्त्तण्डचण्डशुति-

क्रान्तं सङ्घजनं निरीक्ष्य निखिलं सान्द्रीभवन्मानसः ।

सद्यो माद्यदमन्दमेदुरतरश्रद्धानिधिः शुद्धधीः

मन्त्रीन्द्रः स्वयमिन्द्रमण्डपमयं प्रारम्भयामासिवान् ॥ ८ ॥

मन्त्री मौलौ किल जिनपतेश्चित्रचारित्रपात्रं

स्नानं कृत्वा कलशालुठितैः स्मेरकाश्मीरनीरैः ।

चक्रे चञ्चन्मृगमदमयालेपनस्वर्णभूषा-

वर्णैः पूजाकुसुमवसनैस्तं स कल्पद्रुकल्पम् ॥ ९ ॥

मन्त्रीशेन जिनेश्वरस्य पुरतः कर्पूरपूरागुरु-

ग्लोषप्रेङ्खितधूपधूमपटलैः सा कापि तेने मुदा ।

यावद्दृढमहाध्वजप्रणयिनी स्वर्लोककल्लोलिनी

मिश्रेयं रविकन्यकेति वियति प्रत्यक्षमुत्प्रेक्ष्यते ॥ १० ॥

इत्थं तत्र विधाय निर्मलमनाः सन्मानदानक्रियां

सानन्दप्रमदाकुलां कुलनभोमाणिक्यमष्टाहिकाम् ।

विघ्नोन्मर्दिकपर्दिद्यक्षविहितप्रत्यक्षसान्निध्यतः

श्रद्धावर्द्धितसम्मदादुदतरन्मन्त्रीश्वरो भूधरात् ॥ ११ ॥

अजाहराख्ये नगरे च पार्श्वपादानजापालनृपालपूज्यान् ।

अभ्यर्चयन्नेष पुरे च कोडीनारे स्फुरत्कीर्त्तिकदम्बमम्बाम् ॥ १२ ॥

देवपत्तनपुरे पुरन्दरस्तूयमानममृतांशुलाञ्छनम् ।

अर्चयन्नुचितचातुरीचितः कामनिर्मथननिर्मलद्युतिम् ॥ १३ ॥

प्रीतस्फीतरुचिश्चिराय नयनैर्वामभ्रुवां वामन-

स्थल्यामेष मनोविनोदजननं क्लृप्तप्रवेशं पुरि ।

धीमान्निर्मलधर्मनिर्मितिसमुल्लासेन विस्मापयन्

दैवं रैवतकाधिरोहमकरोत्सङ्घेन सङ्घेश्वरम् ॥ १४ ॥ (विशेषकम्)

गजेन्द्रपदकुण्डस्य तत्र पीयूषहारिभिः ।

चकार मज्जनं मन्त्री वारिभिः पापहारिभिः ॥ १५ ॥

जिनमज्जनसज्जसज्जनं कलशन्यस्ततदम्बुकुडुमम् ।

अथ सङ्घमवेक्ष्य सङ्घटे विदधे वासवमण्डपोद्यमम् ॥ १६ ॥

संरम्भसङ्घटितसङ्घजनौघट्टामष्टाहिकामयमिहापि कृती वितेने ।

सद्भूतभावभरभासुरचित्तवृत्तिरुद्वृत्तकीर्त्तिचयचुम्बितदिक्कदम्बः ॥ १७ ॥

लुम्पन् रजो विजयसेनमुनीशपाणिवासप्रवासितकुवासनभासमानः ।

सम्यक्त्वरोपणकृते विततान नन्दिमानन्दमेदुरमयं रमयन्मनांसि ॥ १८ ॥

दानैरानन्य बन्दिब्रजमसृजदनिर्वारमाहारदानं

मानि सम्मान्य साधूनपुषदपि मुखोद्धाटकर्मदिकानि ।

मन्त्री सत्कृत्य देवार्चनरचनपरानर्चयित्वायमुच्चै-

रम्बाप्रद्युम्नशाम्बानिति कृतसुकृतः पर्वतादुत्तार ॥ १९ ॥

असाधि साधर्मिकमानदानैरनेन नानाविधधर्मकर्म ।

अबाधि सा धिक्करणेन माया निर्माय निर्मायमनः सुपूजाम् ॥२०॥

पुरः पुरः पूरयता पर्यासि घनेन सान्निध्यकृता कृतीन्दुः ।

स्वकीर्त्तिवन्नव्यनदीर्ददर्श ग्रीष्मेऽतिभीष्मेऽपि पदे पदेऽसौ ॥२१॥

इति प्रतिज्ञामिव नव्यकीर्त्तिप्रियः प्रयाणैरतिवाह्य वीथीम् ।

आनन्दनिस्यन्दविधिर्विधिज्ञः पुरं प्रपेदे धवलककं सः ॥ २२ ॥

समं तेजःपालान्वितपुरजनैर्वीरधवल-

प्रभुः प्रत्युद्यातस्तदनु सदनं प्राप्य सुकृती ।

युतः सङ्घेनासौ जिनपतिमथोत्तार्य रथत-

स्ततः सङ्घस्यार्चामशनवसनाद्यैर्व्यरचयत् ॥ २३ ॥

अथ प्रसादाद्भूभर्तुः प्राप्य वैभवमद्भुतम् ।

मन्त्रीशः सफलीचक्रे स्वमनोरथपादपम् ॥ २४ ॥

भक्त्याखण्डलमण्डपं नवनवश्रीकेलिपर्यङ्किा-

वर्यं कारयति स्म विस्मयमयं मन्त्री स शत्रुञ्जये ।

यत्र स्तम्भनरैवतप्रभुजिनौ शाम्बाम्बिकालोकन-

प्रद्युम्नप्रभृतीनि किञ्च शिखराण्यारोपयामासिवान् ॥ २५ ॥

गुरुपूर्वजसम्बन्धिभिन्नमूर्त्तिकदम्बकम् ।

तुरङ्गसङ्गतं मूर्त्तिद्वयं स्वस्यानुजस्य च ॥ २६ ॥

शातकुम्भमयान् कुम्भान्पञ्च तत्र न्यवेशयत् ।

पञ्चधा भोगसौख्यश्रीनिधानकलशानिव ॥ २७ ॥

सौवर्णं दण्डयुग्मं च प्रासादद्वितये न्यधात् ।

श्रीकीर्त्तिकन्दयोरुद्यन्नूतनाङ्कुरसोदरम् ॥ २८ ॥

कुन्देन्दुसुन्दरप्रावपावनं तोरणद्वयम् ।

इहैव श्रीसरस्वत्योः प्रवेशायैव निर्ममे ॥ २९ ॥

अर्कपालितकं ग्राममिह पूजाकृते कृती ।

श्रीवीरधवलक्ष्मापाहापयामास शासने ॥ ३० ॥

श्रीपालिताख्ये नगरे गरीयस्तरङ्गलीलादलितार्कतापम् ।

तडागमागःक्षयहेतुरेतच्चकार मन्त्री ललिताभिधानम् ॥ ३१ ॥

हर्षोत्कर्षं न केषां मधुरयति सुधासाधुमाधुर्यगर्ज-

त्तोयः सोऽयं तडागः पथि मथितमिलत्पान्थसन्तापपापः ।

साक्षादम्भोजदम्भोदितमुदितसुखं लोलरोलम्बशब्दै-

रब्देव्यो दुग्धमुग्धां त्रिजगति जगदुर्यत्र मन्त्रीशकीत्तिम् ॥ ३२ ॥

पृष्ठपत्रं च सौवर्णं श्रीयुगादिजिनेशितुः ।

स्वकीयतेजःसर्वस्वकोशन्यासमिवार्पयत् ॥ ३३ ॥

प्रासादे निदधे काम्यकाञ्चनं कलशत्रयम् ।

ज्ञानदर्शनचारित्रमहारत्ननिधानवत् ॥ ३४ ॥

किञ्चैतन्मन्दिरद्वारि तोरणं तत्र पोरणम् ।

शिलाभिर्विदधे ज्योत्स्नागर्वसर्वस्वदस्युभिः ॥ ३५ ॥

लोकैः पाञ्चालिकानृत्तसंरम्भस्तम्भितेक्षणैः ।

इहाभिनीयते दिव्यनाट्यप्रेक्षाक्षणः क्षणम् ॥ ३६ ॥

प्रासादः स्फुटमच्युतैकमहिमा श्रीनाभिसूनुप्रभो-

स्तस्याग्रस्थितिरेककुण्डलकुलां धत्तेतरां तोरणः ।

श्रीमन्त्रीश्वर वस्तुपाल कलयन्नीलाम्बुरालम्बिता-

मत्युच्चैर्जगतोऽपि कौतुकमसौ नन्दी तवास्तु श्रिये ॥ ३७ ॥

अत्र यात्रिकलोकानां विशतां व्रजतामपि ।

सर्वथा सम्मुखैवास्ति लक्ष्मीरुपरिवर्त्तिनी ॥ ३८ ॥

यत्पूर्वैर्न निराकृतं सुकृतिभिः साम्मुख्यवैमुख्ययो-

द्धैतं तन्मम वस्तुपालसचिवेनोन्मूलितं दुर्यशः ।

आशास्तेऽद्भुततोरणोभयमुखी लक्ष्मीस्तदस्मै मुदा

श्रीनाभेयविभुप्रसादवशतः साम्मुख्यमेवाऽधुना ॥ ३९ ॥

तस्यानुजश्च जगति प्रथितः पृथिव्यामव्याजपौरुषगुणप्रगुणीकृतश्रीः ।

श्रीतेजपाल इति पालयति क्षितीन्दुमुद्रां समुद्ररसनावधिगीतकीर्त्तिः ॥ ४० ॥

समुद्रत्वं श्लाघेमहि महिमधाम्नोऽस्य बहुधा

यतो भीष्मग्रीष्मोपमविषमकालेप्यजनि यः ।

क्षणेन क्षीणायामितरजनदानोदकततौ

दयावेलाहेलाद्विगुणितगुणत्यागलहरिः ॥ ४१ ॥

वस्त्रापथस्य पन्थास्तपस्विनां ग्रामशासनोद्धारात् ।

येनापनीय नवकरमनवकरः कारयाञ्चक्रे ॥ ४२ ॥

पुण्योल्लासविलासलालसधिया येनात्र शत्रुञ्जये
श्रीनन्दीश्वरतीर्थमर्पितजगत्पावित्र्यमासूत्रितम् ।

एतच्चानुपमासरः परिसरोद्देशे शिलासञ्चय-
व्यानद्धोद्धतबन्धमुद्धरपयःकल्लोललुप्तक्रमम् ॥ ४३ ॥

स्फुटस्फटिकदर्पणप्रतिमतामिदं गाहते
मुधाकृतसुधाकरच्छविपवित्रनीरं सरः ।

विकस्वरसरोरुहप्रकरलक्ष्यतो लक्ष्यते
यदत्र सरिदङ्गनावदनबिम्बताडम्बरः ॥ ४४ ॥

शत्रुञ्जये यः सरसीं निवेद्य श्रीरैवताद्रौ च जडाधराणाम् ।
ग्रामस्य दानेन करं निवार्य सङ्घस्य सन्तापमपाचकार ॥ ४५ ॥

क्षोणीपीठमियद्रजःकणमियत्पानीयबिन्दुः पतिः
सिन्धूनामियदङ्गुलं वियदियत्ताला च कालस्थितिः ।

इत्थं तथ्यमवैति यस्त्रिभुवने श्रीवस्तुपालस्य तां
धर्मस्थानपरम्परां गणयितुं शङ्के न सोऽपि क्षमः ॥ ४६ ॥

एतत्सुवर्णरचितं विश्वालङ्करणमनणुगुणरत्नम् ।
सङ्घाधीश्वरचरितं हतदुरितं कुरुत हृदि संतः ॥ ४७ ॥

श्रीनागेन्द्रमुनीन्द्रगच्छतरणिः श्रीमान्महेन्द्रप्रभु-
र्जज्ञे क्षान्तिसुधानिधानकलशः पुण्याब्धिचन्द्रोदयः ।

सम्मोहोपनिपातकातरतरे विश्वेऽत्र तीर्थेशितुः
सिद्धान्तोऽप्यविभेद्यतर्कविषमं यं दुर्गमाशिश्रिये ॥ ४८ ॥

तत्सिंहासनपूर्वपर्वतशिरःप्रान्तोदयः कोऽप्यभू-
द्भास्वानस्तसमस्तदुस्तमतमाः श्रीशान्तिसूरिप्रभुः ।

प्रत्युज्जीवितदर्शनद्युतिलसद्भव्यौघपद्माकरं
तेजश्छन्नदिगम्बरं विजयते तद्यस्य लोकोत्तरम् ॥ ४९ ॥

आनन्दसूरिरिति तस्य बभूव शिष्यः
पूर्वापरः शमधनोऽमरचन्द्रसूरिः ।

धर्मद्विपस्य दशनाविव पापवृक्ष-
क्षोदक्षमौ जगति यौ विशदौ विभातः ॥ ५० ॥

अस्ताघवाब्धयपयोनिधिमन्दराद्रि-
मुद्रापुषोः किमनयोः स्तुमहे महिम्नः ।

बाल्येऽपि निर्दलितवादिगजौ जगाद

यौ व्याघ्रसिंहशिशुकाविति सिद्धराजः ॥ ५१ ॥

सिद्धान्तोपनिषन्निषण्णहृदयो धीजन्मसूस्तत्पदे

पूज्यः श्रीहरिभद्रसूरिरभवच्चारित्रिणामग्रणीः ।

भ्रान्त्वा शून्यमनाश्रयैरिव चिराद्यस्मिन्नवस्थानतः

सन्तुष्टैः कलिकालगौतम इति ख्यातिर्वितेने गुणैः ॥ ५२ ॥

श्रीविजयसेनसूरिस्तत्पट्टे जयति जलधरध्वानः ।

यस्य गिरो धारा इव भवदवभवदवथुविभवभिदः ॥ ५३ ॥

पञ्चासराह्वनराजविहारतीर्थे

प्रालेयभूमिधरभूतिधुरन्धरेऽस्मिन् ।

साक्षादधःकृतभवा तटिनीव यस्य

व्याख्येयमच्युतगुरुक्रमजा विभाति ॥ ५४ ॥

भवोद्भटवनावनीविकटकर्मवंशावलि-

च्छिदोच्छलितमौक्तिकप्रतिमकीर्तिकर्णाम्बरम् ।

असिश्रियमशिश्रियद्विततभीव्रतं यद्गतं

क्षितौ विजयतामयं विजयसेनसूरिर्गुरुः ॥ ५५ ॥

शिष्यं तस्य प्रशस्यप्रशमगुणनिधिं रभ्यदारण्यदाव-

ज्वालाजिह्वालदीसिर्भविकजनविपद्द्विवाद्दः कपर्दी ।

देवी चाम्बा निशीथे समसमयमुपागत्य हर्षाश्रुवर्षा-

मेयश्रेयःसुभिक्षाविति निजगदतुर्गद्गदोद्दामनादम् ॥ ५६ ॥

नाभूवन्कति नाम सन्ति कति नो नो वा भविष्यन्ति के

किं न कापि कदापि सङ्घपुरुषः श्रीवस्तुपालोपमः ।

यत्रेत्यं प्रहरन्नहर्निशमहो सर्वाभिसारोद्गुरो

येनायं विजितः कलिर्विदधता तीर्थेशयात्रोत्सवम् ॥ ५७ ॥

तस्मादस्य यशस्विनः सुचरितं श्रीवस्तुपालस्य य-

द्वाचास्माकममोघया किल यथाध्यक्षीकृतं सर्वथा ।

त्वं श्रीमद्बुदयप्रभ प्रथय तत् पीयूषसर्वङ्गैः

श्लोकैर्यत्तव भारती समभव.....यते ॥ ५८ ॥

इत्युक्त्वा गतयोस्तयोरथ पथो दृष्टेः प्रभातक्षणे

विज्ञाप्य स्वगुरोः पुरः सविनयं नम्रीभवन्मौलिना ।

प्राप्यादेशमसुं प्रभोर्विरचयामासे समासेदुषा

प्रागल्भीमुदयप्रभेण चरितं निस्यन्दरूपं गिराम् ॥ ५९ ॥

किञ्च श्रीमलधारिगच्छजलधिप्रोल्लासशीतद्युते-

स्तस्यश्रीनरचन्द्रसूरिसुगुरोर्माहात्म्यमाशास्महे ।

यत्पाणिस्मितपद्मवासविकसत्किञ्जल्कसंवासिताः

सन्तः सन्ततमाश्रिताः किल मया भृङ्गयेव भान्ति क्षितौ ॥ ६० ॥

श्रीधर्माभ्युदयाह्वयेऽत्र चरिते श्रीसङ्घर्भर्तुर्मया

दध्रे काव्यदलानि सङ्घटयितुं कर्मान्तिकत्वं परम् ।

किन्तु श्रीनरचन्द्रसूरिभिरिदं संशोध्य चक्रे जग-

त्पावित्र्यक्षमपादपङ्कजरजःपुञ्जैः प्रतिष्ठास्पदम् ॥ ६१ ॥

नित्यं व्योमनि नीलनीरजरुचौ यावत्त्रिषामीश्वरो

दिक्पालावलिबन्धुरे कुवलये यावच्च हेमाचलः ।

हृत्पद्मे विदुषामिदं सुचरितं तावन्नवाविर्भव-

त्सौरभ्यप्रसरं चिरं कलयतात् किञ्जल्कलक्ष्मीपदम् ॥ ६२ ॥

इति श्रीविजयसेनसूरिशिष्यश्रीमदुदयप्रभसूरिविरचिते श्रीधर्माभ्युदयनाम्नि श्रीसङ्घपतिच-

रिते लक्ष्म्यङ्के महाकाव्ये श्रीवस्तुपालतीर्थयात्रोत्सववर्णनो नाम पञ्चदशः सर्गः ।

मुक्तेर्मार्गे यदेतद्विरचितमुचितं सङ्घर्भर्तुश्चरित्रं

सत्रं पावित्र्यपात्रं पथिकजनमनःखेदविच्छेदहेतुः ।

अस्मिन्सौरभ्यगर्भामसमरसवतीं सत्कथां पान्यसार्थाः

प्राप्य श्रीवस्तुपाल प्रवरनवरसास्वादमास्वादयन्ति ॥ ? ॥

प्रीशारदैकसदनं हृदयालवः के नो सन्ति हन्त सकलासु कलासु निष्णाः ।

ऽऽहृक्परस्य ददृशे सुकवित्वतत्त्वबोधाय बुद्धिविभवस्तु न वस्तुपालात् ॥ २ ॥

नैव व्यापारिणः के विदधति करणग्राममात्मैकवश्यं

लेभे सद्योगसिद्धेः फलममलमलं केवलं वस्तुपालः ।

आकल्पस्थायि धर्माभ्युदयनवमहाकाव्यनाम्ना यदीयं

विश्वस्थानन्दलक्ष्मीमिति दिशति यशोधर्मरूपं शरीरम् ॥ ३ ॥

APPENDIX II.

रेवयकप्पसंखेवो

सिरिनेमिजिणं सिरसा नमिउं रेवयगिरीसकप्पमि ।

सिरिवइरसीसभणिअं जहा य पालित्तएणं च ॥ ? ॥

छत्तसिलाइसमीवे सिलासणे दिक्कं पडिवन्नो नेमी, सहसंबवणे केवल-
नाणं, लक्कारामे देसणा, अवलोअणं उद्धसिहरे निव्वाणं । रेवयमेह्लाए कण्हो
तत्थ कल्लाणतिगं काऊण सुवन्नरयणपडिमालंकिअं चेइअतिगं जीवंतसा-
मिणो अंबादेविं च कारेइ । इंदो वि वज्जेण गिरिं कोरेऊण सुवन्नबलाणयं
रूपमयं चेईअं रयणमया पडिमा पमाणवन्नोववेया, सिहरे अंबा रंगमंडवे अव-
लोअणसिहरं बलाणयमंडवे संबो एयाइं कारेइ । सिद्धविणायगो पडिहारो;
तप्पडिरूवं श्रीनेमिसुखात् निर्वाणस्थानं ज्ञात्वा निर्वाणादनन्तरं कण्हेण ठा-
विअं । तहा सत्त जायवा दामोयरानुखा कालमेह १ मेहनाद २ गिरि-
विदारण ३ कपाट ४ सिंहनाद ५ खोडिक ६ रेवया ७ तिच्चवतवेणं कीडणेणं
खित्तवाला उववन्ना । तत्थ य मेहनादो समहिट्ठी नेमिपयभत्तिजुत्तो चिट्ठइ ।
गिरिविदारणेणं कंचणबलाणयंमि पंच उद्धारा विउच्चिआ । तत्थेगं अंबापुरओ
उत्तरदिसाए सत्तहिअसयकमेहिं गुहा । तत्थ य उववासतिगेणं बलिविहाणेणं
सिलं उप्पाडिऊण मज्जे गिरिविदारणपडिमा । तत्थ य कमपण्णासं गए
बलदेवेणं कारिअं सासयजिणपडिमारूवं नमिऊण, उत्तरदिसाए पण्णासकमं
वारीतिगं । पढमवारिआए कमसयतिगं गंतूण, गोदोहिआसणेणं पविसिऊण,
उपवासपंचगं भमररूवं दारूणं सत्तेणं उप्पाडिऊणं, कम्मसत्ताओ अहोमुहं
पविसिऊण, बलाणयमंडवे इंदादेसेण धणयजक्कारियं अंबादेविं पूइऊण,
सुवण्वजालीए ठायव्वं । तत्थट्टिएणं सिरिमूलनाहो नेमिजिणिंदो वंदिअव्वो ।
वीअवारीए एगं पायं पूइत्ता, सयंवरवावीए अहो कमचालीसं गमित्ता, तत्थ णं
मज्झवारीए कमसत्तसएहिं कूवो । तत्थ वरहंसट्टिअत्तेण इहावि मूलनायगो
वंदेयव्वो । तइअवारीए मूलदुवारपवेसो अंबाएसेण न अन्नहा । एवं कंचण-
बलाणयमगो । तत्थ य अंबापुरओ हत्थवीसाए विवरं । तत्थ य अंबाएसेण
उववासतिगेणं सिलुग्घाडणेण हत्थवीसाए संपुडसत्तगं समुग्गयपंचगं अहो
रसकूविआ अमावसाए अमावसाए उग्घडइ । तत्थ य उववासतिगं काऊण

त्वाएसेण पूयणेण बलिविहाणेणं गिण्हयन्वं । तथा य जुण्णकूडे उववास-
 त्तं काऊण सरलमग्गेण बलिपूअणेणं सिद्धविणायगो उवलब्भइ । तत्थ य
 वृत्तिअसिद्धी दिनमेगं ठाएयन्वं । जइ तथा पच्चस्को हवइ तथा रायमईगुहाए
 मसएणं गोदोहिआए रसकूविआ कसिणचित्तयवल्ली राइमईए पडिमा
 यणमया अंबाया रूपमयाओ अणेगओसहीओ अ चिट्ठंति । तह छत्तसिलाघं-
 सिलाकोडिसिलातिगं पणत्तं । छत्तसिलं मज्झं मज्झेणं कणयवल्ली सहस्संब-
 णमज्झे रययसुवण्णमयचउवीसं लक्कारामे वावत्तरीचउवीसजिणाण गुहा प-
 णत्ता । कालमेहस्स पुरओ सुवण्णवालुआए नईए सट्टकमसयतिगेण उत्तरदि-
 ण्ण गमित्ता गिरिगुहं पविसिऊण उदए ण्हवणं काऊण, बिए उववासपओएहिं
 वारसुग्घाडेइ । मज्झे पढमदुवारे सुवण्णखाणी, दुइअदुवारे रयणखाणी,
 ष्ठहेउं अंबाए विउव्विआ । तत्थ पण कण्हभंडारो । अण्णो दामोदरसमीवे ।
 अंजणसिलाए अहोभागे रययसुवण्णधूली पुरिसवीसेहिं पणत्ता ।

तस्सत्थमणे मंगलयदेवदालीय संतु रससिद्धी ।
 सिरिवइरोवक्कायं संघसमुद्धरणकज्जंमि ॥
 सस्सकडाहं मज्झे गिण्हत्ता कोडिबिंदुसंयोगे ।
 घंटसिलाचुण्णयजोयणाओ अंजणसिद्धी ।
 विज्जापाहुडुद्देसाओ रेवयकप्पसंखेवो सम्मत्तो ॥

APPENDIX III.

श्रीउज्जयन्तस्तवः

नामभिः श्रीरैवतकोज्जयन्ताद्यैः प्रथामितम् ।
श्रीनेमिपावितं स्तौमि गिरिनारं गिरीश्वरम् ॥ १ ॥
स्थाने देशः सुराष्ट्राख्यां विभर्ति भुवनेष्वसौ ।
यद्भूमिकामिनीभाले गिरिरेष विशेषकः ॥ २ ॥
शृङ्गारयन्ति खङ्गारदुर्गं श्रीऋषभादयः ।
श्रीपार्श्वस्तेजलपुरं भूषितैतदुपत्यकम् ॥ ३ ॥
योजनद्वयतुङ्गेऽस्य शृङ्गे जिनगृहावलिः ।
पुण्यराशिरिवाभाति शरच्चन्द्रांशुनिर्मला ॥ ४ ॥
सौवर्णदण्डकलशामलसारकशोभितम् ।
चारु चैत्यं चकास्यस्योपरि श्रीनेमिनः प्रभोः ॥ ५ ॥
श्रीशिवासूनुदेवस्य पादुकाऽत्र निरीक्षिता ।
स्पृष्टाऽर्चिता च शिष्टानां पापव्यूहं व्यपोहति ॥ ६ ॥
प्राज्यं राज्यं परित्यज्य जरत्तृणमिव प्रभुः ।
बन्धून्विधूय च स्निग्धान् प्रपेदेऽत्र महाव्रतम् ॥ ७ ॥
अत्रैव केवलं देवः स एव प्रतिलब्धवान् ।
जगज्जनहितैषी स पर्यणैषीच्च निर्धृतिम् ॥ ८ ॥
अत एवात्र कल्याणत्रयमन्दिरमादधे ।
श्रीवस्तुपालो मन्त्रीशश्चमत्कारितभव्यहृत् ॥ ९ ॥
जिनेन्द्रबिम्बपूर्णेन्द्रमण्डपस्था जना इह ।
श्रीनेमेर्मज्जनं कर्तुमिन्द्रा इव चकासति ॥ १० ॥
गजेन्द्रपदनामास्य कुण्डं मण्डयते शिरः ।
सुधाविधैर्जलैः पूर्णं स्नानार्हत्स्नपनक्षमैः ॥ ११ ॥
शश्रुञ्जयावतारेऽत्र वस्तुपालेन कारिते ।
ऋषभः पुण्डरीकोऽष्टापदो नन्दीश्वरस्तथा ॥ १२ ॥
सिंहयाना हेमवर्णा सिद्धबुद्धसुतान्विता ।
कम्लाम्रलुम्बिभृत्पाणिरत्राम्बा सङ्घविघ्नहृत् ॥ १३ ॥

श्रीनेमिपत्पद्मपूतमवलोकननामकम् ।
 विलोकयन्तः शिखरं यान्ति भव्याः कृतार्थताम् ॥ १४ ॥
 शाम्बो जाम्बवतीजातस्तुङ्गे शृङ्गेऽस्य कृष्णजः ।
 प्रद्युम्नश्च महाद्युम्नस्तेपाते दुस्तपं तपः ॥ १५ ॥
 नानाविधौषधिगणा जाज्वलन्त्यत्र रात्रिषु ।
 किञ्च घण्टाक्षरच्छत्रशिलाः शालन्त उच्चकैः ॥ १६ ॥
 सहस्राम्रवर्णं लक्षारामोऽन्येपि वनव्रजाः ।
 मयूरकोकिलाभृङ्गीसङ्गीतिसुभगा इह ॥ १७ ॥
 न स वृक्षो न सा वल्ली न तत्पुष्पं न तत्फलम् ।
 नेक्ष्यतेऽत्राभियुक्तैर्यदित्यैतिह्यविदो विदुः ॥ १८ ॥
 राजीमती गुहागर्भं कैर्न नामात्र वन्द्यते ।
 रथनेमिर्ययोन्मार्गात्सन्मार्गमवतारितः ॥ १९ ॥
 पूजास्नपनदानानि तपश्चात्र कृतानि वै ।
 सम्पद्यन्ते मोक्षसौख्यहेतवो भव्यजन्मिनाम् ॥ २० ॥
 दिग्भ्रमावपि योऽत्राद्रौ काप्यमार्गेऽपि सञ्चरन् ।
 सोऽपि पश्यति चैत्यस्था जिनेर्चाः-स्नपितार्चिताः ॥ २१ ॥
 काश्मीरागतरत्नेन कृष्णाम्ण्ड्यादेशतोऽत्र च ।
 लेप्यबिम्बास्पदे न्यस्ता श्रीनेमेर्मूर्त्तिराश्मनी ॥ २२ ॥
 नदीनिर्झरकुण्डानां खनीनां वीरुधामपि ।
 विदाङ्करोत्वत्र सङ्ख्याः सङ्ख्यावानपि कः खलु ॥ २३ ॥
 आसेचनकरूपाय महातीर्थाय तायिने ।
 चैत्यालङ्कृतशीर्षाय नमः श्रीरैवताद्रये ॥ २४ ॥
 स्तुतो मयेति सूरीन्द्रवर्णितावृजिनप्रभः ।
 गिरिनारस्तारहेमसिद्धिभूमिर्मुदेऽस्तु वः ॥ २५ ॥

इति श्रीउज्जयन्तस्तवः ॥

APPENDIX VI.
श्रीउज्जयन्तमहातीर्थकल्पः

अत्थि सुरट्टाविसए उज्जितो नाम पव्वओ रम्मो ।
 तस्सिहरे आरुहिउं भत्तीए नमह नेमिजिणं ॥ १ ॥
 अंबाइअं च देविं ण्हवणच्चणगंधधूवदीवेहिं ।
 पूहयकयप्पणामा ता जोअह जेण अत्थत्थी ॥ २ ॥
 गिरिसिहरं कुहरकंदरनिज्झरणकवाडविअडकूवेहिं ।
 जोएह खत्तवायं जह भणियं पुव्वसूरीहिं ॥ ३ ॥
 कंदप्पदप्पकप्परणकुगइविहवणनेमिनाहस्स ।
 निव्वाणसिला नामेण अत्थि भुवणंमि विक्काया ॥ ४ ॥
 तस्स य उत्तरपासे दसधणुहेहिं अहोमुहं विवरं ।
 दारंमि तस्स लिंगं अवयाणे धणुह चत्तारि ॥ ५ ॥
 तस्स पसुमुत्तगंधो अत्थि रसोपलसएण सयतंबं ।
 विंधेहि कुणइ तारं ससिकुंदसमुज्जलं सहसा ॥ ६ ॥
 पुव्वदिसाए धणुहंतरेसु तस्सेव अत्थि जागवई ।
 पाहाणमया दाहिणादिसागए बारसधणूहिं ॥ ७ ॥
 दिस्सइ अ तत्थ पयडो हिंगुलवण्णो अ दिव्वपवररसो ।
 विंधेइ सव्वलोहे फरिसेणं अग्गिसंगेणं ॥ ८ ॥
 उज्जिते अत्थि नई विहला नामेण पव्वई पडिमा ।
 दावेइ अंगुलीए फरिसरसो पव्वईदारं ॥ ९ ॥
 सक्कावयार उज्जितगिरिवरे तस्स उत्तरे पासे ।
 सोवाणपंतिआए पारेवयवणिणया पुढवी ॥ १० ॥
 पंचगव्वेण बद्धा पिंडीधमिआ करेइ वरतारं ।
 फेडइ दरिइवाहिं उत्तारइ दुक्ककंतारं ॥ ११ ॥
 सिहरे विसालसिंगे दीसंते पायकुट्टिमा जत्थ ।
 तस्सासन्ने सिहरे कव्वडहढपासहो तारं ॥ १२ ॥
 उज्जितरेवयवणे तत्थ य सुद्धारवानरो अत्थि ।
 सो वामकण्णछित्तो उग्घाडइ विवरवरदारं ॥ १३ ॥
 हत्थसएण पविट्ठो दिक्कइ सोवण्णवणिणआ रुक्का ।

नीलरसेण सवंता सहस्सवेही रसो नृणं ॥ १४ ॥
तं गहिऊण निअत्तो हणुवंतं छिवइ वामपाएण ।
सो ढक्कइ वरदारं जेण न जाणइ जणो को वि ॥ १५ ॥
उज्जितसिहरउवरिं कोहंडिहरं खु नाम विक्कायं ।
अवरेण तस्स य सिला तदुभयपासेसु ओसं तु ॥ १६ ॥
तं अयसितिल्लमीसं थंभइ पडिवायवंगिअं वंगं ।
दोगच्चवाहिहरणं परितुट्ठा अंबिआ जस्स ॥ १७ ॥
वेगवई नाम नई मणसिलवण्णाइ तत्थ पाहाणा ।
तो पिंडि धमिअ संते समसुद्धे होइ वरतारं ॥ १८ ॥
उज्जंते नाणसिला तस्स अहो कणयवण्णिआ पुढवी ।
बोकडयमुत्तपिंडी खइरंगारे भवे हेमं ॥ १९ ॥
नाणसिलाकयपुढवी पिंडीबद्धा य पंचगन्धेण ।
हढपाए वसइ रसो सहस्सवेही हवइ हेमं ॥ २० ॥
गिरिवरमासन्नठिअं आणीयं तिलविसारणं नाम ।
सिलबद्धगाढपीडे वे लक्का तत्थ दम्माणं ॥ २१ ॥
सेणा नामेण नई सुवण्णतित्थंमि लडुअपहाणा ।
पडिवाएण य सुच्चं करिंति हेमं न संदेहो ॥ २२ ॥
विल्लक्कयंमि नयरे मउहहरं अत्थि सेलगं दिव्वं ।
तस्स य मज्झंमि ठिओ गणवइरसकुंडओ उवरिं ॥ २३ ॥
उववासी कयपूओ गणवइओ वल्लिऊण पवररसो ।
षामाषेवी अत्थि अ थंभइ वंगं न संदेहो ॥ २४ ॥
सहसासवं ति तित्थं करंजरुक्केण मणहरं सम्मं ।
तत्थ य तुरयायारा पाहाणा तेसि दो भाया ॥ २५ ॥
इक्को पारयभाओ पिट्ठो सुत्तेण अंधमूसाए ।
धमिओ करेइ तारं उत्तारइ दुक्ककंतारं ॥ २६ ॥
अवलोअणसिहरसिला अवरेणं तत्थ वररसो सवइ ।
सुअपक्कसरिसवण्णो करेइ सुच्चं वरं हेमं ॥ २७ ॥
गिरिपज्जुन्नवघारे अंबिअआसमपयं च नामेण ।
तत्थ वि पीआ पुहवी हिमवाए होइ वरहेमं ॥ २८ ॥
नाणसिला उज्जिते तस्स य मूलंमि मट्ठिआ पीआ ।

साहामिअलेवेणं छायामुक्कं कुणइ हेमं ॥ २९ ॥
 उज्जितपढमसिहरे आरुहिउं दाहिणेण अवयरिउं ।
 तिणिण धणूसयमित्ते पूईकरं जं बिलं नाम ॥ ३० ॥
 उग्घाडिउं बिलं दिक्किऊण निउणेण तत्थ गंतव्वं ।
 दंडंतराणि बारस दिव्वरसो जंबुफलसरिसो ॥ ३१ ॥
 जउ घोलिअंमि भंडे सहस्सभाएण विंघए तारं ।
 हेमं करइ अवस्सं हट्टं तं सुंदरं सहसा ॥ ३२ ॥
 कोहंडिभवणपुव्वेण उत्तरे जाव तावसा भूमी ।
 दीसइ अ तत्थ पडिमा सेलमया वासुदेवस्स ॥ ३३ ॥
 तस्सुत्तरेण दीसइ हत्थेसु अ दससु पव्वई पडिमा ।
 अवराहमुहरअंगुट्ठिआइ सा दावए विवरं ॥ ३४ ॥
 नवधणुहाइं पविट्ठो दिक्कइ कूडाइं दाहिणुत्तरओ ।
 हरिआललक्कवण्णो सहस्सवेही रसो नूणं ॥ ३५ ॥
 उज्जिते नाणसिला विक्काया तत्थ अत्थि पाहाणं ।
 ताणं उत्तरपासे दाहिणय अहोमुहो विवरो ॥ ३६ ॥
 तस्स य दाहिणभाए दसधणुभूमीइ हिंगुलुयवण्णो ।
 अत्थि रसो सयवेही विंघइ सुच्चं न संदेहो ॥ ३७ ॥
 उसहरिसहाइकूडे पाहाणा ताण संगमो अत्थि ।
 गयवरलिंडाकिण्णा मज्जे फरिसेण ते वेही ॥ ३८ ॥
 जिणभवणदाहिणेणं नउई धणुहेहिं भूमिजलुअयरी ।
 तिरिमणुअरत्ताविद्धा पडिवाए तंबए हेमं ॥ ३९ ॥
 वेगवई नाम नई मणसिलवण्णा य तत्थ पाहाणा ।
 सुच्चस्स पंचवेहं सवन्ति धमिआ तयं सिग्घं ॥ ४० ॥
 ह्य उज्जयंतकप्पं अविअप्पं जो करेइ जिणभत्तो ।
 कोहंडिकयपणामो सो पावइ इच्छिअं सुक्कं ॥ ४१ ॥

श्रीउज्जयंतमहातीर्थकल्पः

APPENDIX V

रैवतकल्पः

पच्छिमदिसाए सुरट्टाविसाए रेवयपव्वयरायसिहरे सिरिनेमिनाहस्स भवणं उच्चुंगसिहरं अच्छइ । तत्थ किर पुन्वि भयवओ नेमिनाहस्स लिप्पमई पडिमा आसि । अन्नया उत्तरदिसाविभूसणकम्हीरदेसाओ अजियरयणना-
माणो दुन्नि बंधवा संघाहिवई होऊण गिरिनारमागया । तेहिं रहसवसाओ
घणघुसिणरससंपूरिअकलसेहिं ण्हवणं कयं । गलिआ लेवमई सिरिनेमिनाह-
पडिमा । तओ अईव अप्पाणं सोअंतेहिं तेहिं आहारो पच्चक्काओ । इक्क-
वीसउववासाणंतरं सयमागया भगवई अंबिआ देवी । उट्टाविओ संघवई ।
तेण देविं दट्टण जयजयसहो कओ । तओ भणिअं देवीए इमं बिंबं गिण्हिसु
परं पच्छा न पिच्छिअव्वं । तओ अजिअसंघाहिवइणा एगतंतुकड्डिअं रयणमयं
सिरिनेमिबिंबं कंचणबलाणए नीअं । पढमभवणस्स देहलीए आरोवित्ता अइ-
हरिसभरनिब्भरेणं संघवइणा पच्छाभागो दिट्ठो । ठिअं तत्थेव बिंबं निच्चलं ।
देवीए कुसुमवुट्ठी कया जयजयसहो अ कओ । एअं च बिंबं वइसाहपुन्निमाए
अहिणवकारिअभवणे पच्छिमदिसामुहे ठविअं संघवइणा । न्हवणाइमहूसवं
काउं अजिओ सबंधवो निअदेसं पत्तो । कलिकाले कलुसचित्तं जणं जाणि-
ऊण झलहलंतमणिमयबिंबस्स कंती अंबिआदेवीए छाइआ । पुन्वि गुज्जरध-
राए जयसिंहदेवेणं खंगाररायं हणित्ता सज्जणो दंडाहिवो ठाविओ । तेण य
अहिणवं नेमिजिणंदभवणं एगारससयपंचासीए विक्कमरायवच्छरे कारा-
विअं । मालवदेसमुहमंडणेणं साहुभावडेणं सोवण्णं आमलसारं कारिअं ।
चालुक्कचक्सिरिकुमारपालनरिंदसंठविअसोरट्टदंडाहिवेण सिरिसिरिमाल-
कुलुब्भवेण बारससयवीसे विक्कमसंवच्छरे पज्जा काराविआ । तब्भावुणा
धवलेण अंतराले पवा भराविआ । पज्जाए चडंतेहिं जणेहिं दाहिणदिसाए
लक्कारामो दीसइ । अणहिल्लवाडयपट्टणे य पोरवाडकुलमंडणा आसराय-
कुमरदेवित्तणया गुज्जरधराहिवइसिरिवीरधवलरज्जयुरंधरा वस्तुपालतेजपाल-
नामधिज्जा दो भायरो मंतिवरा हुत्था । तत्थ तेजपालमंतिणा गिरिनारतले
निअनामंकिअं तेजलपुरं पवरगढमढपवामंदिरआरामरम्मं निम्माविअं । तत्थ
य जणयनामंकिअं आसरायविहारु त्ति पासनाहभवणं काराविअं । जणणीना-
मेणं च कुमरसरु त्ति सरोवरं निम्माविअं । तेजलपुरस्स पुव्वदिसाए उग्गसेणगढं

नाम दुग्गं जुगाइनाहृप्पमुहजिणमंदिररेहिल्लं विज्जइ । तस्स य तिण्णि नाम-
धिज्जाइं पसिद्धाइं । तं जहा उग्गसेणगढं ति वा खंगारगढं ति वा ज्जुण्णदुग्गं
ति वा । गढस्स बाहिं दाहिणदिसाए चउरिआवेईलड्डुअओवरिआपसुवाडया-
इठाणाइं चिट्ठंति । उत्तरदिसाए विसालथंभसालासोहिओ दसदसारमंडवो ।
गिरिदुवारे य पंचमो हरी दामोअरो सुवण्णरेहानईपारे वट्टइ । कालमेहसमीवे
चिराणुवत्ता संघस्स बोलाविआ । तेजपालमंतिणा मिल्हाविआ । कमेण
उज्जयंतसेले वत्थुपालमंतिणा सित्तुज्जावयारभवणं अट्टावयसंमेअमंडवो कव-
डिजकमरुदेविपासाया य काराविआ । तेजपालमंतिणा कल्लाणत्तयचेइअं,
इंदमंडवो अ देपालमंतिणा उद्धाराविओ । एरावणगयपयमुहाअलंकिअं गइं-
पयकुंडं अच्छइ । तत्थ अंगं पक्कालित्ता दुक्काण जलंजलिं दिंति जत्तागय-
लोआ । छत्तसिलाकडणीए सहस्संबवणारामो, जत्थ भगवओ जायवकुलपई-
वस्स सिवासमुहविजयनंदणस्स दिक्कानाणनिव्वाणकल्लाणयाइं संजाआइं । गि-
रिसिहरे चडित्ता अंबिआदेवीए भवणं दीसइ । तत्तो अवलोअणं सिहरं । तत्थ-
ट्टिएहिं किर दसदिसाओ नेमिसामी अवलोइज्जति । तओ पढमसिहरे संबकु-
मारो बीअसिहरे पज्जुण्णो । इत्थ पव्वए ठाणे ठाणे चेइएसु रयणसुवण्णमय-
जिणबिंबाइं निच्चन्हविअच्चिआइं दीसंति । सुवण्णमेयणी अ अणेगघाउरसभे-
इणी दिप्पंती दीसइ । रत्तिं च दीवउव्व पज्जलंतीओ ओसहीओ अवलोइज्जंति ।
नाणाविहतरुवरवल्लिदलपुप्फफलाइं पए पए उवलब्भंति । अणवरयपझरंतनि-
द्धरण्णाणं खलहलारावा य मत्तकोयलभमरझंकारा य सुच्चंति त्ति ।

उज्जयंतमहातित्थकप्पसेसलवो इमो ।

जिणप्पहमुणिदेहिं लिहिओत्थ जहासुअं ॥

श्रीरैवतकल्पः समाप्तः

APPENDIX VI

अम्बिकादेवीकल्पः

सिरिउज्जयंतसिहरसेहरं पणमिऊण नेमिजिणं ।

कोहंडिदेविकप्पं लिहामि बुद्धोवएसाओ ॥

अत्थि सुरट्ठाविसये धणकणयसंपयजणसमिद्धं कोडीनारं नाम नयरं । तत्थ सोमो नाम रिद्धिसमिद्धो छक्कम्मपरायणो वेधागमपारगमो बंभणो हुत्था । तस्स धरिणी अंबिणी नाम महग्घसीलालंकारभूसियसरीरा आसि । तेसिं विसयसुहमणुहवंताणं उप्पन्ना दुवे पुत्ता पढमो सिद्धो बीओ बुद्धु त्ति । अन्नया समागए पिअरपक्के भट्टसोमेणं निमंतिआ बंभणा सद्धदिणे । कत्थ वि ते वेयमुच्चारन्ति, कत्थ वि आढवन्ति पिण्डपयाणं, कत्थ वि होमं करिंति वहसदेवं च । सम्पाडिआ सालिदालिवंजणपक्कन्नभेअखीरग्वण्डपमुहा जेमणा । अविणीए अ सासुआ ण्हाणं काउं पयट्ठा । तम्मि अवसरे एगो साहू मासोववास-पारणए भिक्खुट्ठा संपत्तो । तं पलोइत्ता हरिसभरनिभरपुलइअंगी उट्ठिआ अंबिणी । पडिलाभिओ तीए मुणिवरो भत्तिवहुमाणपुण्वं अहापवित्तेहि भत्त-पाणेहि । जाव गहिअभिक्को साहू वलिओ ताव सासुआ वि ण्हाऊण रसवई-ठाणमागया । न पिच्छइ पढमसिहं । तओ तीए कुविआए पुट्ठा वहुआ । तीए जहट्टिए वुत्ते अंबाडिआ सा अज्जूए । जहा पावे किमेयं तए कयं, अज्ज वि देवया न पूईआ अज्ज वि न भुंजाविआ विप्पा अज्ज वि न भरिआइं पिंडाइं अग्गसिहा तए किमत्थं साहुणो दिन्ना । तउ तीए भणिओ सन्वो वि वहअरो सोमभट्टस्स । तेण संरुट्ठेण अप्पच्छंदिअ त्ति निक्कालिआ गिहाओ । सा पडिभवदूमिआ सिद्धं करंगुलीए धरित्ता बुद्धं च कडीए चडावित्ता चलिआ नयराओ बाहिं । पंथे तिसाभिभूएहिं दारणहिं जलं मग्गिआ । जाव सा अंसुजलपुन्नलोअणा संवुत्ता ताव पुरओ ठिअं सुक्कसरोवरं तिस्सा अणग्गेणं सीलमाहप्पेणं तस्कणं जलपूरिअं जायं । पाइआ दोन्नि सीअलं नीरं । तओ छुहिएहिं भोअणं मग्गिआ बालएहिं । पुरओ सुक्कसहयारतरू तस्कणं फलि-ओ । दिन्नाइं फलाइं । अविणीए तेसिं जाया ते सुत्था । जाव सा चूअछायाए वीसमइ ताव जं जायं तं निसामेह जं तीए बालयाई पढमं जेमाविआ तेसिं मुत्तु-तरं पत्तलीओ तीए बाहिं उज्झिआओ आसि ताओ सीलमाहप्पाकंपिअमणाए सासणदेवयाए सोवन्नकच्चोलयरूवाओ कयाओ । जे अ उच्चिट्टिसित्थकणा भूमीए पडिआ ते मुत्तिआइं संपाईआई । अग्गसिहा य सिहरेसु तहेव

दंसिआ । एअमच्चभुअं सासुए दद्वूण निवेईअं सोमविप्पस्स सिद्धं च जहा
 वच्छ सुलक्षणा पइव्वया य एसा वहु ता पच्चाणोहिं एअं कुलहरं ति जणणीपे-
 रिओ पच्चायावानलडज्झंतमाणसो गओ वहुयं वालेउं सोमभट्टो । तीए पिट्टओ
 आगच्छन्तं दिअवरं निअवरं दद्वूण दिसाओ पलोईआओ । दिट्टओ अग्गओ
 मग्गकूवओ । तओ जिणवरं मणे अणुसरिऊण सुपत्तदाणं अणुमोअंतीए अप्पा
 कूवंमि झंपाविओ । सुहज्जवसाणेण पाणे चहऊण ऊप्पन्ना कोहंडविमाणे
 सोहम्मकप्पहिट्ठे चउहिं जोअणेहिं अंबीअदेवी नाम महड्डिआ देवी । विमाणना-
 मेणं कोहंडी वि भन्नइ । सोमभट्टेण वि तीसे महासईए कूवे पडणं दद्वं अप्पा
 तत्थेव झंपाविओ । सो अ मरिऊण तत्थेव जाओ देवो । आभिओगिअकम्मुणा
 सिंहरूवं विउव्वित्ता तीए चेव वाहणं जाओ । अन्ने भणंति अंबिणी
 रेवयसिहराओ अप्पाणं झंपावित्ता तप्पिट्टओ सोमभट्टो वि तहेव मओ ।
 सेसं तं चेव । सा य भगवई चउब्भुआ दाहिणहत्थेसु अंबलुंवि पासं च
 धारेइ वामहत्थेसु पुण पुत्तं अंकुसं च धारेइ उत्तत्तकणथसवणणं च वणण-
 मुव्वहइ सरीरे । सिरिनेमिनाहस्स सासणदेवय त्ति निवसइ रेवइगिरिसिहरे ।
 मउडकुंडलमुत्ताहलहाररणकंकणनेउराइसव्वंगीणाभरणरमणिज्जा पूरेइ सम्म-
 दिट्ठीण मणोरहे निवारेइ विग्घसंघायं । तीए मंतमंडलाईणि आरोहित्ताणं
 भविआणं दीसंति अणेगरूवाओ रिद्धिसिद्धिओ, न पहवंति भूअपिसायसा-
 इणीविसमग्गहा, संपज्जंति पुत्तकलत्तमित्तधणधन्नरज्जसिरिओ त्ति ।

अंबिआमंता इमे ।

वयवीअसकुलकुलजलहरिहयअकंतपेआइं ।

पणइणिवायावसिओ अंबिअदेवीइ अह मंतो ॥ १ ॥

धुवभुवणदेवि संबुद्धिपासअंकुसतिलोअपंचसरा ।

णहसिहिकुलकलअज्झासियमायापरपणामपयं ॥ २ ॥

वागुब्भवं तिलोअं पाससिणीहाउ तइअवन्नस्स ।

कूहंडअंबिआए नमु त्ति आराहणामंतो ॥ ३ ॥

एवं अन्ने वि अंबादेवीमंता अप्पररक्का वि सया सुरमणा जुग्गा मग्ग-
 खेमाइगोअरा य बहवो चिट्ठंति । तेअ तथा मंडलाणि अ इत्थ न भणिआणि
 गंधवित्थरभएणं ति गुरुमुहाओ नायव्वाणि ।

एअं अंबियदेवीकप्पं अविअप्पचित्तवित्तीणं ।

वायंतसुणंताणं पुज्जंति समीहिआ अत्था ॥ १ ॥

इति श्रीअंबिकादेवीकल्पः ।

APPENDIX VII.

श्रीगिरिनारकल्पः ।



वरधर्मकीर्तिविद्यानन्दमयो यत्र विनतदेवेन्द्रः ।
स्वस्तिश्रीनेमिरसौ गिरिनारगिरीश्वरो जयति ॥ १ ॥
नेमिजिनो यदुराजीमतीत्य राजीमतीत्यजनतो यम् ।
शिश्नाय शिवायासौ गिरि० ॥ २ ॥
स्वामी छत्रशिलान्ते प्रव्रज्य यदुच्चशिरसि चक्राणः ।
ब्रह्मावलोकनमसौ गिरि० ॥ ३ ॥
यत्र सहस्राश्रवणे केवलमाप्यादिशद्विभुर्धर्मम् ।
लक्षारामे सोऽयं गिरि० ॥ ४ ॥
निर्वृतिनितम्बिनीवरनितम्बसुखमाप यन्नितम्बस्थः ।
श्रीयदुकुलतिलकोऽयं गिरि० ॥ ५ ॥
बुद्धा कल्याणत्रयमिह कृष्णो रूप्यरुक्ममणिबिम्बम् ।
चैत्यत्रयमकृताऽयं गिरि० ॥ ६ ॥
पविना हरिर्यदन्तर्विधाय विवरं व्यधाद्रजतचैत्यम् ।
काञ्चनबलानकमयं गिरि० ॥ ७ ॥
तन्मध्ये रत्नमयीं प्रमाणवर्णान्वितां चकार हरिः ।
श्रीनेमेर्मूर्त्तिमसौ गिरि० ॥ ८ ॥
स्वकृतैतद्विम्बयुतं हरित्रिबिम्बं सुराः समवसरणे ।
न्यदधन्त यदन्तरसौ गिरि० ॥ ९ ॥
शिखरोपरि यत्राम्बाऽवलोकनशिरसि रङ्गमण्डपके ।
शम्बो बलानकेऽसौ गिरि० ॥ १० ॥
यत्र प्रद्युम्नपुरः सिद्धिविनायकसुरः प्रतीहारः ।
चिन्तितसिद्धिकरोऽसौ गिरि० ॥ ११ ॥
तत्प्रतिरूपं चैत्यं पूर्वाभिमुखं तु निर्वृतिस्थाने ।
यत्र हरिश्चक्रोऽसौ गिरि० ॥ १२ ॥
तीर्थेतिस्मरणाद् यत्र यादवाः सप्त कालमेघाद्याः ।
क्षेत्रपतामापुरसौ गिरि० ॥ १३ ॥

विभुमर्चति मेघरवो बलानकं गिरिविदारणश्चक्रे ।
 यत्र चतुर्द्वारमसौ गिरि० ॥ १४ ॥
 यत्र सहस्राभ्रवणांतरस्ति रम्या सुवर्णचैत्यानाम् ।
 चतुरधिकविंशतिरयं गिरि० ॥ १५ ॥
 द्वाससतिर्जिनानां लक्षारामेऽस्ति यत्र तु गुहायाम् ।
 सचतुर्विंशतिकासौ गिरि० ॥ १६ ॥
 वर्षसहस्रद्वितयं प्रावर्त्तत यत्र किल शिवासूनोः ।
 लेप्यमयी प्रतिमासौ गिरि० ॥ १७ ॥
 लेपगमेऽम्बादेशात्प्रभुचैत्यं यत्र पश्चिमाभिमुखम् ।
 रत्नोऽस्थापयतासौ गिरि० ॥ १८ ॥
 काञ्चनबलानकान्तः समवसृतेस्तन्तुनेह बिम्बमिदम् ।
 रत्नेनानीतमसौ गिरि० ॥ १९ ॥
 बौद्धनिषिद्धः सङ्घो नेमिनतौ यत्र मन्त्रगगनगतिम् ।
 जयचन्द्रमादिशदसौ गिरि० ॥ २० ॥
 तारां विजित्य बौद्धान्निहत्य देवानवन्दयत्संघम् ।
 जयचन्द्रो यत्रायं गिरि० ॥ २१ ॥
 नृपपुरतः क्षपणेभ्यः कुमार्युदितगाथयाम्बयार्प्यत यः ।
 श्रीसङ्घाय सदायं गिरि० ॥ २२ ॥
 नित्यानुष्ठानान्तस्ततोऽनुसमयं समस्तसङ्घेन ।
 यः पठ्यतेऽनिशमसौ गिरि० ॥ २३ ॥
 दीक्षाज्ञानध्यानव्याख्यानशिवावलोकनस्थाने ।
 प्रभुचैत्यपाचितोऽसौ गिरि० ॥ २४ ॥
 राजीमतीचन्द्रदरीगजेन्द्रपदकुण्डनागझर्यादौ ।
 यः प्रभुमूर्त्तियुतोऽयं गिरि० ॥ २५ ॥
 छत्राक्षरघण्टाञ्जनबिन्दुशिवशिलादि यत्रहार्यस्ति ।
 कल्याणकारणमयं गिरि० ॥ २६ ॥
 याकुड्यमात्यसञ्जनदण्डेशाद्या अपि व्यधुर्यत्र ।
 नेमिभवनोद्धृतिमसौ गिरि० ॥ २७ ॥
 कल्याणत्रयचैत्यं तेजःपालो न्यवीविशन्मन्त्री ।
 यन्मेखलागतमसौ गिरि० ॥ २८ ॥

श्रीगिरिनारकल्पः ।

शत्रुञ्जयसम्मेताष्टापदतीर्थानि वस्तुपालस्तु ।

यत्र न्यवेशयदसौ गिरि० ॥ २९ ॥

यः षड्विंशतिविंशतिषोडशदशकद्वियोजनाऽस्त्रशतम् ।

अरषट्क उच्छ्रितोऽयं गिरि० ॥ ३० ॥

अद्यापि सावधाना विदधाना यत्र गीतनृत्यादि ।

देवाः श्रूयन्तेऽसौ गिरि० ॥ ३१ ॥

विद्याप्राभृतकोद्धृतपादलिसकृतोज्जयन्तकल्पादेः ।

इति वर्णितो मयाऽसौ गिरिनारगिरीश्वरो जयति ॥ ३२ ॥

इति श्रीधर्मघोषसूरिकृतः श्रीगिरिनारकल्पः ।

APPENDIX VIII

Inscription of the reign of Alapkhan in the temple of Sthambhana Pārsvanātha at Cambay.

ॐ अहं संवत् १३६६ वर्षे प्रतापाक्रान्तभूतलश्रीअलावदीनसुरत्राण-
 प्रतिशरीरश्रीअल्पखानविजयराज्ये श्रीस्तंभतीर्थे श्रीसुधर्मास्वामिसंताननभो-
 नभोमणिसुविहितचूडामणिप्रभुश्रीजिनेश्वरसूरिपट्टालंकारप्रभुश्रीजिनप्रबोधसू-
 रिशिष्यचूडामणियुगप्रधानप्रभुश्रीजिनचंद्रसूरिसुगुरूपदेशेन ऊकेशवंशीयसा-
 हजिनदेवसाहसहदेवकुलमंडनस्य श्रीजेसलमेरौ श्रीपार्श्वनाथविधिचैत्यकारित-
 श्रीसम्मेतशिखरप्रासादस्य साहकेसवस्य पुत्ररत्नेन श्रीस्तंभतीर्थे निर्मापितस-
 कलस्वपक्षपरपक्षचमत्कारिनानाविधमार्गणलोकदारिद्र्यमुद्रापहारिगुणरत्नाकर-
 स्य गुरुगुरुतरपुरप्रवेशकमहोत्सवेन संपादितश्रीशत्रुंजयोज्जयंतमहातीर्थयात्रा-
 समुपार्जितपुण्यप्राग्भारेण श्रीपत्तनसंस्थापितकोहडिकालंकारश्रीशांतिनाथवि-
 धिचैत्यालयश्रीश्रावकपौषधशालाकारापणोपचितप्रसूमरयशःसंभारेण आत्-
 साहराजुदेवसाहबोलियसाहजेहडसाहलषपतिसाहगुणधरपुत्ररत्नसाहजयसिं-
 हसाहजगधरसाहसलषणसाहरत्नसिंहप्रमुखपरिवारसारेण श्रीजिनशासनप्र-
 भावकेण सकलसाधर्मिकवत्सलेन साहजेसलसुश्रावकेण कोहडिकास्थापनपूर्वं
 श्रीश्रावकपौषधशालासहितः सकलविधिलक्ष्मीविलासालयः श्रीअजितस्वामि-
 देवविधिचैत्यालयः कारित आचन्द्रार्कं यावन्नंदतात् ॥ शुभमस्तु । श्रीभूयात्
 श्रमणसंघस्य । श्रीः ।

APPENDIX IX

Inscriptions on the Satrunjaya Hill pertaining Samarā's installation of the image of Ādiśvara.

संवत् १३७१ वर्षे माहसुदि सोमे श्रीमदूकेशवंशे वेसटगोश्रीयसा०
सलषणपुत्रसा०आजडतनयसा०गोसलभार्यागुणमतीकुक्षिसंभवेन संघपति-
आसाधरानुजेन सा०लुणसीहाग्रजेन संघपतिसाधुश्रीदेसलेन पुत्रसा०सहज-
पालसा०साहणपालसा०सामंतसा०समरसा०सांगणप्रमुखकुटुम्बसमुदायोपेतेन
निजकुलदेवी (सच्चि) कामूर्तिः कारिता । यावद्गोमनि चंद्राकौ यावन्मेरुर्म-
हीतले । तावत् श्री (सच्च) का मूर्तिः.....

संवत् १३७१ वर्षे माहसुदि १४ सोमे.....ज्ञातीयराणकश्रीमहीपाल-
देवमूर्तिः.....संघपतिश्रीदेसलेन कारिता श्रीयुगादिदेवचैत्यालये ।

संवत् १३७१ वर्षे माहसुदि १४ सोमे श्रीमदूकेशवंशे वेसटगोत्रे सा०
सलषणपुत्रसा०आजडतनयसा०गोसलभार्यासा०गुणमतिकुक्षिसम्भूतेन संघ-
पतिसा०आशाधरानुजेन सा०लुणसीहाग्रजेन संघपतिसाधुश्रीदेसलेन सा०-
सहजपालसा०साहणपालसा०सामंतसा०समरसीहसा०सांगणसा०सोमप्रभृ-
तिकुटुंबसहायोपेतेन वृद्धभ्रातृसंघपतिआसाधरमूर्तिः श्रेष्ठिमाढलपुत्रीसं-
घ०रत्नश्रीमूर्तिसमन्विता कारिता । आशाधरः कल्पतरुब्रह्मोयमाशात्रिकं
पूरित..... । लंकृतबाहुयुगो युगादिदेवं प्रयतः प्रणौति ॥ चिरं नंदतात् ॥
॥ शुभं भवतु ॥

संवत् १४१४ वर्षे वैशाषसु १० गुरौ संघपतिदेसलसुतसा०समरस-
मरश्रीयुगं सा०सालिगसा०सज्जनसिंहाभ्यां कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीकङ्कसूरि-
शिष्यैः श्रीदेवगुप्तसूरिभिः । शुभं भवतु ॥

APPENDIX X

पेथडरासः

विणयवयणि वीनवउं देवि सामिणि वागेसरि
हंसगमणि आकाशभमणि तिहूयणि परमेसरि ।
वीरजिणिंदह नमीय चलण चउविहूश्रीसंधिहिं
कवडजक्क जक्काधिराज समरीय मनरंगिहिं ॥ १ ॥
कोडीयनयरनिवासिणी य वंदउं अंबिकदेवि ।
शासनदेवति मनि धरीय गुरुचलण नमेवि ॥ २ ॥
रास रमेवउ जिणभुवणि तालमेल ठवि पाउ ।
संघतलायन रोपीउ ए सभगिरि विभगिरि बेवि ॥ ३ ॥
निसुणउ धामी एकमनि महीयलिमज्झि पहाण ।
जास बोध निरवमतिलउ पेथ अगंजीयमाण ॥ ४ ॥
षिण एक तस गुण संभलउ संघपति साहसधीर ।
अकलीअ कलि जिम छेत्रीअ गरूउ गुहिर गंभीर ॥ ५ ॥
पोरूआडकुलिमंडणउ वर्द्धमाणकुलिलीह ।
चांडसीहकुलि अवतरीया पेथपमुह सुतसीह ॥ ६ ॥
जिम कंचण कसवटीयए पामिउ बहुगुणरेह ।
बंधवि पेथपरीषीयइ बहूअ कालि घरि एह ॥ ७ ॥
बइसीय पेथड पाटे बंधव बोलावइ
नरसीहरतनह कारे मनि मंत्र चलावइ ।
मणूयजन्म अतिदुलह अनइ श्रावयजम्म
जीव लहइ बहुपुण्य जगि जिणवरधम्म ॥ ८ ॥
घणकणरयणभंडार ते सवि अछइ य असार ।
संचइ मोहनबंध ते सच्चि जाणे गमार ॥ ९ ॥
लाछितणउ जउ गरव करेई लीजइ राउल छल ह धरेई ।
मणूयजन्म हवं सफल करीजइ जीविययौवनलाहउ लीजइ ॥ १० ॥
अधिरलाछि किम थिर ह करीजइ जिणह धंम तस ऊपम दीजइ ।
सेत्रुजि रिसहसामि वंदीजइ विविहप्रकारिइं प्रभु पूजीजइ ॥ ११ ॥

मिलि बंधवि कीयउ वयण प्रमाण एकचित्ति सवि समाण जाण ।
साते बंधवि कीयउ विचार सविहुं काजि लिउ नरसीअ भार ॥ १२ ॥
धम्मीय निसुणउ लोयमज्झि संघतणउ समाहउ भवीअणउ

आणूंअ दीजइ भत्तिजत्ति भवीया लहइ लाहउ धणकणउ ।
षेलसि रूलीयइ रंगि रास हवं नवरस नवरंग नवीयपरे

सुणि सामहणी संघतणी जो करइं निरंतर घरेहिं घरे ॥ १३ ॥

जोइन देवालउं सामुहिउं तीहं माहि सुरेसर जिण ठवीय ।

देसदेसाउर वरनयर तिहिं लेवि कंकोत्री पाठवीय ॥ १४ ॥

पाटणि पइसीय सामति तहिं कर्णनरेसर भेटीय वीनवीउ ।

तीरथजात्र जायवउं देव तहिं देसवटउ सपसाउ कीउ ॥ १५ ॥

तहिं वेगि लेउ पण आवीउ ए सयलसंघ तहिं हरसीय नीयमणि

नयर पसाइरउ कीधउ तक्खणि तहिं नाचइं कुतिगकुतिगीयां ।

घरि घरि बइसीय लोय मनावीय साजणसाहसरिस संम्हावी गामागर-

पुरपाटणह ॥ १६ ॥

दूसमसमइ अहि जिम तिरीयु तारणतरंड रिसह मनि धरीय फल

लीजइ जनमहतणउं ।

एकभावि नर जिणह धम्म परिरिहवरकलीय रमाउलीय ॥ १७ ॥

केवि कुतिग नर जोइं निरंतर भलां भलेरां अतिहिं वहिला ऋषभवर ।

कामिणि धामिणि धवल दियंती गायंती गुण जिणवरह ।

अतिऊमाहु जात्र समाहउ करीयल कंनि सुणंतीहं य ॥ १८ ॥

ते चउरा रूडा तडवां ताडी नवांनवेरां दीसइं गेहणगण सघण ।

ते घणाघणेरा समविसमेरा संखि न दीसइं असंखि पुण ॥ १९ ॥

देवालइ बालीय नयणि विसालीय दिंतीय ताली रंगि फिरंती हरिसभरे ।

तहिं नाचइं खेला बहुयत वेला बाला भोला लउडा रसि रमइं ॥ २० ॥

अतिरंगिं पूरी दिंता भमरी नवपरि नवरंगइ तियसपरे ।

परममहोच्छव कीउ देवालइ फागुणपंचमि वीतसीयालइ प्रस्थानं कीयं

पवरदिणि ॥ २१ ॥

संघपति सोहडदेउ वीनवीई तीरथजात्र जाइवउं गोसामीय ।

सेलहुत सीषामणह बहुय परघउ पणवि रहावीय ।

वहथमल्ल लेउ पत्तनि आवीय संघ देवालइन रोपीउ ए ॥ २२ ॥

संघपूज तिहां कीधउं अवारी भोगण सयल लोय सवि पूरीय

महोच्छव कारवीय ॥ २३ ॥

लढण ॥ फागुणदसमि दिणंद चलीय संघ दहदिसितणउ ।

हसमस धसमस जोइ मिलीय लोक पण अतिघणउ ए ॥ २४ ॥

वहतमल्ल अगेवाण तुरीय ठाठ जोइं पाषरीय ।

पुलेहिं पलाण जोइ इकि देवालइ फिरीय ॥ २५ ॥

पहिलउं दीथी लागि जोइन देवालां संचरइं ए ।

अखंड पीयाणे जाइ पहिलउं पीळूयाणइ रहीय ॥ २६ ॥

चलीय संघसंजुत्त पहुतउ वेगि डाभलनयरे ।

तींहं दीन्हा वास भास रास रुलीयामणां ए ।

देवालइ ऊछाहु चैत्रप्रवाडि सोहामणी ए ॥ २७ ॥

वडराउत वषाणि करणराउ मनि सलहीइ ए ।

देद दयापरजाम वील्हणवंस वषाणीइ ए ॥ २८ ॥

पहुतउ देवालइ तोइ हरसीय संघ प्रसंसीइ ए ।

पेथडसमउ न कोइ मारगि मन तुम्हि बीहिसिउ ए ॥ २९ ॥

दीन्ह पीयाणउं तोइ मयगलपरि तुम्हि संचरीय ।

वेगि पडूता तोइ नयरमाहि ते तरवरीय ॥ ३० ॥

आंगणि दीन्हा वास देवालां पाषलि फिरीय ।

भविंया पणमउ पास जिणह भूयण रुलीयामणउं ।

कीधीय चैत्रप्रवाडि देवदेवांगणि पेषणउं ए ॥ ३१ ॥

संघह कीउं वत्सल्ल धम्मी नागलपुरतणे ए ।

चलीय पीयाणइ जाम मारगि माग न जाणीइ ए ॥ ३२ ॥

सहू यालइ गीयं ताम संघपति पेथ वषाणीइ ए ।

नयणि निहालइ लोक पुण्यवंत धनवंत तहिं ॥ ३३ ॥

पूजीया जिणभूयणाइं भविंया मणोरह चित्ति धरे ।

कीउं पीयाणउं भावि अखलीयछीतीयहारि तहिं ॥ ३४ ॥

पेथावाडइ जाइ भेटीय मंडणदेव तहिं ।

लाधउं मानप्रमाण सीकिरि आवइं गुणपवरो ॥ ३५ ॥

भयु मनि करिवउ तुम्हि मारगि जाउ तम्हि ।

गिया ते जंबू जाम संघह पार न पामीय ए ।

भेटीय झलु ताम पणावि पीयाणउं धामीयहं ॥ ३६ ॥
 भडकूए आवास गोहिलसंडउ धरीय मनि ।
 बहुगुणवंत सुजाण राण पहूतउ तेण खणि ॥ ३७ ॥
 संघह दीन्ही धीर वलीय संघपति एकमनि ।
 राणपुरे संपत्त संघ कनालइन रहइ ए ॥ ३८ ॥
 चलीय सरीस उषराण वसहसंड संघपति भणइ ए ।
 मइं मनं मेल्हि निरास प्राण राणहूं मन हरेसो ॥ ३९ ॥
 बइठउ संघपतिपासि रंजीय क्लीयायत हरिसे ।
 गुणगरूउ सुवराउ लोलीयाणपुरसइं धणीय ॥ ४० ॥
 धरउ धर्मनउ ठाउ भवीय भाविं तीणइ बह भणीय ।
 दीन्ह पीयाणनीयाण उपरिं पीपलाइभणीय ।
 चउरा दीन्ह विहाण डूंगरा देषीय मनि क्लीय ॥ ४१ ॥

दीठउ डूंगर दूरिथियां चडीय सरोवरपाले ।
 संघपति दइं वधामणी हरिषीऊ ए हरिषीऊ ए हरिषीउ नयणि निहाले ॥४२॥
 कुंकुमि च्छडउ दिवारीउ ए तहिं पाथरीया पाट ।
 चाउलि चउक पूरावीउ ए सपरिपरे सपरिपरे सपरि पढइं बहुभट्ट ॥ ४३ ॥
 पढइं भाट संघपति निसुणि पेथड पुण्यपवित्त
 चंडसीहघरि अवतरीउ गुरुदेवे गुरुदेवे गुरुदेवे सुय सत्त ।
 थापीउ डूंगर पण तिलउ फूलपगर ते चंग
 पाउल नाचइं रंगभर गार्थती ए गार्थती ए गार्थती मनह सरंग ॥ ४४ ॥
 कापड कंचण दिन्ह तहिं बहुगुण पूरी आस ।
 संघपति करइ वधामणउं चलीऊ ए चलीऊ ए चलीउ पालीयताणइ वास ॥४५॥
 गंगाजल जिम निर्मलउं ललतासर सुपवित्त ।
 सीधषेत्र तीरथतिलउ तिससयरे तिससयरे तिससयरे संपत्त ॥ ४६ ॥
 मरुदेवि सामिणि पय नमीय संतिनाह सुरराउ ।
 पालितसूरिप्रतिष्ठिउ ए सोलमू ए सोलमू ए सोलमउ जिणराउ ॥ ४७ ॥
 डूंगरसिरि जे पाहरीय कवडिजक्खपडिहारो ।
 संघ जि सांनिध सो करइ पहिलूं ए पहिलूं ए पहिलूं पास जुहारे ॥ ४८ ॥
 अणुपम सर देषेवि तहिं पहूता पालिदूयारि ।
 सरगारोहण दिइ तहिं अहिणव ए अहिणव ए अहिणव ईणं संसारे ॥ ४९ ॥

अष्टापद अवलोइई ए इंद्रमंडप अतिचंग ।

नंदीसर अहिणव तहिं देषीऊ ए देषीऊ ए देषीउ मनिहिं सुरंग ॥ ५० ॥

मंडपि पद्दुतउ पवित्र तहिं लोटींगणां करेउ ।

पणमीय सामीय रिसहजिण तिन्नि प्रदक्षिण तिन्निप्रदक्षिण तिन्नि प्रदक्षिण
देउ ॥ ५१ ॥

दीठल्ला पदमहकमल निम्मल युगादि जिण पयठला सामी पढमजिण विम-
लगिरे ।

भवीयच्छुणंत सामी लागल्ला तम्ह वइं नांमिं नमो य नमो नमो सेत्रुजसिहरो५२

वायवद्धामणउं अतिहिं सोहामणुं रिसहभूअणि रलीआमणं ए

भवीयजन कलस कंचणमय मंडियले ए दुक्ख जलंजलि देयंति कुसुमंजले ॥

थुणंति दीणरीण जीण ऊतारंति जललवणनम्हण करंति सामी सुगंधजले ॥

कपूरिपूरि पूरीय तिणि कीय लि मृगनाभिमंडण त्रिजगगुरु

गुणनिलउ देवाभिदेव जोउ वेलवउ सेवत्रीपाडल वहल कुसुम परमल विपुल
पूजहे । वायवद्धामणं ॥

भवीयमणि बहआणंदि आरती ऊतारइ जिणिंद पढइं भट्ट मंगलिक रिसह-
सामि ।

तिलक भलउ लि कीय ले कंठि वरमाला ठविय ले चाउलि सिरि वद्धावीय लि ।
धन धामी वद्धामणउं ॥

भवीयजण रंजिय मनि दियंति ते दीण दुथीय जण मग्गण दाणु

नच्चंति नवनवी रमणि वीणवंसमृदंगमणि तिवल्लि तालनिनाद सुणि पूरीय
भवण । वाइवद्धामणुं ॥

आय कि रिसहेसर तम्ह परमेसर सामीसाल चिरकालि मुक्किवर ।

तम्हची पाय ए कमलभमर भविक जन जयउ जगनाथ तुं जगतगुरो ॥ वाय-
वद्धाम ॥

अखंडकोडाकोडि सिद्धि ले तीथयर गोत्र बंधीय ले पूजीयु हरिसह मनि मन
मिलीउ ।

आयस मग्गीय जव चलीय पूरीय संघ मरुलीय मनि निचंतीय पेथडकंठि टो-
डर ढलीउ । वायवद्धामणं ॥

आयस मग्गीय पेथ ज चलीउ ढलीय टोडर संघपति मोकलावए

सयलसंधो पहन पालीताणए घरि घरि साहमीवच्छल कारए ।

वावीय वित्त तिहि सयलसिद्धिक्षेत्रे जन्मफल लेउ जो बहुधणवंतइं रूपावटी
चलीय पीयाणए ।

वडउ संघातिपति लोक वखाणए सेलडीया संघ पहत तहि चलयउ अखंड
पीआणए ।

जाइ अमरेलीयपीयाणए पहतउ वेगि तहिं पण विक्रीयाणए विसमगिरि लं-
घीयउ पूरि मनि आसह ॥

तेजलपुरि अंगणि दीन्हा वास उग्रसेनमंदिरु दीठ पगार अयनरकवि भणइं
गढवि खइंगार ।

गरूअउ दीसए पोलिपगार नरपम नरसीअ नरआधार ॥

मंडलकि मंडिउ वास तहिं विसमए सुरठ वडदेस भोल लोक तहि निवसयए ।
गिरि गुरूउ गिरनार स पसिद्धउ ता लहि दमोदरो देय प्रसिद्धउ वहि सोवन-
रेख नदी जलपूरीय ।

कालमेघो क्षेत्रपाल गिरिपाहरी मंत्रिवाहड देवि पाज करावीय धवलीय वर
परव तीण करावीय ।

विसम इंगर गुरूउ गिरनारो चडीय नेमिकुमरि लीयउ संजमभारो
दिनि चउपनि वरनाण ऊपजइए जगतिगुरु जिणिह वर तसु सिहरे सिज्झए ॥
सीधु सामी सामलउ तसु सिहरी संघ पहूतउ ऊलट आंगिहिं अतिघणउ देषीउ

राजलकंत ! तहि नाचिनए ए सहिलडी ए लला गीय गिरिनारे

राजलिवर रुलिआमणउ सामलडउ संसारो । तहिं नाचिनए०॥

अंग पखालि सुगयंदमइ ए जल पहरीय धोति प्रवीत ।

इंद्रमहोत्सव आयरंभी तहिं बघठ लि बहुधणवंत । तहिं नाचिनए सहि० ॥

इंद्रमालउच्छाह करी जो वेवीय विभव नीयाणि ।

सफलमणोरह पूरीय संघपति चडीयलि इन्द्रविमानि ॥ तहिं नाचिनए० ॥

चमरधारि सरतारसवंगी गावंती बहु आसीस ।

सामलसाधि किरि संघपति नंदउ बहत वरीस ॥ तहिं नाचिनए० ॥

गयंदमइ ए नीरि कलस जलभरीय लि कपूरिहिं भंगी महापूज अहिसीम ।

नय कलीय लि आरती ऊतारउ मंगलिक संघपति ईम ॥ तहिं ना० ॥

अंबिकि आस मणोरह पूरी अवलोईय जगन्नाथ

सांबपजून जुहारीय वलीयउ पेथ जन्म सुकीयाथ ॥ तहिं नासहलली ए रुली-
या गई गिरिनारि ॥

सोमनाथचंदपह बंदीय देखीउ वलीउ जाम
 दिउ पीयाणं हिव मन रहिसउ मंडलिक भणइ ईम ॥ तहिं ना० ॥
 दिउ पीयाणं वेगि तहिं हरीयाला सूडा रे सूरवाहे संपत्त मनीला सूडारे ॥

इति श्रीप्राग्वाटवंशमौक्तिकव्य० पेशडरासः समाप्तः ॥

